



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 22—अप्रैल 28, 2006 (वैशाख 2, 1928)
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 22—APRIL 28, 2006 (VAISAKHA 2, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 08/2006

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2006—सी.डी.-II

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रैल 2006

सं. 8/3/2005-प I (ख)--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित कोर्सों में प्रवेश हेतु 17 सितम्बर, 2006 को एक सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी:

कोर्स का नाम तथा रिक्तियों की संभावित संख्या

(1) भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून, जुलाई, 2007 में प्रारंभ होने वाला 123वां कोर्स [एनसीसी 'सी' (सेना स्कंध) प्रमाणपत्र प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 32 रिक्तियां सम्मिलित हैं] 250

(2) नौ सेना अकादमी, गोवा, जुलाई, 2007 में प्रारंभ होने वाला कोर्स कार्यपालक (सामान्य सेवा/हाइड्रो) [एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारकों (नौ सेना स्कंध) के लिए 6 आरक्षित रिक्तियां शामिल हैं] 30

(3) वायु सेना अकादमी, हैदराबाद, जुलाई, 2007 में प्रारंभ होने वाले उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स अर्थात् नं. 182वां एफ (पी) कोर्स 32

(4) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई (मद्रास) अक्टूबर, 2007 से प्रारंभ होने वाला 86वां एसएससी कोर्स 163

टिप्पणी : उपरोक्त रिक्तियां अनुमानित हैं तथा सेना मुख्यालय द्वारा किसी भी समय बदली जा सकती हैं।

ध्यान दें : (1) (क) उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन पत्र के कालम 22 में यह स्पष्ट उल्लेख करे कि वह सेवाओं के अपने वरीयताक्रम में किस-किस पर विचार किये जाने का इच्छुक है। उन्हें यह भी परामर्श दिया जाता है कि वह नीचे पैरा-(ख) में बताई गई शर्तों के अनुसार जितनी वरीयताओं के इच्छुक हों उन सभी का उल्लेख करें, ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को देखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर यथोचित विचार किया जा सके।

(ख) वे उम्मीदवार जो भारतीय वायु सेना अकादमी में प्रवेश चाहते हैं, वायु सेना अकादमी (ए.एफ.ए.) को अपनी प्रथम प्राथमिकता के रूप में जरूर निर्दिष्ट करें क्योंकि उनके सेंट्रल मैडिकल एस्टैब्लिशमेंट/इंस्टीच्यूट आफ एविएशन मैडिसिन्स पर किसी एक ए.एफ.एस.बी. तथा ए.एफ. चिकित्सा में पायलट (विद्यमान चालक) एप्टीट्यूट बैटरी टेस्ट किया जाना है। ए.एफ.ए. के विकल्प को द्वितीय या तृतीय प्राथमिकता के रूप में निर्दिष्ट करने को अमान्य माना जाएगा।

यदि कोई उम्मीदवार अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के साथ-साथ किसी अन्य पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी, नौसेना अकादमी तथा वायुसेना अकादमी की प्रतियोगिता में भाग ले रहा है तो उसके लिए अंतिम विकल्प सदा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी ही होगा। अतः ऐसे मामलों में उम्मीदवार को अंतिम विकल्प के रूप में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी को उल्लेख ही करना चाहिए अन्यथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी उसका अंतिम विकल्प समझा जाएगा भले ही उम्मीदवार द्वारा इसके बारे में उच्चतर वरीयता दी गई हो। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी प्रथम वरीयता तभी हो सकती है जबकि वही एकमात्र विकल्प हो।

(ग) उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि नीचे ध्यान दें : (II) में बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त उन्हें केवल उन कोर्सों में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिसके लिए उन्होंने अपनी वरीयता लिखी होगी और अन्य किसी कोर्स (कोर्सों) के लिए नहीं।

(घ) किसी भी उम्मीदवार का अपने आवेदन प्रपत्र में पहले से निर्दिष्ट वरीयताओं को बढ़ाने/परिवर्तन करने के बारे में कोई अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार दी गई वरीयता में परिवर्तन नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी वरीयता पर भी तभी विचार किया जाएगा जब सेना मुख्यालय द्वारा उम्मीदवार को पहली वरीयता नहीं दी गई हो। जब उम्मीदवार को पहली वरीयता दी गई हो तथा उम्मीदवार ने उसे लेने से इंकार कर दिया हो तो नियमित कमीशन प्रदान करने हेतु अन्य वरीयताओं के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

ध्यान दें : (II) भारतीय सैनिक अकादमी/नौ सेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्सों के बचे हुए उम्मीदवार अर्थात् इस परीक्षा के अंतिम परिणाम के आधार पर स्थाई कमीशन प्रदान करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिनकी सिफारिश की गई है लेकिन जिन्हें किन्हीं कारणों से इन कोर्सों में शामिल नहीं किया जा सका है यदि वे बाद में अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों तो वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान करने के लिए विचार योग्य हो सकते हैं चाहे उन्होंने अपने आवेदन प्रपत्रों में इस कोर्स के लिए अपनी वरीयता नहीं बताई है :

- (i) यदि अल्पकालीन सेवा कमीशन कोर्स के लिए प्रतियोगी सभी उम्मीदवारों को लेने के बाद भी कमी है, और
- (ii) जो उम्मीदवार अल्पकालीन सेवा कमीशन हेतु वरीयता व्यक्त न करने पर भी प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं उन्हें वरीयता सूची के क्रम में उस अंतिम उम्मीदवार के बाद रखा जाएगा जिसने इस कोर्स के लिए अपना विकल्प दिया हुआ था क्योंकि ये उम्मीदवार उस कोर्स में प्रवेश पा जाएंगे जिसके लिए वे व्यक्त वरीयता के अनुसार हकदार नहीं हैं।

(iii) जिन उम्मीदवारों ने वायु सेना को प्रथम तथा अंतिम विकल्प के रूप में चुना है। यदि वे पायलट एप्टीट्यूट बैटरी टेस्ट में असफल हो जाते हैं तो उन्हें अल्पकालीन सेवा कमीशन (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी) प्रदान करने के लिए बचे हुए उम्मीदवारों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है। यदि ये उम्मीदवार अल्पकालीन सेवा कमीशन (अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी) के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों तो ऐसे उम्मीदवारों को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए भी अपना विकल्प देना चाहिए।

टिप्पणी-I : एन.सी.सी. [सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध (वरिष्ठ प्रभाग)/नौ सेना स्कंध] के 'सी' प्रमाणपत्र प्राप्त उम्मीदवार अल्पकालिक सेवा कमीशन कोर्सों की रिक्तियों के लिए भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं। धूँक उनके लिए इस कोर्स में कोई आरक्षण नहीं है अतः इस कोर्स में रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह समझा जाएगा। जिन उम्मीदवारों को अभी एन.सी.सी. में 'सी' प्रमाणपत्र (सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग/नौ सेना स्कंध) की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, किन्तु अन्यथा वे आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हों, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र (सेना स्कंध/वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग/नौ सेना स्कंध) की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो कि आईएमए/एसएससी प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में सेना मुख्यालय भर्ती, सीडीएसई एण्ट्री, वेस्ट ब्लाक-III, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 तथा नौसेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में नौसेना मुख्यालय, आर एण्ड आर अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ 3(ए)/वायु सेना मुख्यालय, 'जे' ब्लाक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 को 15 मई, 2006 तक पहुंच जाएं।

आरक्षित रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता की पात्रता हेतु उम्मीदवार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर में जो सेवा की हो वह सीनियर डिवीजन सेना स्कंध में 2 शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और सीनियर डिवीजन वायु सेना/नौ सेना स्कंध में 3 शैक्षणिक वर्षों से कम न हो और आयोग के कार्यालय में आवेदनों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को उसे राष्ट्रीय कैडेट कोर से मुक्त हुए भारतीय सैनिक अकादमी/नौ सेना अकादमी/वायु सेना अकादमी कोर्स के लिए 24 मास से अधिक न हुए हों।

टिप्पणी-II : भारतीय सैनिक अकादमी कोर्स/वायु सेना अकादमी कोर्स/नौ सेना अकादमी कोर्स में एनसीसी (सेना स्कंध/सीनियर डिवीजन वायु सेना स्कंध/नौ सेना स्कंध) के 'सी' प्रमाणपत्र धारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त इन उम्मीदवारों को पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा। आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्सों में प्रवेश दिया जाएगा।

(क) परीक्षा की योजना स्तर और पाठ्यविवरण, (ख) सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश तथा (ग) भारतीय सैनिक अकादमी, नौ सेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना क्रमशः परिशिष्ट-I, II और III में विस्तार से समझाये गये हैं।

2. परीक्षा केन्द्र: परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी:--

अगरतला, अहमदाबाद, ऐजल, इलाहाबाद, बंगलौर, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मद्रुरै, मुंबई, नागपुर, पणजी (गोवा), पटना, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची, सम्बलपुर, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर और विशाखापट्टनम।

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीख में परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिए उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास किए जाएंगे, तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपने विवेक से अलग केन्द्र दे सकता है। जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा, किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है। ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा। किन्तु 21 जून, 2006 के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट : उम्मीदवार को अपने आवेदन-प्रपत्र में परीक्षा के लिए पसंद के केन्द्र भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। एक ही उम्मीदवार द्वारा अलग-अलग केन्द्र देते हुए एक से अधिक आवेदन प्रपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पूरे भरे हुए आवेदन प्रपत्र भेजे तो भी आयोग अपने विवेक से केवल एक ही आवेदन प्रपत्र स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

यदि कोई उम्मीदवार अपने प्रवेश-प्रमाण पत्र में आयोग द्वारा दर्शाए गये केन्द्र/प्रश्न पत्र के अलावा किसी अन्य केन्द्र/प्रश्न पत्र में परीक्षा में बैठता है, तो ऐसे उम्मीदवार की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रीयता

उम्मीदवार या तो :--

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा, या

3. भूटान की प्रजा, या

4. तिब्बती शरणार्थी, जो स्थायी रूप से भारत में रहने के इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले आ गया हो, या

5. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कीनिया, उगाण्डा तथा तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, जांबिया, मलावी, जैरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजित कर आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो। लेकिन नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे उक्त परीक्षा में इस शर्त पर अनंतिम रूप से प्रवेश दिया जा सकता है, कि सरकार द्वारा उसे आवश्यक प्रमाणपत्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम की घोषणा से पहले दे दिया जाए।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग तथा वैवाहिक स्थिति :

(1) भारतीय सैनिक अकादमी के लिए : केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 2 जुलाई, 1983 से पहले का तथा पहली जुलाई, 1988 के बाद का न हो।

(2) नौ सेना अकादमी के लिए : केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 2 जुलाई, 1985 [एनसीसी 'सी' (नौ सेना स्कंध) प्रमाण पत्र धारियों के लिए 2 जुलाई, 1983] से पहले का तथा पहली जुलाई, 1988 के बाद का न हो।

(3) वायु सेना अकादमी के लिए : केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं जिनका जन्म 2 जुलाई, 1984 से पहले का तथा पहली जुलाई, 1988 के बाद का न हो।

(4) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए : केवल ऐसे पुरुष उम्मीदवार (विवाहित या अविवाहित) ही पात्र हैं जिनका जन्म 2 जुलाई, 1982 से पहले का तथा पहली जुलाई, 1988 के बाद का न हो।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्ट्रों में दर्ज की गई हो और वह उद्धारण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या हायर सैकंडरी या समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज हो। ये प्रमाणपत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ पत्र, नगर निगम से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धारण, सेवा अभिलेख तथा अन्य ऐसे ही प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए 'मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं। कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र में जन्म की

तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष और महीने ही दिये होते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्थान के हैड मास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए, जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाणपत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें परिवर्तन या बाद की किसी अन्य परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र के कॉलम 8 में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक तथा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

- (1) भारतीय सैनिक अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष योग्यता।
- (2) नौसेना अकादमी के लिए : बीएससी डिग्री (भौतिकी एवं गणित विषयों सहित) अथवा इंजीनियरी के स्नातक।
- (3) वायु सेना अकादमी के लिए : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री (10+2 स्तर तक भौतिकी एवं गणित विषयों सहित) अथवा इंजीनियरी के स्नातक।

थल सेना/नौसेना/वायु सेना की पहली वरीयता वाले स्नातकों को ग्रेजुएशन के प्रमाण के रूप में स्नातक/अंतिम प्रमाणपत्र सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के दिन सेवा चयन बोर्ड केन्द्र पर प्रस्तुत करने होंगे।

जो उम्मीदवार डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं तथा अभी अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु उनको डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण आईएमए/एसएससी प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में सेना मुख्यालय/भर्ती, सीडीएसई ऐन्टी, वैस्ट ब्लॉक-III, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 तथा नौसेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवार के मामले में नौसेना मुख्यालय, 'डीएमपीआर' आर एण्ड आर अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को और वायु सेना के प्रथम विकल्प वाले उम्मीदवारों के मामले में पीओ 3(ए) वायु सेना मुख्यालय, 'जे' ब्लॉक,

कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 को निम्नलिखित तारीख तक पहुंच जाएं। जिसके न पहुंचने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी :-

- (1) भा. से. अकादमी, नौ सेना तथा वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए 15 मई, 2007 तक या उससे पहले।
- (2) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई में प्रवेश के लिए 1 अगस्त, 2007 तक या उससे पहले।

जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यताप्राप्त हो वे भी परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं में से किसी से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है जिसके पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका स्तर आयोग के विचार में, इस परीक्षा में प्रवेश पाने योग्य हो।

टिप्पणी-1 : वे उम्मीदवार जिन्होंने डिग्री परीक्षा अभी उत्तीर्ण करनी है तभी पात्र हो सकते हैं जब वे डिग्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हों। ऐसे उम्मीदवार जिन्हें अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा में अभी अर्हता प्राप्त करनी है और जिनको संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उनको दी गई यह विशेष छूट है। उन्हें डिग्री उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करना है और बुनियादी अर्हक विश्वविद्यालय परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम की घोषणा में विलम्ब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अगर प्रवेश दिया गया तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

टिप्पणी-3 : उड़ान सीखने में असफलता के कारण वायु सेना के जिन उम्मीदवारों को उड़ान प्रशिक्षण से निलंबित किया जा रहा हो उन्हें भारतीय वायु सेना की नौ परिवहन/प्रशासन/सैन्य तंत्र शाखा में शामिल किया जाएगा। लेकिन यह रिक्तियों की उपलब्धता तथा उल्लिखित गुणात्मक जरूरतों के अध्यधीन होगा (स्नातक 60% अंकों सहित)।

(घ) शारीरिक मानक :

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2006 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को परिशिष्ट-V में दिए गए शारीरिक मानकों के लिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

4. शुल्क :

परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को आयोग को 100/- रु. (केवल एक सौ रुपये) के शुल्क का भुगतान केवल एक केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट से करना होगा। केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट (डाक टिकट नहीं) डाकघर से प्राप्त करें और आवेदन प्रपत्र पर इसके लिए निर्धारित स्थान पर चिपका दें। जारी करने वाले डाकघर की तारीख की मोहर सहित उस टिकट को इस तरह से रद्द किया जाए कि रद्द करने की मोहर की छाप आंशिक रूप से आवेदन प्रपत्र पर किंतु दिए गए स्थान के अंदर, अपने आप आ जाए। रद्द करने वाली मोहर की छाप स्पष्ट होनी चाहिए ताकि तारीख तथा जारी करने वाले डाकघर की पहचान स्पष्ट रूप से हो सके।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश में स्थित प्रतिनिधि के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो इस अनुरोध के साथ जमा करना होगा ताकि वह "051-लोक सेवा आयोग-परीक्षा शुल्क" के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और आवेदन प्रपत्र के साथ उसकी रसीद लगा कर भेजनी चाहिए।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्व शुल्क का भुगतान करना होगा।

"केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट" के स्थान पर किसी भी हालत में डाक टिकट स्वीकार नहीं की जाएगी।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि बैंक ड्राफ्ट, भारतीय प्रोस्टल आर्डर, मनीआर्डर, रेखांकित चेक, चलमुद्रा नोट या ट्रेजरी चालान आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन प्रपत्रों को शुल्क रहित माना जाएगा तथा उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-2 : जिन आवेदन-पत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

टिप्पणी-3 : किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा।

5. आवेदन कैसे करें:

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी सभी परीक्षाओं के लिए सामान्यतः एक आवेदन प्रपत्र तैयार किया है जिसे कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा जांचा जा सकता है। आवेदन प्रपत्र के साथ सूचना विवरणिका जिसमें प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, पावती कार्ड एवं आवेदन प्रपत्र भेजने के लिए एक लिफाफा शामिल है, नोटिस के परिशिष्ट-III में सूचीबद्ध देश भर के निर्दिष्ट किए प्रधान डाकघरों/डाकघरों से 20 रु. (केवल बीस रुपये) नकद भुगतान करके प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रपत्र केवल निर्दिष्ट किए प्रधान डाकघरों/डाकघरों से ही खरीदने चाहिए किसी अन्य एजेंसी से नहीं। यह प्रपत्र एक परीक्षा के लिए केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है। उम्मीदवार केवल सूचना विवरणिका के साथ दिए गए प्रपत्र का प्रयोग करें तथा उन्हें किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छायाप्रति/प्रतिलिपि/अप्राधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चूंकि इस प्रपत्र की इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा बारीकी से जांच की जाती है, आवेदन प्रपत्र को सही ढंग से भरने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र को भरते समय, कृपया नोटिस के परिशिष्ट-II में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को देखें। उम्मीदवार को पावती कार्ड के संगत स्थानों पर अपना आवेदन प्रपत्र संख्या (आठ अंकीय) और परीक्षा का नाम भी भरना चाहिए। आवेदक को आवेदन-प्रपत्र के साथ पावती कार्ड पर रु. 6/- (छः रुपये मात्र) का डाक टिकट लगाकर उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा। यदि आवेदक वांछित मूल्य का डाक टिकट नहीं लगाता है, तो उसका पावती कार्ड प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा कार्ड को आवेदक द्वारा प्राप्त न किए जाने के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। विधिवत् भरा हुआ आवेदन प्रपत्र, पावती कार्ड तथा एस. एस. बी. साक्षात्कार पत्र प्राप्त करने के लिए एक बिना टिकट लगे एवं अपना पता लिखे हुए लिफाफे को तब सूचना विवरणिका के साथ दिए विशेष लिफाफे

में भेजे जाने चाहिए। लिफाफा 'सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110 069' को भेजने से पहले आपको उसके ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात् 'सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (II), 2006' भी लिखना चाहिए।

(ख) सभी उम्मीदवारों को (सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत उम्मीदवारों के अलावा) अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन प्रपत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो। जो व्यक्ति लोक उद्यमों में सेवारत हैं, उनको यह परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में सेवारत हैं उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र अपने कमांडिंग अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए, जिन्हें वे अग्रेषण पत्र के साथ आवेदक का नाम तथा आवेदन प्रपत्र क्रमांक (8 अंकीय) का उल्लेख करते हुए, आयोग को अग्रेषित करेंगे। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है/उनका आवेदन प्रपत्र रद्द किया जा सकता है।

टिप्पणी : जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपयुक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे या गलत भरे हुए हों, उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जायेगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणी और शुल्क में छूट आदि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। आयोग ने जिस परीक्षा में उन्हें प्रवेश दिया है उसके प्रत्येक स्तर, अर्थात्--लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षण स्तर पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण से पूर्व या बाद में किसी समय सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे किसी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाने के शीघ्र बाद जिसकी दिसम्बर, 2006 माह में घोषित किए जाने की संभावना है, सेना मुख्यालय/नौ सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय, जैसा मामला हो, को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को उनकी सत्यापित प्रतियों सहित तैयार रखें:

(1) जन्म की तारीख दर्शाते हुए मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र अथवा इसके समकक्ष।

(2) डिग्री/अंतिम डिग्री प्रमाणपत्र/अंक सूची जिसमें स्पष्ट रूप से यह दर्शाया गया हो कि डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और डिग्री पाने के पात्र हैं।

प्रथमतः सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए पात्र सभी अर्हक उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सेवा चयन केन्द्रों में साक्षात्कार के लिए जाते समय अपने साथ मैट्रिक/हायर सेकेन्ड्री स्कूल प्रमाणपत्र सहित डिग्री/प्रोविजनल डिग्री प्रमाणपत्र/अंक सूची मूल रूप में अपने साथ लेकर जाएंगे। वे उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा पास नहीं की है उन्हें कालेज/संस्था के प्रधानाचार्य से इस आशय का मूल प्रमाणपत्र साथ लेकर आना चाहिए कि उम्मीदवार डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो चुका/रहा है। जो उम्मीदवार सेवा चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त प्रमाणपत्र अपने साथ नहीं लाते हैं तो उन्हें सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। चयन केन्द्रों पर उपर्युक्त मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न करने के बारे में कोई छूट नहीं दी जाती है तथा जो उम्मीदवार उपर्युक्त प्रमाण पत्रों में से कोई मूल प्रमाणपत्र साथ नहीं लाते हैं तो उन्हें सेवा चयन बोर्ड परीक्षण तथा साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें उनके खर्च पर उनके घर वापिस भेज दिया जाएगा।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित ऋदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है:

- (i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
- (iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या
- (iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गये प्रलेख प्रस्तुत करना, या
- (v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या
- (vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- (viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अस्वील भ्रष्ट में या अभद्र आशय की हों, या
- (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या
- (x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या
- (xi) परीक्षा के दौरान कोई सेलूलर/मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
- (xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, या

(xiii) ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना।

तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे:

- (क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा
- (ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिये :
 - (1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,
 - (2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और
- (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है,

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

- (1) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और
- (2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि वे आवेदन प्रपत्र, नियमावली, पाठ्यक्रम आदि के लिए संघ लोक सेवा आयोग को न लिखें।

परिशिष्ट-III में सूचीबद्ध प्रधान डाकघरों/डाकघरों से खरीदे गये आवेदन प्रपत्र का ऊपर समझाए तरीके के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए।

6. आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि :

- (i) पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 को 22 मई, 2006 तक अथवा इससे पहले पहुंच जाना चाहिए।
- (ii) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपमंडल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप और विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों से केवल डाक द्वारा (डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा) प्राप्त होने वाले आवेदन प्रपत्रों के मामलों में अंतिम तारीख 29 मई, 2006 है। उपर्युक्त क्षेत्रों/प्रदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए दिया गया अतिरिक्त समय-सीमा का लाभ केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त आवेदन प्रपत्रों के मामले में ही दिया जाएगा। वैयक्तिक रूप से अथवा कूरियर सेवा से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों के मामलों में आवेदकों के निवास स्थान पर ध्यान दिए बिना, अतिरिक्त समय सीमा का लाभ नहीं मिलेगा।

अतिरिक्त समय सीमा के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के कालम 13(II) में अपने आवासीय पते में उस विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश, (अर्थात् असम, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर आदि) जहां वे रह रहे हैं, के क्षेत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-I : उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से यह नोट कर लेना चाहिए कि उनके आवेदन प्रपत्र के प्राप्त न होने अथवा प्राप्ति में किसी भी कारण से देर होने के लिए आयोग किसी भी हालत में उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित अंतिम समय के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन प्रपत्र को आयोग किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा तथा देरी से प्राप्त होने वाले आवेदन प्रपत्रों को तुरन्त अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनका आवेदन प्रपत्र निर्धारित अंतिम तारीख को या उससे पहले आयोग के कार्यालय में पहुँच जाए।

टिप्पणी-II : उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र आयोग के काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से भी जमा कर सकते हैं। आयोग के कार्यालय में कार्यरत किसी पदाधिकारी को दिए गए आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी-III : कूरियर सेवा अथवा कूरियर जैसी अन्य सेवा के माध्यम से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों को आयोग के काउन्टर पर "दस्ती रूप से" जमा किए गए आवेदन प्रपत्रों के रूप में माना जाएगा।

7. आवेदन प्रपत्रों की पावती :

उम्मीदवार से आवेदन प्रपत्र प्राप्त होते ही उसके द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ जमा कराए गए पावती कार्ड पर उसका आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के प्रमाण के तौर पर मुहर लगाकर आयोग के कार्यालय द्वारा उसे भेज दिया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को 30 दिन के भीतर पावती कार्ड नहीं प्राप्त होता है तो उसे आवेदन प्रपत्र सं. (8 अंकों में), परीक्षा का नाम तथा वर्ष दर्शाते हुए तत्काल आयोग से संपर्क करना चाहिए। आयोग के काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रपत्र जमा कराने वाले उम्मीदवारों को काउन्टर पर ही पावती कार्ड दे दिया जाएगा। केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवार का आवेदन प्रपत्र आयोग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है इसका तात्पर्य यह कैदपि नहीं है कि परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया गया है। उम्मीदवारों को उनके परीक्षा में प्रवेश अन्यथा उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किए जाने के बारे में शीघ्रातिशीघ्र सूचित कर दिया जाएगा।

8. आयोग/सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार:

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा :-

(i) इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन प्रपत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को अनुक्रमांक केन्द्र तथा प्रवेश दिए गए पाठ्यक्रमों को दर्शाते हुए प्रवेश प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा। प्रवेश प्रमाण पत्र पर उम्मीदवार के फोटोग्राफ का समावेश होगा। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबंध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। ऐसी किसी सूचना के प्राप्त होने पर प्रवेशित उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी अनुलिपि भेज दी जायेगी। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारम्भ होने से कम

से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिये वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए पते की फोटो कापी लेकर प्रेषित किये जायेंगे। अतः उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिया गया पता पिन कोड सहित पूर्ण है।

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाण पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को आयु और शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनकी पात्रता तथा उनके द्वारा दर्शाई गई वरीयता के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि परीक्षा में प्रवेश, आवेदन प्रपत्र पर उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पूर्णतः अनंतिम होगा। यह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्वधीन होगा।

(ii) यदि उम्मीदवार को आयोग से एक से अधिक प्रवेश प्रमाण-पत्र प्राप्त होते हैं, तो वह परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उन प्रवेश प्रमाण पत्रों में से एक ही प्रवेश पत्र का उपयोग करेगा तथा अन्य प्रवेश पत्र को आयोग कार्यालय को लौटा देगा।

(iii) यदि कोई उम्मीदवार किसी अन्य दूसरे उम्मीदवार का प्रवेश प्रमाण पत्र गलत कार्रवाई के कारण पाता है, उस प्रवेश प्रमाण को तत्काल आयोग को अनुरोध के साथ सही प्रवेश प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु लौटाना चाहिए। उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि अन्य दूसरे उम्मीदवार के संबंध में निर्गत किए गए प्रवेश प्रमाण पत्र पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

(iv) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(v) उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(vi) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि आवश्यक होने पर उनके बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

महत्वपूर्ण : आयोग/सेना मुख्यालय से पत्र-व्यवहार करते समय निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए :-

1. परीक्षा का नाम और वर्ष
2. आवेदन प्रपत्र संख्या (आठ अंकीय)
3. अनुक्रमांक नम्बर (यदि प्राप्त हुआ हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)
5. पत्र व्यवहार का पूरा पता, टेलीफोन नंबर सहित, यदि कोई हो, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।

विशेष ध्यान दें : (1) जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

(2) यदि किसी परीक्षा समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है या जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(3) सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद, अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिए लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल सेना मुख्यालय, बिना टिकट लगे एवं अपना पता लिखे हुए लिफाफे के साथ ए.जी. ब्रांच रिक्रूटिंग (सी. डी. एस. ई. एन्ट्री) वेस्ट ब्लॉक 3, विंग-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को और नौ सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को नौ सेना मुख्यालय, आर. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 तथा वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को पी.ओ.-3(ए) वायु सेना मुख्यालय, 'जे' ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 के पते पर सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए अनुशंसित हैं तथा जिनकी प्रथम वरीयता भारतीय सैनिक अकादमी/नौ सेना अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी है उनको अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध सीधे सेना मुख्यालय, ए.जी.ब्रांच, रिक्रूटिंग (सी. डी. एस. ई. एन्ट्री) वेस्ट ब्लॉक 3, भूतल विंग-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 और वायु सेना प्रथम वरीयता उम्मीदवारों के लिए पी. ओ. 3 (ए) वायु सेना मुख्यालय, "जे" ब्लॉक, कमरा नं. 17, वायु भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011 तथा नौ सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों को नौ सेना मुख्यालय, आर. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर लिखने चाहिये।

उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए भेजे गए सम्मन-पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करनी है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबंधित अनुरोध पर केवल यथार्थ परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय/नौ सेना मुख्यालय होगा। ऐसे अनुरोध उस चयन केन्द्र/सेवा चयन बोर्ड, जहां से साक्षात्कार प्रस्ताव प्राप्त होता है, को भेजे जाने चाहिए।

विशेष ध्यान दें : यदि किसी उम्मीदवार को भारतीय सैनिक अकादमी हेतु फरवरी, 2007 के चौथे हफ्ते तक और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी हेतु अप्रैल, 2007 के चौथे हफ्ते तक सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे सेना मुख्यालय/भर्ती (सी.डी.एस. ई.एन्ट्री), वेस्ट ब्लॉक 3, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को साक्षात्कार पत्र न मिलने के बारे में लिखना चाहिए अथवा दूरभाष सं. 26173215 पर संपर्क करना चाहिए नौसेना/वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों

द्वारा इसी प्रकार के प्रश्न के मामले में उन्हें नौ सेना मुख्यालय/वायु सेना मुख्यालय को लिखना चाहिए जैसा कि विशेष ध्यान-III में उल्लिखित है (फरवरी, 2007 के चौथे सप्ताह तक पत्र न मिलने की स्थिति में)।

(vii) मूल प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण : सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कारों में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार के बाद शैक्षिक योग्यता के समर्थन में अपने मूल प्रमाण पत्र (प्रत्येक की दो सत्यापित प्रतियाँ सहित) सेवा चयन बोर्ड/केन्द्र पर प्रस्तुत करने होंगे। उन उम्मीदवारों को जो डिग्री परीक्षा में बैठ रहे हैं, अपने प्रमाण पत्र 15 मई, 2007 (केवल एस.एस.सी. के मामले में 1 अगस्त, 2007) तक प्रस्तुत करने होंगे। तत्संबंधी अनुदेश सेवा चयन/बोर्ड केन्द्र पर दिए जाएंगे। मूल प्रमाण पत्रों को सत्यापन के बाद लौटा दिया जायेगा। प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ अथवा फोटो प्रतियाँ किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

9. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अन्तिम परिणाम की घोषणा और अन्तिम रूप से योग्य पाये गये उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किए जाते हैं उन्हें संबंधित सेवा मुख्यालय द्वारा उनकी वरीयता के आधार पर सेवा चयन बोर्ड में बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए भेजा जाता है। सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षण के परिणाम सभी पाठ्यक्रमों के लिए उचित रूप से रहेंगे (अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी)(डीई) पाठ्यक्रम, देहरादून नौसेना अकादमी गोवा पाठ्यक्रम, वायु सेना अकादमी (उड़ान-पूर्व) पाठ्यक्रम हैदराबाद तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, मद्रास पर एसएससी (एन्टी) पाठ्यक्रम जिनके लिए उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा पास की है चाहे उसे आयोजित करने वाला सेवा मुख्यालय कोई भी हो।

सेवा चयन बोर्ड में मनोवैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण पर आधारित द्विस्तरीय चयन प्रक्रिया आरंभ की है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों पर रिपोर्ट करने के पहले दिन ही पहले स्तर का परीक्षण दिया जायेगा। केवल वे उम्मीदवार जो पहले स्तर का परीक्षण पास कर लेते हैं, उन्हें द्वितीय स्तर/शेष परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा तथा वे सभी उम्मीदवार जो पहला स्तर पास करने में असफल रहते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। द्वितीय स्तर के सफल उम्मीदवारों को निम्नलिखित की एक-एक फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी :-

(I) जन्म तिथि के समर्थन में मैट्रिकुलेशन पास प्रमाण पत्र या समकक्ष।

(II) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में सभी वर्षों/सेमिस्टों के अंक पत्रकों सहित बैचलर डिग्री/अनन्तिम डिग्री।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपने ही जोखिम पर वहां के परीक्षाओं में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के वे हकदार नहीं होंगे, वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में

अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा तथा से.च. बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में रखा जायेगा। अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में किस प्रकार सूचित किये जायें इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। परीक्षा में सफल होने मात्र से ही भारतीय सैनिक अकादमी, नौ सेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में, जैसी स्थिति हो, प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अंतिम चयन शारीरिक क्षमता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या की दृष्टि में रखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा।

टिप्पणी : वायु सेना/नौसेना विमानन के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट संबंधी अभिरुचि का परीक्षण केवल एक बार किया जाता है। अतः पहले परीक्षण में उसने जो ग्रेड प्राप्त किया है, उसकी वायु सेवा चयन बोर्ड के लिए किए जाने वाले बाद के प्रत्येक साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा। वे उम्मीदवार जो भारतीय नौ सेना चयन बोर्ड/पायलट एप्टीच्यूड बैट्री टेस्ट में पहले अनुत्तीर्ण रहे हैं तथा वे जो प्रायः चश्मा पहनते हैं, वायु सेना के लिए योग्य नहीं हैं।

उन उम्मीदवारों का वायु सेना चयन बोर्डों में परीक्षण/साक्षात्कार जो वायु सेना के लिए एक से अधिक स्रोतों से आवेदन करते हैं : एफ (पी) कोर्स में प्रवेश के लिए तीन तरीके हैं अर्थात् सी.डी.एस.ई./एन.सी.सी./एयरमैन। वे उम्मीदवार जो वायु सेना के लिए एक से अधिक स्रोतों से आवेदन करते हैं, उनका वायु सेना चयन बोर्डों में वायु सेना के लिए केवल एक बार परीक्षण/साक्षात्कार होगा। कामन उम्मीदवार जो एनसीसी या एयरमैन के रूप में आईएनएस-बी/पीएबी परीक्षण में असफल हो जाते हैं और यदि यह पता चलता है कि उसने, सी.डी.एस. परीक्षा के माध्यम से भी आवेदन किया है तो उन्हें केवल थल सेना/नौ सेना/अधिकारी प्रशिक्षण सेवा के लिए ओ.एल.क्यू. परीक्षण के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। जो उम्मीदवार आई.एम.ए. (डी.ई.) कोर्स और/या नौ सेना (एसई) कोर्स और/या वायु सेना अकादमी कोर्स की लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे वे एसएससी कोर्स के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं या नहीं उनको फरवरी से अप्रैल, 2007 में सेवा चयन बोर्ड के परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और जो उम्मीदवार केवल एस.एस.सी. कोर्स के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं उनको अप्रैल से जून, 2007 में सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिए भेजा जाएगा।

10. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैनिक अकादमी, वायु सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी, गोंवा और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई (मद्रास) में पहले प्रवेश पा चुके हैं पर अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये हैं, उनको भारतीय सैनिक अकादमी, नौ सेना अकादमी, वायु सेना अकादमी या थल सेना अकादमी से अल्पकालीन सेवा कमीशन में प्रवेश देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण पहले भारतीय सैनिक अकादमी से वापस किया गया हो उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एण्ट्री नेवल कैडेट्स के रूप में चुन लिया गया हो पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौ सेना प्रतिष्ठानों से वापस किया हो वे भारतीय नौ सेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, एन.सी.सी. तथा स्नातक कोर्स से वापस लिया गया हो, उनके बारे में थल सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जायेगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी से अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण एन.सी.सी. तथा स्नातक कोर्स से पहले वापस किया गया हो उनको भारतीय सैनिक अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

11. भारतीय सैनिक अकादमी या नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबंध :

भारतीय सैनिक अकादमी और नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी के कोर्स के उम्मीदवारों को इस बात का परिचय देना है कि जब तक उसका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिये चुना नहीं जाएगा चाहे वह इस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो, जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में ही शादी कर लेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया वह सब उससे वसूल किया जायेगा। अल्पकालिक सेवा कमीशन के पाठ्यक्रम का कोई उम्मीदवार :

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की हो या शादी के लिये अनुबंध कर लिया हो जिसकी पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है या थी।

(ख) जिसने पहले से जीवित पति/पत्नी होते हुए भी किसी व्यक्ति से शादी की हो या शादी के लिये अनुबंध कर लिया हो।

अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश/अल्पकालीन सेवा कमीशन की प्राप्ति का पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस तरह की शादी ऐसे व्यक्तियों के लिए और शादी की दूसरी तरफ के व्यक्तियों के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार अनुमोदनीय है और ऐसा करने के अन्य ठोस कारण हैं तो किसी व्यक्ति को वह इस नियम के अनुपालन में छूट दे सकती है।

12. भारतीय सैनिक अकादमी या नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबंध :

भारतीय सैनिक अकादमी, नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद, उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिये विचार योग्य नहीं होंगे। भारतीय सैनिक अकादमी या नौ सेना अकादमी या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उनको और किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. उम्मीदवार को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबद्ध उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ए. के. खन्ना

उप सचिव

संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना :

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

(क) नीचे के पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा,

(ख) उन उम्मीदवारों का बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण (इस परिशिष्ट के भाग-ख के अनुसार) के लिए साक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक सर्विसेज सेलेक्शन सेंटर में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

2. लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिये दिया जाने वाला समय और प्रत्येक विषय के लिए नियत अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे:--

(क) भारतीय सैनिक अकादमी, नौ सेना अकादमी और वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिये :

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
3. प्रारंभिक गणित	2 घंटे	100

(ख) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश के लिए :

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो अधिकतम अंक नियत किये गये हैं, वे प्रत्येक विषय के लिए समान होंगे अर्थात् भारतीय सैनिक अकादमी, नौ सेना अकादमी, वायु सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए नियत अधिकतम अंक क्रमशः 300, 300, 300 और 200 होंगे।

3. सभी विषयों के प्रश्न-पत्र केवल वस्तुपरक प्रकार के होंगे। सामान्य ज्ञान तथा प्रारंभिक गणित के प्रश्न-पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में तैयार किए जाएंगे।

4. प्रश्न-पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी।

6. परीक्षा के एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग के विवेक पर है।

7. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (परीक्षण-पुस्तिकाओं) के उत्तर देने के लिये कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः वे उसे परीक्षा भवन में न लाएं।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण :

स्तर

प्रारंभिक गणित के प्रश्न-पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा, अन्य विषयों में प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

पाठ्य विवरण

अंग्रेजी (कोड सं. 01)

प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा कि जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी और अंग्रेजी के शब्दों के बोध की परीक्षा ली जा सके।

सामान्य ज्ञान (कोड सं. 02)

सामान्य ज्ञान तथा साथ में समसामयिक घटनाओं और दिन-प्रतिदिन देखें और अनुभव किए जाने वाले इसी तरह के मामले के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी, जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। प्रश्न-पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार को उन विषयों का विशेष अध्ययन किये बिना देना चाहिए।

प्रारंभिक गणित (कोड सं. 03)

अंकगणित

संख्या पद्धतियां : घनपूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संक्रियाएं, मूल संक्रियाएं--जोड़, घटाना, गुणन और विभाजन, वर्गमूल, दशमलव भिन्न।

एकिक विधि : समय तथा दूरी, समय तथा कार्य, प्रतिशतता, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अनुप्रयोग, लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात विवरण।

प्रारंभिक संख्या सिद्धांत : विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, 2, 3, 4, 5, 9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण अपवर्त्य और गुणन खंड/गुणन खंडन प्रमेय/महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य, यूक्लिड की कलन विधि।

आधार 10 तक लघुगुणक, लघुगुणक के नियम, लघु-गणकीय, सारणियों का प्रयोग।

बीजगणित

आधारभूत संक्रियाएं : साधारण गुणन खंड, शेष फल प्रमेय, बहुपदों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य सिद्धांत, द्विघ समीकरणों का हल, इसके मूलों और गुणांकों के बीच संबंध (केवल वास्तविक मूल पर विचार किया जाए)। दो अज्ञात राशियों में युगपत रेखिक समीकरण, विश्लेषण और ग्राफ संबंधी हल, दो चरों में युगपद रेखिक आसमिकाएं और उनके हल, प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो युगपद, रेखिक समीकरण या आसमिकाएं बनती हैं या एक चर में द्विघात, समीकरण तथा उनके हल समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा प्रतिबंध तत्समक घातक नियम।

त्रिकोणमिति

ज्या x , कोटिज्या x , स्पर्श रेखा x जब $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ ज्या x , कोटिज्या x , स्पर्श रेखा x का मान जबकि $x=0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ और 90° सरल त्रिकोणमितीय तत्समक त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग, ऊंचाईयों और दूरियों के सरल कोण।

ज्यामिति

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति : निम्नलिखित पर प्रमेय : (1) किसी बिंदु पर कोणों के गुण धर्म, (2) समांतर रेखाएं,

(3) किसी त्रिभुज की भुजाएं और कोण, (4) त्रिभुज की सर्वांगसमता, (5) समरूप त्रिभुज, (6) माध्यिकाओं और शीर्ष लम्बों का संगमन, (7) समानान्तर चतुर्भुजों, आयत और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकल्पों के गुण धर्म, (8) वृत्त और उनके गुण धर्म जिसमें, स्पर्श रेखा तथा अभिलम्ब भी शामिल हैं, (9) स्थानित संयक।

विस्तार कलन

वर्गों, आयतों, समानांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल, उन आकृतियों के क्षेत्रफल जो इन आकृतियों में विभाजित की जा सकती हैं। (क्षेत्र वही) घनामों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, लम्ब वृत्तीय शंकुओं और बेलनों का पार्श्व-पृष्ठ तथा आयतन/गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।

सांख्यिकी

सांख्यिकी तथ्यों का संग्रह तथा सारणीयन, आरेखी निरूपण, बारम्बाराता, बहुभुज आयत, चित्र शलाका चार्ट, पाई चार्ट आदि केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप रेखाओं के बीच कोण।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

उम्मीदवारों की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित बुद्धि परीक्षा ली जायेगी। उनके गुप परीक्षण भी किये जायेंगे। जैसे गुप परिचर्या, गुप योजना, बहिरंग गुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जायेगा। ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेधा शक्ति की जांच के लिए हैं। मोटे तौर पर यह परीक्षण वास्तव में न केवल उनके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए हैं अपितु इससे उनकी सामाजिक विशेषताओं तथा सामाजिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

परिशिष्ट-II

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानकों संबंधी दिशा-निर्देश

टिप्पणी : उम्मीदवारों को निर्धारित मानकों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थता संबंधी मानक और तत्संबंधी दिशानिर्देश नीचे दिये जाते हैं। बहुत से अर्हता प्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

1. सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेना के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। अकादमी या प्रशिक्षणालय में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिये जाते हैं। तथापि, जो उम्मीदवार अनुप्रयुक्त/अयोग्य घोषित किए जाएंगे उन्हें मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सूचित किया जाएगा और अपील मेडिकल बोर्ड को अनुरोध किए जाने की प्रक्रिया भी उम्मीदवार को सूचित की जाएगी।

अनुप्रयुक्त/अयोग्य उम्मीदवार अपील मेडिकल बोर्ड (ए एम बी) को आवेदन कर सकते हैं जिसे सेवा मेडिकल बोर्ड (एस एम बी) के 42 दिनों के भीतर ही पूरा किया जाना है तथा वे अपील मेडिकल बोर्ड के एक दिन पूरा होने के भीतर ही रिव्यू मेडिकल बोर्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

ए. एम. बी. द्वारा अयोग्य घोषित किए उम्मीदवारों को ए. एम. बी. की जांच परिणाम को चुनौती देने की प्रक्रिया के संबंध में एम. बी. अध्यक्ष द्वारा सूचित किया जाएगा। उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाएगा कि पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड (आर. एम. बी.) का आयोजन, मामले के गुणावगुण के आधार पर डी. जी. ए. एफ. एम. एस. के विवेक से स्वीकृत किया जाएगा तथा पुनरीक्षण चिकित्सा बोर्ड का आयोजन अधिकार का विषय नहीं है। डाक प्राधिकारियों द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए उस अस्पताल में चिकित्सा दस्तावेज देने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार किसी भी कार्य दिवस को चुने गए अस्पताल में स्वतः रिपोर्ट करेंगे। चुने गए अस्पताल द्वारा न तो उन्हें बुलाया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए नीचे संक्षिप्त रूप में दिये गये निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार स्वस्थ होना आवश्यक है।

(क) उम्मीदवार का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन, दैहिक दोष की स्थूलता नहीं होनी चाहिए।

(ग) कद कम से कम 157.5 सेमी. (नौ सेना के लिए 157 सेमी. तथा वायु सेना के लिए 162.5 सेमी.) का हो। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमाऊं के व्यक्तियों का 5 सेमी. कम कद स्वीकार्य होगा। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेमी. की कमी भी स्वीकार्य की जा सकती है।

यह छूट नौ सेना और वायु सेना के मामले में लागू नहीं होगी। कद और वजन के मानक नीचे दिये जाते हैं :

कद और वजन के मानक

सेटीमीटर में कद (बिना जूता)	किलोग्राम में वजन		
	18 वर्ष	20 वर्ष	22 वर्ष
1	2	3	4
152	44 *	46	47
155	46	48 @	49
157	47	49	50
160	48	50	51
162	50	52	53
165	52	53	55
168	53	55	57

1	2	3	4
170	55	57	58
173	57	59	60
175	59	61	62
178	61	62	63
180	63	64	65
183	65	67	67
185	67	69	70
188	70	71	72
190	72	73	74
193	74	76	77
195	77	78	78

*नौसेना के लिए 45 @नौसेना के लिए 47

उपर्युक्त सारणी में दिए गए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत (नौसेना के लिए) वजन सामान्य सीमा के अंदर माना जाएगा। किन्तु भारी हड्डियों वाले लंबे-चौड़े व्यक्तियों तथा पतले देहयष्टि पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है। वायु सेना के उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य वजन ऊपर दिए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत होगा।

(घ) आपके अपने हित में आपको यह सलाह दी जाती है कि सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने से पहले आप कान की मैल, आंखों के अपवर्तन दोष, त्वचा आदि के कवकी संक्रमण के लिए प्रारंभिक चिकित्सा जांच करवा लें।

(ङ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए तथा पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फुलाव 5 सेमी. होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए। छाती का एक्स-रे करना जरूरी है। इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है।

(च) शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए।

(छ) उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्ववृत्त नहीं होना चाहिए।

(ज) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके। उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 से. मी. की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके, कर्ण नासिका कंठ की पिछली या अब की बीमारी का कोई प्रमाण न हो।

(झ) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए। रक्त दाब सामान्य हो।

(ञ) उदरपेशियां सुविकसित हों तथा जिगर या तिल्ली बड़ी हुई न हो। उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ट) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया है और उसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो तो वह उम्मीदवार अयोग्य होगा। यदि हर्निया की शल्य चिकित्सा हो गई हो तो वह वर्तमान परीक्षा से कम से कम एक वर्ष पहले हुई हो जिसका जख्म पूरी तरह ठीक हो चुका हो।

(ठ) हाइड्रोसील, बेरिकोसील या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए।

(ड) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असामान्यता मिलती है तो इससे उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा।

(ढ) चर्म का ऐसा रोग जिससे अशक्तता अथवा विकृति होने की संभावना है तो उससे भी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

(ण) उम्मीदवार को दूर-दृष्टि चार्ट में प्रत्येक आंख से ऐनक सहित या ऐनक रहित (नौ सेना तथा वायु सेना के लिए केवल ऐनक सहित) दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। मायोपिया 3.5 डी तथा हाइपरमेट्रोपिया 3.5 डी, एस्टिगमेटिज्म सहित, से अधिक नहीं होना चाहिए। यह जानने के लिए कि आंख में कोई रोग तो नहीं है, आंख की आंतरिक जांच दृष्टिपटलदर्शी (ओपथलमोस्कोप) से की जाएगी। उम्मीदवार के दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। वर्ण दृष्टि का मानक सी. पी. III होगा। उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए।

रेडियल केराटोमेमी तथा लेसर सर्जरी : जिन उम्मीदवारों ने दृष्टि तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए रेडियल केराटोमेमी करवाई हो या जिनके पास इसे करवाने का प्रमाण मिलेगा, उन्हें स्थायी तौर पर तीनों सेवाओं से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।

पी आर के/लेसिक का पता लगाने के लिए सेवा मेडिकल बोर्ड में ए-स्कैन बायोमीटर द्वारा सभी उम्मीदवारों की अक्षीय लम्बाई मापी जाएगी।

जिन उम्मीदवारों ने अपवर्तन दोष (रिफ्रेक्टिव एरर) को ठीक करवाने के लिए लेसर सर्जरी करवाई हुई है यदि वे निम्नलिखित मानदण्ड पूरे करते हैं तो ही सेना में कमीशन के लिए उन पर विचार किया जाएगा।

(i) यदि आयु 20 वर्ष से अधिक हो

(ii) प्रक्रिया के पश्चात् छह महीने की अवधि के लिए स्थायी अपवर्तन सहित मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के लिए की गई सरल स्थिर लेसिक (एल ए एस आई के)/एक्साईमर (पी आर के) लेसर प्रक्रिया।

(iii) एक स्वस्थ रेटिना

(iv) मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के लिए किसी भी मेरिडियन में ± 1.50 अधिकतम अवशेष अपवर्तन सहित अच्छी आंख में 6/6 तथा खराब आंख में 6/9 की सही दृष्टि होनी चाहिए।

(v) अनुमत सीमा के अंदर अक्षीय लम्बाई।

टिप्पणी : उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण के दौरान यह घोषणा करने को कहा जाएगा कि उसने उपर्युक्त लेसर प्रक्रिया करवाई है। नेत्र विशेषज्ञ द्वारा उसके रेटिना/कोर्निया का संपूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा।

यद्यपि, सेवा मेडिकल बोर्ड द्वारा उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथापि जो उम्मीदवार उपरोक्तानुसार स्वीकृत सीमाओं में पाए जाते हैं, उन्हें अपील मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा जाएगा। अपील मेडिकल बोर्ड के समक्ष उसके कोर्निया तथा रेटिना का संपूर्ण मूल्यांकन तथा नेत्र विज्ञान में वरिष्ठ सलाहकार द्वारा रिकार्ड की जांच की जाएगी।

(त) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए। कम से कम 14 दांत बिन्दु वाले उम्मीदवार स्वीकार्य हैं। जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत बिन्दु होते हैं। उम्मीदवार को तीव्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए।

(थ) छाती का एक्स-रे परीक्षा में ग्रेव प्रशुका की उपस्थिति हेतु ग्रेव मेरुदण्ड के निचले भाग की परीक्षा भी शामिल होगी। सेना चिकित्सा बोर्ड द्वारा जरूरी समझने पर मेरुदण्ड के अन्य भागों की एक्स-रे परीक्षा की जाएगी।

2. केवल वायु सेना के उम्मीदवारों के लिए उपर्युक्त के साथ निम्नलिखित चिकित्सा मानक भी लागू होंगे :--

(क) वायु सेना के लिए स्वीकार्य मानव देह संबंधी माप निम्न प्रकार है :

कद	: 162.5 से. मी.
टांग की लंबाई	: कम से कम 99 सेमी. और अधिक से अधिक 120 सेमी.
अरु की लंबाई	: अधिक से अधिक 64 सेमी.
बैठ कर ऊंचाई	: कम से कम 81.5 सेमी. और अधिक से अधिक 96 सेमी.

(ख) मेरुदण्ड का एक्स-रे कटिक्रिक किया जाएगा। एक्स-रे में प्रकट निम्नलिखित शर्तें अनर्हक होंगी:--

- मेरुदण्ड का कणिकागुल्मीय रोग।
 - आर्थराइटिस/स्पोण्डिलोसिस
 - मंद से अपेक्षाकृत अधिक कार्यफोसिस/लोडोसिस, क्लोलीयोसिस काँच-पद्धति 15" से अधिक अस्वीकृति का कारण बनेगा।
 - स्पोण्डिलोसिस/सिस्टिस/स्पोण्डिलोसिस।
 - हर्निएटेड न्यूकलिय फलफोसिस
 - कशेरुका का संपीडन अस्थिभंग
 - स्वैयरमेन का रोग
 - प्रदर्शनीय तंत्रिकीय या परितंत्रिकीय अभाव के साथ ग्रेव प्रशुका
 - एक से अधिक स्तर पर स्कलिगोल नोड की उपस्थिति।
 - सीरियसनुकपल (एटलान्टो-अक्सिपीटल) तथा एटलान्टो अक्षीय असंगतियाँ।
 - एल. वी. 1 तथा एल. वी. 5 से इतर स्पाइनबार्डफिड।
 - एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय स्कारलाइजेरेशन।
 - विशेष द्वारा मानी गई कोई अन्य असामान्यता।
- (ग) कोहनी की उठान का कोण 10° (दस डिग्री) से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (घ) छाती का एक्स-रे जरूरी है।

(ङ) दृष्टि।

दूर दृष्टि 6/6, एक आंख में तथा 6/6 तक सुधार योग्य 6/9 पास की दृष्टि प्रत्येक आंख को एन. 5

वर्ण दृष्टि सी. पी. I (एमएलटी)

मेनीफास्ट हायपरमेट्रोपिया +2.00 डीएसपी "मायोपिया शून्य" और +0.75 डीएसपीएच से अधिक न हो।

(च) नेत्र पेशी संतुलन

मेडोक्स रोड टेस्ट के साथ हैट्राफोरिया निम्नलिखित से अधिक न हो :

(i) 6 मीटर पर	एक्सोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
	एसोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
	हाइपोफोरिया/	1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
	हाइपरफोरिया	
(ii) 33 से. मी. पर	एक्सोफोरिया	16 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
	एसोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
	हाइपोफोरिया/	1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस
	हाइपरफोरिया	

द्विनेत्री दृष्टि--अच्छी द्विनेत्री दृष्टि का होना अनिवार्य है फ्यूजन तथा स्टेरियोपसिस तथा साथ में अच्छा आयाम व गहनता।

(छ) मानक

- वाक परीक्षण : प्रत्येक कान से 610 सेमी. से कानाफूसी सुनाई दे।
- श्रव्यतामिति : 250 एच. जैड तथा 4000 एच जैड के बीच की आवर्तियों में व्यक्तिगत कमी 20 डीबी से अधिक न हो।
- रुटीन ईसीजी तथा ईईजी सामान्य सीमा में हो।

3. नौ सैनिक विमानन शाखा के उम्मीदवार हेतु स्वास्थ्य मानक वही होंगे जो वायु सेना के उड़ान इयूटी हेतु उम्मीदवार के हैं।

4. किसी एक सेवा के लिए निर्धारित विशेष परीक्षण किये जाने के दौरान यदि किसी अक्षमता का पता चलता है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा अनर्हक ठहराए जाने की स्थिति में यह अक्षमता उम्मीदवार को अन्य सेवा (सेवाओं) के लिए भी अयोग्य ठहरा सकती है।

5. शारीरिक अवस्था : संभावित उम्मीदवारों को समझ दी जाती है कि वे अधो-उल्लिखित दिनचर्या का पालन करके स्वयं को अच्छी शारीरिक अवस्था में रखें :

(क) धावन/दौड़	: 15 मिनट में 2 से 4 कि. मी.
(ख) रस्सी-कूद	:
(ग) पुश-अप एवं सिट अप	: प्रत्येक न्यूनतम 20
(घ) चिन-अप	: न्यूनतम 08

(ड) रस्सी पर चढ़ना/आरोहण : 3 से 4 मीटर

परिशिष्ट-VI

सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण नीचे दिये गये हैं :--

सेना अधिकारी व 'नौ सेना' और 'वायु सेना' के समकक्ष रैंक के लिए वेतनमान :

(i) वेतन :

(क) रैंक	वेतनमान
लैफ्टिनेंट	: रु. 8250-300-10050/-
कैप्टेन	: रु. 9600-300-11400/-
मेजर	: रु. 11600-325-14850 *

*मेजर को उनके अधिकतम वेतनमान के बाद एक वर्ष तक वेतन वृद्धि में गतिरोध आ जाने की स्थिति में मेजर के रैंक वेतन के साथ-साथ नीचे दर्शाया गया लैफ्टिनेंट कर्नल का वेतनमान दिया जाता है।

लैफ्टिनेंट कर्नल : रु. 13500-400-17100/-

कर्नल : रु. 15100-450-17350/-

ब्रिगेडियर : रु. 16700-450-18050/-

(ख) वेतन के अतिरिक्त नीचे दिए गए अनुसार रैंक वेतन भी दिया जाएगा:

कैप्टेन : रु. 400/-

मेजर : रु. 1200/-

लैफ्टिनेंट कर्नल : रु. 1600/-

कर्नल : रु. 2000/-

ब्रिगेडियर : रु. 2400/-

(ग) रैंक वेतनमान

मेजर जनरल : रु. 18400-500-22400/-

लैफ्टिनेंट जनरल : रु. 22400-525-24500/-

सेना स्टाफ व सेना : रु. 26,000/- (नियत)

संवर्ग के उप प्रमुख

और आर्मी कमांडर

सेना स्टाफ के प्रमुख : रु. 30,000/- (नियत)

(घ) सेवा अकादमियों में प्रशिक्षण के दौरान वृत्ति-पूरे प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 8000/- प्रतिमाह नियत की वृत्ति दी जाएगी।

(ii) योग्यता वेतन तथा अनुदान

अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर विशेष निर्धारित योग्यता होने पर रु. 3000/-, 4500/-, 7500/- या 10,000/- रु. का एकमुश्त

योग्यता अनुदान देय है। सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नीचे दिए अनुसार योग्यता वेतन देय है :

(i) मास्टर उड़ान अनुदेशक--रु. 250/- प्रतिमाह

(ii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I--रु. 200/- प्रतिमाह

(iii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-II--रु. 140/- प्रतिमाह

(iv) मास्टर ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक--रु. 200/- प्रतिमाह

(v) ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक--रु. 140/- प्रतिमाह।

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को नीचे दिए गए अनुसार उड़ान भत्ता देय है:--

(क) लैफ्टिनेंट तथा समकक्ष रु. 4500/-

(ख) कैप्टन तथा समकक्ष रु. 5500/-

(ग) मेजर से कर्नल तक रु. 7000/-

(घ) ब्रिगेडियर तथा ऊपर के अधिकारी रु. 5250/-

अन्य भत्ते :

(क) प्रतिपूरक (नगर) एवं महंगाई भत्ते समय-समय पर सिविलियन राजपत्रित अधिकारियों पर लागू दरों और शर्तों के अधीन देय है।

(ख) रु. 200/- प्रतिमाह की दर से किट रखरखाव भत्ता (ग) रैंक तथा तैनाती का क्षेत्र देखते हुए फील्ड क्षेत्र में तैनात अधिकारी रु. 2100/- से रु. 2600/- प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक फील्ड क्षेत्र भत्ते तथा रु. 800/- से रु. 1000/- की दर से प्रतिपूरक फील्ड क्षेत्र भत्ते के पात्र होंगे। (घ) प्रतिपूरक फील्ड क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त, 9000 से 15000 फुट तथा 15000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को क्रमशः रु. 530/- से रु. 1060/- तथा रु. 800/- से 1600/- प्रतिमाह की दर से अधिक ऊंचाई/प्रतिकूल जलवायु भत्ता देय होगा। (ड) सभी रैंक के अधिकारियों को प्रतिपूरक फील्ड क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त रु. 7000/- प्रतिमाह की दर से सियाचिन भत्ता देय होगा। तथापि, यह भत्ता अधिक ऊंचाई/प्रतिकूल जलवायु भत्ते के साथ देय नहीं है। (च) परिधान भत्ता : सेना तथा वायु सेना के लिए प्रारंभिक परिधान भत्ता रु. 6000/- है तथा नौ सेना कर्मियों के लिए रु. 7000/- है। परिधान नवीकरण भत्ता 7 वर्षों की प्रभावी सेवा के बाद रु. 6000/- रु. 7000/- (छ) सभी अधिकारियों को मुफ्त राशन दिया जाता है। (ज) परिवहन भत्ता : कार्यस्थल से 1 कि. मी. की दूरी तक सरकारी आवास उपलब्ध न होने वाले अधिकारियों को रु. 800/- प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता देय होगा। (झ) बच्चों को शिक्षा भत्ता।

(क) भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए:

1. भारतीय सैनिक अकादमी में भर्ती करने से पूर्व :

(क) उसे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाए, ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल

आपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) उसके माता-पिता या संरक्षक को इस आशय के बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में समझे जाते हैं उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापिस आना चाहता है, या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र और किए गये व्यय तथा दिए गये वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापिस करनी होगी।

2. अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के अधीन "जेंटलमैन कैडेट" के रूप में दर्ज किए जायेंगे। "जेंटलमैन कैडेट" पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिए "भारतीय सैन्य अकादमी के नियम और विनियम लागू होंगे"।

3. यद्यपि आवास, पुस्तक, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को भारत सरकार वहन करेगी, यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार अपना खर्च खुद बर्दाश्त करेंगे, भारतीय सैनिक अकादमी में (उम्मीदवार का न्यूनतम मासिक व्यय 200.00 रु. से अधिक होने की संभावना नहीं है) यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप से बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। नौ सेना और वायु सेना में स्थापित भारतीय सैनिक अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी और इनके सदृश प्रशिक्षण में प्रशिक्षण ले रहे ऐसे पुरुष कैडेट, जिनके माता-पिता/अभिभावक की प्रतिमाह आय 1500/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक नहीं है, वित्तीय सहायता लेने के हकदार हैं। जिन माता-पिता/अभिभावक की आय 1500/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक लेकिन 2000/- रु. (संशोधन विचाराधीन) प्रतिमाह से अधिक नहीं है यदि उनका एक लड़का/आश्रित उक्त एक या एक से अधिक संस्था में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उनके बच्चों/आश्रितों को भी वही वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस परीक्षण में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि संस्थाएं एक ही सेवा के अधीन हैं या नहीं।

वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्तियों और सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र/संरक्षित के भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन-पत्र देना चाहिए। जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा।

4. भारतीय सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी:—

(क) प्रतिमाह रु. 200.00 के हिसाब से 5 महीने	रु. 1000.00
का जेब खर्च	
(ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मर्दों के लिए	रु. 2750.00
योग	रु. 3750.00

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में नीचे लिखी राशि वापिस कर दी जाएगी।

200.00 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने
का जेब खर्च

1000.00 रुपये

5. भारतीय सैनिक अकादमी में निम्नलिखित छत्रवृत्तियां उपलब्ध हैं:

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छत्रवृत्ति: यह छत्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है। छत्रवृत्ति की राशि अधिक से अधिक 500.00 रुपये प्रति वर्ष है जो कैडेटों को भारतीय सैनिक अकादमी में रहने की अवधि के दौरान दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो। जिन उम्मीदवारों को यह छत्रवृत्ति मिलती है वे किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे।

(2) कर्नल कैडल फ्रैंक मेमोरियल छत्रवृत्ति: इस छत्रवृत्ति की राशि 360/- रुपये प्रति वर्ष है और यह किसी ऐसे पात्र मराठा कैडेट को दी जाती है जो किसी भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो। यह छत्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता से अतिरिक्त होती है।

6. भारतीय सैनिक अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिए सामान्य शर्तों के अंतर्गत समय-समय लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा। इस भत्ते की जो रकम खर्च होगी वह:

(क) कैडेट को कमीशन दे दिए जाने पर दे दी जाएगी।

(ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापस कर दी जाएगी। कमीशन प्रदान किए जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाएगी।

किन्तु यदि प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्यागपत्र देता है या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटन कर दिया जाएगा।

7. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने वाले जेंटलमैन कैडेट को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाले खर्च उनसे वसूल किए जाएंगे। भारतीय सैनिक अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उनके माता-पिता/अभिभावक को इस आशय के एक बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिस जेंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सेना मुख्यालय की अनुमति से प्रशिक्षण से हटया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवारों को अपनी रेजिमेंट या कोर में वापिस भेज दिया जाएगा।

8. कमीशन, प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करने पर ही दिया जाएगा। कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से अगले दिन से शुरू होगी। यह कमीशन स्थायी होगा।

9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेवा के नियमित अफसरों के समान वेतन और भत्ते, पेंशन और छुट्टी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय-समय लागू होंगी।

10. प्रशिक्षण

भारतीय सैनिक अकादमी में आर्मी कैडेट को "जैन्टलमैन कैडेट" का नाम दिया जाता है। उन्हें 18 मास के लिए कड़ा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इंफेन्ट्री के उप-यूनियनों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरान्त जैन्टलमैन कैडेटों को लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि एसएचएपीई शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।

11. बीमा

भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में जैन्टलमैन कैडेट जब 8,000/- रु. प्रतिमाह वजीफा पाते हैं तो उन्हें रु. 15 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाती है। वे कैडेट जो अपंगता के कारण चिकित्सीय रूप से भारतीय सैनिक अकादमी/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से बाहर हो जाते हैं, उन्हें शत प्रतिशत अपंगता के लिए बीमित राशि की 50 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है अर्थात् शत प्रतिशत अपंगता के लिए 7.5 लाख जो 20 प्रतिशत अपंगता के लिए समानुपातिक रूप से घट कर रु. 1.5 लाख हो जाती है। वे बाहर निकाले गए जैन्टलमैन कैडेट, जिनकी अपंगता 20 प्रतिशत से भी कम है, उन्हें 20,000/- रु. की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाएगी। मदिरा एवं औषधि व्यसन के कारण हुई अपंगता होने से अपंगता लाभ तथा अन्य किसी प्रकार के अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए अर्हक नहीं होंगे। कमीशन प्राप्त करने पर जैन्टलमैन कैडेट नियमित सैन्य अधिकारियों पर लागू मुख्य सेना समूह बीमा योजना में शामिल हो सकेंगे।

12. सेवा की शर्तें :

(1) तैनाती :

थलसेना अफसर भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किये जा सकते हैं।

(2) पदोन्नति

(क) स्थायी पदोन्नति

उच्चतर रैंकों पर स्थायी पदोन्नति, के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं :

समयमान द्वारा :--

लेफ्टिनेंट	(प्रशिक्षण पूर्ण होने पर)
कैप्टन	2 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर	6 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट कर्नल	13 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
कर्नल (टी एस)	26 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
चयन द्वारा	
कर्नल	20 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
ब्रिगेडियर	23 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर जनरल	25 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट जनरल	28 वर्षों की गणनीय कमीशन प्राप्त सेवा
जनरल	कोई प्रतिबंध नहीं

(ख) कार्यकारी पदोन्नति

निम्नलिखित न्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर अफसर उच्चतर रैंकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों:

कैप्टन	3 वर्ष
मेजर	6 वर्ष
लेफ्टिनेंट कर्नल	6 1/2 वर्ष
कर्नल	8 1/2 वर्ष
ब्रिगेडियर	12 वर्ष
मेजर जनरल	20 वर्ष
लेफ्टिनेंट जनरल	25 वर्ष

(ख) नौ सेना अकादमी, गोवा में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए :

(i) वे उम्मीदवार, जो अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए अकादमी में चयनित होते हैं, उन्हें नौ-सेना की कार्यकारी शाखा के कैडेट के रूप में नियुक्त किया जाता है। उन्हें कैप्टन नौ-सेना अकादमी, गोवा को निम्नलिखित राशि जमा करना अपेक्षित होगा :--

(कक) पॉकेट खर्च-वैयक्तिक खर्च, प्रसाधन, स्टेशनरी आदि	रु. 3250/- रु. 650/- प्रतिमाह की दर से
(खख) लौन्ड्री, सिविलियन बैरा सिनेमा हेयर कटिंग आदि	रु. 1750/- रु. 350/- प्रतिमाह की दर से
(गग) पहनावा और साज सज्जा की मदों के लिए	रु. 2300/-
(घघ) भोजन एवं अन्य खर्चों की लागत	रु. 200/-
(ङङ) कैडेट मेस के लिए भोजन प्रभार 5 महीनों के लिए	रु. 1500/- रु. 300/- प्रतिमाह की दर से
	रु. 9,000/-

(ii) चयनित उम्मीदवारों को कैडेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा तथा नौसेना जहाज एवं स्थापना में प्रशिक्षण के लिए जाना होगा जो निम्नलिखित हैं :--

(कक) नौ सेना अकादमी, गोवा नौसेना अभिविश्वास पाठ्यक्रम	20 सप्ताह
(खख) कैडेट प्रशिक्षण	06 महीने
(गग) मिडशिपमैन (जहाज पर प्रशिक्षण)	06 महीने
(घघ) उप-लेफ्टिनेंट (तकनीकी पाठ्यक्रम)	12 महीने

(iii) उपर्युक्त प्रशिक्षण के पूरे होने पर अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय नौ सेना के जहाजों पर नौसेना निगरानी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए की जाएगी जिसके लिए कम से कम छह महीने की अवधि अनिवार्य है।

(iv) नौ सेना अकादमी के कैडेटों के आवास एवं संबद्ध सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी, भोजन और चिकित्सा उपचार सहित प्रशिक्षण लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। तथापि, जब तक वे कैडेट रहते हैं, उनके पॉकेट तथा अन्य निजी खर्चों का भार उनके माता-पिता अथवा संरक्षक उठाएंगे।

यदि कैडेट के माता-पिता/अभिभावकों की मासिक आय 1500.00 रु. से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो सरकार कैडेट के लिए 140 रु. प्रतिमाह वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकती है। वित्तीय सहायता लेने का इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन-पत्र दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट इस आवेदन-पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली के पास भेज देगा।

टिप्पणी: यदि किसी सूचना की आवश्यकता हो तो वह निदेशक, मानव संसाधन एवं भर्ती, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली-110011 से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) वायु सेना अकादमी में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए :

1. एफ (पी) कोर्स में प्रवेश के लिए तीन तरीके हैं अर्थात् सीडीएसई/एनसीसी/एयरमैन। वे उम्मीदवार जो वायु सेना के लिए एक से अधिक स्रोतों से आवेदन करते हैं उनका वायु सेना चयन बोर्डों में वायु सेना तथा सशस्त्र सेवा की अन्य शाखाओं के लिए केवल एक बार परीक्षण/साक्षात्कार होगा। सामान्य उम्मीदवार जो एनसीसी या एयरमैन के रूप में आईएनएसबी/पीएबी परीक्षण में असफल हो जाते हैं और यदि यह पता चलता है कि उसने सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के माध्यम से भी आवेदन किया है तो उन्हें केवल थल सेना/नौसेना/अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के लिए ओएलक्यू परीक्षण के लिए दुबारा बुलाया जाएगा।

2. प्रशिक्षण पर भेजना :

वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित और उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए जाने वाले उम्मीदवारों को वरीयता तथा उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। डाइरेक्ट एण्ट्री उम्मीदवारों की वरीयता सूची संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की जाती है और एनसीसी उम्मीदवारों की वरीयता सूची अलग से तैयार की जाती है। डाइरेक्ट एण्ट्री उड़ान (पायलट) उम्मीदवारों की वरीयता सूची सं. लो. से. आ. द्वारा लिखित परीक्षण में उम्मीदवारों के प्रस्तावों तथा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उम्मीदवारों की वरीयता सूची उनके द्वारा वायु सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।

3. प्रशिक्षण : वायु सेना अकादमी में उड़ानशाखा (पायलट) के लिए प्रशिक्षण की अवधि लगभग 74 सप्ताह होगी।

उड़ान प्रशिक्षण के दौरान बीमा सुरक्षा दरें परिशोधन के अधीन हैं : वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी दुर्घटना की स्थिति में उस फ्लाइट कैडेट के निकटतम संबंधी को रु. 800/- प्रतिमाह के मासिक अंशदान के लिए रु. 10,00,000/- अनुग्रह राशि के रूप में अदा करेगी जो सिविल क्षेत्र से आया हो और उड़ान प्रशिक्षण पा रहा हो। उड़ान प्रशिक्षण पा रहा कोई फ्लाइट कैडेट यदि स्वास्थ्य

की दृष्टि से अक्षम हो जाता है और प्रशिक्षणमुक्त कर दिया जाता है तो उसे शत-प्रतिशत अक्षमता के लिए 20,000/- रुपये अनुग्रह राशि के रूप में अदा किए जाएंगे तथा यह राशि इस अनुपात में घटकर 20 प्रतिशत रह जाती है।

प्रशिक्षण के दौरान, कैडेट रु. 8000/- प्रति माह की वृत्तिका प्राप्त करने के अधिकारी हैं। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात् दी जाने वाली वृत्तिका को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तथापि प्रशिक्षण की अवधि को कमीशंड सेवा नहीं माना जाएगा। सरकार द्वारा फ्लाइट कैडेट को एक बार वेतन तथा भत्ते स्वीकृत कर लिये जाने पर मृत्यु सुरक्षा 50,000 रुपये होगी और शत-प्रतिशत अक्षमता सुरक्षा 25,000 रुपये होगी। वायु सेना ग्रुप बीमा सोसाइटी द्वारा यह सुरक्षा उड़ान प्रशिक्षण पा रहे प्रत्येक फ्लाइट कैडेट द्वारा 76/- रुपये के मासिक अप्रतिभेद अंशदान का भुगतान करने पर दी जाएगी जिसके लिए सदस्यता अनिवार्य होगी।

वित्तीय सहायता पर लागू होने वाली शर्तें :

(1) यद्यपि आवास, पुस्तक, वर्दी, उठराने और चिकित्सा उपचार सहित, प्रशिक्षण का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तो भी उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे अपना जेब खर्च स्वयं वहन करें। वायु सेना अकादमी में प्रतिमास कम से कम 140/- रुपये (परिशोधन के अधीन) से अधिक खर्च होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के अभिभावक या संरक्षक उस खर्च को भी पूर्ण रूप या आंशिक रूप में वहन करने में असमर्थ हैं तो उसे सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है, जिस कैडेट के अभिभावक या संरक्षक की मासिक आय 750/- रु. या इससे अधिक है वह वित्तीय सहायता पाने के हकदार नहीं हैं। वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल संपत्ति तथा अन्य परिलब्धियां और सभी स्रोतों से होने वाले आय को भी ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार को अभिभावक/संरक्षक को अपने पुत्र/बच्चे के वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुन लिये जाने के तुरंत बाद अपना आवेदन अपने जिले के जिलाधीश के माध्यम से प्रस्तुत कर देना चाहिए। जिलाधीश उस आवेदन को अपनी अनुशंसा सहित कमांडेंट, उड़ान पूर्व प्रशिक्षण कोर्स, बेगमपेट को अग्रेषित कर देगा।

(2) वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से चुने गये उम्मीदवार को आने पर निम्नलिखित रकम (परिशोधन अधीन) कमांडेंट के पास जमा करनी है।

(क) 140 रुपये प्रतिमास की दर से 6 माह के लिए जेब

भत्ता 840 रुपये

(ख) वस्त्र और उपस्कर मदों के लिए 1500 रुपये

योग 2340 रुपये

उपर्युक्त रकम में से निम्नलिखित रकम कैडेट को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की स्थिति में वापस देय है :

140 रु. प्रतिमास की दर से 6 मास के लिए जेब भत्ता 840 रुपये।

4. भविष्य में पदोन्नति की संभावनाएं :

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार फ्लाईंग अफसर के रैंक पर पास आउट होते हैं तथा रैंक के वेतनमान तथा भत्तों के हकदार हो जाते हैं। भारतीय वायु सेना में दो प्रकार की पदोन्नति होती है अर्थात् कार्यकारी रैंक प्रदान करके और स्थायी रैंक प्रदान करके। प्रत्येक उच्च रैंक के लिए अतिरिक्त परिलब्धियां निर्धारित हैं। रिक्तियों की संख्या पर आधारित हर एक को उच्च कार्यकारी रैंक में पदोन्नति प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिलते हैं। स्क्वेड्रन लीडर तथा विंग कमांडर के पदों पर समयबद्ध पदोन्नति उड़ान (पायलट) शाखा की क्रमशः 10 वर्ष तथा 20 वर्ष की सफलतापूर्वक सेवा पूरी करने पर दी जाती है। विंग कमांडर और उससे ऊपर के उच्चतर पदों में पदोन्नति विधिवत् गठित पदोन्नति बोर्डों द्वारा चयन के आधार पर की जाती है। उदीयमान अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अच्छे अवसर होते हैं।

5. छुट्टी और अवकाश यात्रा रियायत

वार्षिक अवकाश वर्ष में 60 दिन

आकस्मिक अवकाश वर्ष में 20 दिन एक बार में 10 दिन से अधिक नहीं।

अधिकारी पूरी सेवा अवधि के दौरान कुल 60 दिन तक की यात्रा में होने वाले प्रासंगिक व्यय की पूर्ति हेतु अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के साथ 10 दिनों तक के वार्षिक अवकाश के लिए नकद भुगतान प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है।

जब भी कोई अधिकारी अपनी सेवा के दूसरे वर्ष में पहली बार वार्षिक/आकस्मिक अवकाश लेता है, तो वह अपने कार्य करने के स्थान (यूनिट) से गृह नगर तक और वापस अपने कार्य करने के स्थान तक आने के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा चाहे उसके अवकाश की अवधि कुछ भी क्यों न हो, और तत्पश्चात 01 जनवरी, 1971 से आरंभ होने वाले दो वर्षों के ब्लाक वर्ष में अपने परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों सहित एक बार अपने गृह नगर जाने और वापिस आने के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। जिस वर्ष वह पत्नी तथा बच्चों सहित अपने कार्य स्थल से लीव स्टेशन/गृह नगर तक 1450 कि. मी. के रास्ते के लिए आने और जाने, दोनों तरफ के लिए निःशुल्क वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त उड़ान शाखा के अधिकारियों को, जो प्राधिकृत स्थापना में रिक्तियों को भरने के लिए नियमित उड़ान ड्यूटी पर तैनात होते हैं, अवकाश लेने पर वर्ष में एक बार वारंट पर आने और जाने दोनों ओर की 1600 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए रेल द्वारा उपयुक्त क्लास में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा होगी।

जो अधिकारी छुट्टी लेकर अपने खर्च से यात्रा करने के इच्छुक हैं वे कलेण्डर वर्ष में 6 'एक तरफ यात्रा' फार्म डी पर पत्नी तथा बच्चों के साथ पात्र श्रेणी अथवा निम्न श्रेणी द्वारा यात्रा के किराये का 60 प्रतिशत भुगतान करके यात्रा करने के हकदार होंगे। इसमें दो उक्त फार्म डी पूरे परिवार के साथ यात्रा की सुविधा दी जायेगी। परिवार में पत्नी तथा बच्चों के अलावा अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित माता-पिता, बहन और नाबालिग भाई शामिल होंगे।

6. पेंशन लाभ:

सेवा निवृत्ति पेंशन : सेवा निवृत्ति पेंशन के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा की कम से कम अवधि 20 वर्ष है। (लाभ के बिना) सेवा निवृत्ति पेंशन अधिकारी द्वारा उसकी सेवा के अंतिम 10 महीनों के दौरान प्राप्त

(वेतन, रैंक वेतन और प्रैक्टिस निषेध भत्ता, यदि कोई हो) की गई उन परिलब्धियों की औसत के 50 प्रतिशत के हिसाब से परिकलित की जाएगी, जो पेंशन के मामले में संगणनीय है, इस प्रकार निर्धारित की गई राशि संगणनीय अर्हक सेवा के 3 वर्ष (अर्थात् की गई वास्तविक सेवा तथा स्वीकार्य वर्षों की सेवा लाभ) के लिए सेवा निवृत्ति पेंशन होगी; संगणनीय अर्हक सेवा कम वर्षों के मामले में यह राशि अनुपात के हिसाब से कम होती जाएगी और सेवा निवृत्ति पेंशन किसी भी मामले में 1275/- रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

7. सेवा निवृत्ति उपदान :

सेवा निवृत्ति उपदान : सेवा निवृत्ति के लिए अर्हक सेवा की कम से कम अवधि (लाभ के बिना) 10 वर्ष है, सेवा निवृत्ति उपदान अर्हक सेवा की प्रत्येक छः महीने की अवधि पूरी करने पर आधे महीने की परिलब्धियों की एक समान दर के हिसाब से स्वीकार्य होगा। इस प्रयोजन के लिए परिलब्धियों में अधिकारी द्वारा लिया गया अंतिम वेतन, रैंक वेतन और प्रैक्टिस बंदी भत्ता (यदि कोई हो), प्रगतिरोध/वेतन वृद्धि तथा मंहगाई भत्ता (सेवा निवृत्ति/अशक्तता/मृत्यु की तिथि पर देय) शामिल होगा। पेंशन या उपदान के अतिरिक्त, प्रत्येक छः महीने की अवधि की अर्हक सेवा के लिए तथा 5 वर्ष का लाभ परिलब्धियों के चौथाई के बराबर मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान देय हैं, जो कि परिलब्धियों का 16-1/2 गुणा होगा और 3.5 लाख रुपये से अधिक न होगा। सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर मृत्यु और निवृत्ति उपदान इस प्रकार से होंगे:

- (क) सेवा के पहले वर्ष यदि मृत्यु हो जाए तो दो महीने का वेतन।
- (ख) पहले वर्ष की सेवा के बाद किंतु पांच वर्ष की सेवा से पहले यदि मृत्यु हो जाए तो छः महीने का वेतन।
- (ग) पांच वर्ष की सेवा के बाद किंतु 20 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले यदि मृत्यु हो जाए तो कम से कम 12 महीने का वेतन।
- (घ) 20 वर्ष के बाद अथवा इससे भी अधिक वर्ष के बाद यदि मृत्यु हो जाए तो कम से कम 12 महीने का वेतन और अधिक से अधिक 33 महीने का वेतन इस शर्त पर देय होगा कि किसी मामले पर भी मृत्यु और निवृत्ति उपदान की राशि 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। विकलांगता पेंशन और विशेष परिवार पेंशन एवार्ड जिसमें बच्चों और आश्रितों (माता-पिता, बहन तथा भाई) को पेंशन देना भी शामिल है, निर्धारित नियमों के अनुसार भी देय हैं।

8. अन्य सुविधाएं:

अधिकारीगण तथा उनके परिवार के सदस्य निःशुल्क चिकित्सा सहायता, रियायती किराए पर आवास, ग्रुप बीमा योजना, ग्रुप-आवास योजना, परिवार सहायता योजना, कैंटीन सुविधाएं आदि के हकदार हैं।

(ग) अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए:

1. इससे पूर्व कि उम्मीदवार अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में भर्ती हो :

- (क) उसे इस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली-भांति समझता है कि उसे या उसके वैध वारिसों को सरकार

से मुआवजा या अन्य किसी सहायता के दावे का कोई हक नहीं होगा। यदि उसे प्रशिक्षण के दौरान कोई चोट या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु हो जाए या उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए आपरेशन या आपरेशन के दौरान मूर्च्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा हो जाए।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बाण्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी कारण से जो उसके नियंत्रण के अधीन मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा करने के पूर्व वापिस जाना चाहे या यदि दिए जाने पर कमीशन स्वीकार न करे या अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए शांति कर ले तो शिक्षा, खाना, वस्त्र और वेतन तथा भत्ते जो उसने प्राप्त किए हैं, उनकी लागत या उनका वह अंश जो सरकार निश्चित करे, चुकाने के जिम्मेदार होंगे।

2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जायेंगे उन्हें अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 11 महीने का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा। उन उम्मीदवारों को "सेना अधिनियम" के अंतर्गत जैण्टलमैन कैडेट के रूप में नामांकित किया जायेगा। सामान्य अनुशासन की दृष्टि से जैण्टलमैन कैडेट अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत रहेंगे।

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवास, पुस्तकें, वर्दी व भोजन तथा चिकित्सा सुविधा शामिल है सरकार वहन करेगी और उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा। जिसके कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम रु. 200 प्रतिमास से अधिक होने की संभावना नहीं है। किन्तु यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी, शिकार खेलना, सैरसपाटा इत्यादि का शौक रखता हो तो उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। यदि कोई कैडेट यह न्यूनतम व्यय भी पूर्ण या आंशिक रूप से वहन नहीं कर सके तो उसे समय-समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेतु वित्तीय सहायता दी जा सकती है। बशर्ते कि कैडेट और उसके माता-पिता/अभिभावक की आय रु. 1500/- प्रतिमास से कम हो। जो उम्मीदवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक है उसे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन पत्र जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी सत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदन पत्र को कमांडेंट, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई को भेज देगा।

4. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए चुने गये उम्मीदवारों को वहां पहुंचने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित धन राशि जमा करनी होगी।

(क) रु. 1000/- प्रतिमास की दर	3000/-
से तीन महीने के लिए जेब खर्च भत्ता	
(ख) वस्त्र तथा उपकरणों की मर्दों के लिए	5000/-
(ग) 2 माह के लिए समूह बीमा राशि (एजीआईएफ)	2000/-
कुल :	10000/-

यदि कैडेटों की वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाती है तो उपर्युक्त राशि में से (ख) के सामने दी गई राशि वापस कर दी जाएगी।

5. समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अंतर्गत परिधान भत्ता मिलेगा।

कमीशन मिल जाने पर इस भत्ते से खरीदे गये वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जायेगी। यदि कैडेट प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्यागपत्र दे दें या उसे निकाल दिया जाए या कमीशन से पूर्व वापस बुला लिया जाये तो, इन वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जायेगा, इन

वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

6. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रशिक्षण प्रारंभ होने के बाद त्यागपत्र देने वाले जैण्टलमैन कैडेटों का थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकृत होने तक घर जाने की आज्ञा दी जा सकती है। प्रस्थान से पूर्व उनसे प्रशिक्षण, भोजन तथा संबद्ध सेवाओं पर होने वाला खर्च वसूल किया जाएगा। अफसर प्रशिक्षण अकादमी से उम्मीदवारों को भर्ती किये जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता-पिता/अभिभावकों को इस आशय का एक बांड भरना होगा।

7. अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रवेश लेने के बाद उम्मीदवारों को अकादमी से त्यागपत्र दिये बिना और प्रशिक्षण के खर्च का भुगतान किए बिना सशस्त्र सेना, नौसेना और वायु सेना अथवा किसी अन्य रोजगार में प्रवेश/आयोग की किसी प्रकार की परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किन्तु उन जैण्टलमैन कैडेटों से, जो चयन हो जाने के बाद नौ सेना और वायु सेना में कौरसपीडिंग कैडेट प्रशिक्षण संगठनों अथवा भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेने के लिए अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई से त्यागपत्र देंगे उनसे मेस के खर्च सहित प्रशिक्षण का कोई खर्च वसूल नहीं किया जाएगा।

8. जिस जैण्टलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स करने के योग्य नहीं समझा जायेगा उसे सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवारों को उनकी रेजिमेंट कोर में वापिस भेज दिया जाएगा।

9. प्रशिक्षण :

चुने गए उम्मीदवारों को सेना अधिनियम के अंतर्गत जैण्टलमैन कैडेटों के रूप में नामांकित किया जायेगा तथा वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में लगभग 49 सप्ताह तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के उपरान्त जैण्टलमैन कैडेट को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से लेफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है।

10. सेवा की शर्तें :

(क) परिवीक्षा की अवधि :

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अफसर 6 मास की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा। यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान कमीशन धारण करने के अनुपयुक्त पाया गया तो उसकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त किया जा सकता है।

(ख) तैनाती :

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर उन्हें भारत या विदेश में कहीं भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है।

(ग) नियुक्ति की अवधि तथा पदोन्नति :

नियमित थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा। जो अफसर सेना में पांच वर्ष के अल्पकालिक

सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा करने के इच्छुक होंगे, यदि हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए गए तो संबंधित नियमों के अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के अंतिम वर्ष में उनको स्थायी कमीशन प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा। जो पांच वर्ष की अवधि के दौरान स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने की अर्हता प्राप्त नहीं कर पाएंगे उन्हें पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर निर्मुक्त कर दिया जायेगा।

वे अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी जो कमीशन पूर्व अनुदान के लिये चयनित नहीं हुए हैं लेकिन वे अन्यथा योग्य एवं उपयुक्त माने जाते हैं, उन्हें 14 वर्षों की कुल अवधि के लिये (5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित) अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा, इस अवधि की समाप्ति पर उन्हें सेना निर्मुक्त किया जाएगा।

(घ) छुट्टी :

छुट्टी के संबंध में ये अफसर अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों के लिए लागू नियमों से शासित होंगे जो सेना अवकाश नियमावली खण्ड-I थल सेना के अध्याय पांच में उल्लिखित हैं वे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के पासिंग आउट करने पर तथा ड्यूटी ग्रहण करने से पूर्व नियम 69 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार शासित होंगे।

(ङ) कमीशन की समाप्ति :

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर को पांच वर्ष सेवा करनी होगी किन्तु भारत सरकार निम्नलिखित कारणों से किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त कर सकती है।

- (i) उपचार करने या संतोषजनक रूप से सेवा न करने पर, या
- (ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर, या
- (iii) उसकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता न होने पर, या
- (iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षा या कोर्स में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर तीन महीने का नोटिस देने पर किसी अफसर को करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्यागपत्र देने की अनुमति दी जा सकती है। किन्तु इसकी पूर्णतः निर्णायक भारत सरकार होगी। करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्यागपत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अफसर सेवांत उपदान पाने का पात्र नहीं होगा।

(च) सेवांत उपदान :

सिविल पक्ष से भर्ती किए गए एसएससीओ सेवा की पूरी की गई प्रत्येक छमाही के लिए ½ माह की परिलब्धियों की दर से सेवांत उपदान के हकदार होंगे।

(छ) रिजर्व के रहने का दायित्व :

5 वर्ष की अल्पकालिक सेवा कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा पूर्ण करने के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए या 40 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, रिजर्व में रहेंगे।

(ज) विविध : सेवा संबंधी अन्य सभी शर्तें जब तक उनका उपयुक्त उपबंधों के साथ भेद नहीं होता है वही होंगी जो नियमित अफसरों के लिए लागू हैं।

ए. के. खन्ना
उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110002, दिनांक 5 अप्रैल 2006

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.-373.--महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व इस कार्यालय के श्री विनय श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 21.3.2006 (पूर्वा.) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

क. प्रसाद
निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.-292.--इस कार्यालय के श्री विजेन्द्र सिंह चौहान, निजी सचिव के सी.सी.एस. (पेंशन) के नियम 48-ए के अर्न्तगत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिस को महानिदेशक लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकृत करने के परिणामस्वरूप वह दिनांक 31.3.2006 (पूर्वाह्न) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

उनकी जन्म तिथि 12.9.1958 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि 29.3.1979 है।

क. प्रसाद
निदेशक (प्रशासन)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 05 अप्रैल 2006

सं. 43/जी.ई.-I/13-2006.--भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवा निवृत्त देकर सेवा मुक्त हो चुके हैं।

1. श्री राम लुभाया--अधिवार्षिकी दिनांक 31.03.2006 (अपराह्न)
2. श्री ए. एस. शर्मा--अधिवार्षिकी दिनांक 31.03.2006 (अपराह्न)
3. श्री के. आर. सान्यानम--स्वैच्छिक सेवा निवृत्त दिनांक 01.03.2006 (पूर्वाह्न)

दीपक नारायण
सहा. नियंत्रक
महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 3 अप्रैल 2006

सं. डब्ल्यू. एम. I/स्थापना/02.--महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी-I को इस

आदेश के द्वारा वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में वेतनमान रुपए 7,500-250-12,000/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दी गई।

क्रमांक	नाम
1.	राम शंकर पात्र

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर एफ. आर. 22(1) (क)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

एस. ए. पंडा
उपमहालेखाकार (लेखा)

सं. डब्ल्यू. एम. I/स्थापना/03.--महालेखाकार (लेखा व हक.) पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II को इस आदेश के द्वारा विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतनमान रुपए 7,450-225-11,500/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में प्रभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिविजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दी गई।

क्रमांक	नाम
1.	निर्मल कुमार पाहाड़ी

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के अंदर एफ. आर. 22(1) (क)(i) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

एस. ए. पंडा
उपमहालेखाकार (लेखा)

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय
श्रम ब्यूरो

शिमला-171 004, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. 5/1/2006-एन.सी.पी.आई.--फरवरी, 2006 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 119 (एक सौ उन्नीस) के अंक पर स्थिर रहा।

आर. के. गुप्ता
उप निदेशक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2006

सं. 07/2006/ए-12025/1/2004-एचआरडी-1/922.--राष्ट्रपति, श्री जय करन सिंह, भारतीय व्यापार सेवा के ग्रेड-II अधिकारी (अर्थात् उप

महानिदेशक, विदेश व्यापार) को प्रोन्नति पर 7.11.2005 से 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर सेवा के ग्रेड-I में (अर्थात् संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार) नियुक्त करते हैं।

के. चन्द्रामती
संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

खान मंत्रालय
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. 646ए/ए-32013/3-रसा.(वरि.)/90/19बी.--राष्ट्रपति जी डॉ. डी. जी. मराठे, रसायनज्ञ (कनिष्ठ) भा.भू.स., को रसायनज्ञ (वरिष्ठ) के रूप में इसी विभाग में रुपए 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक 07.12.2005 (अपराह्न) से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्ति करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 647ए/ए-32013/3-रसा.(वरि.)/2003/19बी.--राष्ट्रपति जी डॉ. एम. सी. चतुर्वेदी, को रसायनज्ञ (कनिष्ठ) के रूप में इसी विभाग में रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक 17.01.2006 (अपराह्न) से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्ति करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 2006

सं. 10/1/2000-एम.--प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1959 के नियम 6 के तहत सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. गेहलोत, निदेशक (स्मारक) एतद्वारा निदेश देता हूँ कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1959 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर 18 अप्रैल, 2006 को विश्वदाय दिवस समारोह के अवसर पर कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।

डी. आर. गेहलोत
निदेशक (स्मारक)
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 अप्रैल 2006

एफ. सं. 2-6/2003-प्रशा.-I.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर श्री के. एस. राणा, अधीक्षण पुरातत्व रसायनज्ञ को 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में निदेशक (विज्ञान) के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे. आर. अग्रवाल
निदेशक (प्रशासन)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-85, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. पीडी/4(4)/2005-आर-III/2006/2599--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती के. वी. पी. किरणमयी, निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन), को दिनांक 01.08.2005 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 4 अप्रैल 2006

सं. पीडी/4(1)/2006-आर-III/2006/2684--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री एन. अन्नामलाई, सहायक लेखाकार, आई जी सी ए आर, कल्पाक्कम को दिनांक 02.02.2006 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में बी ए आर सी सुविधाएँ, कल्पाक्कम में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 27 मार्च 2006

सं. 20/3(4)/2005-सीसीएस/3--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री जी. मुरलीधरन, प्रशासन अधिकारी-II (वेतनमान रु. 7,500--12,000/-), नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद को दिनांक 08.02.2006 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, मुंबई में प्रशासन अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

दिनांक 30 मार्च 2006

सं. 22/3(1)/2006-सीसीएस/4--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री वी. नंदगोपन, सहायक क्रय अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500--10,500/-) सीआरपीयू/डीपीएस कोलकाता को दिनांक 01.03.2006 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक एचआरपीएसयू, डीपीएस, हैदराबाद में क्रय अधिकारी (वेतनमान 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

मुंबई-400001, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. 6(2338)/2002-प्रशा./2602--राष्ट्रपति, कु. शोभा देवी एन. (सी.एस.एस.), अवर सचिव (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/-) परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई के कार्यकाल को दिनांक 30.05.2006 से 29.05.2009 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए और अथवा भावी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो के लिए विस्तारित करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी
अवर सचिव

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. सासेसं./28(8)/2006-भ/189--निदेशक, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम इस विभाग के सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम में वैज्ञानिक सहायक/सी के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को रु. 7450-225-11,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/बी के पद पर दिनांक 01.08.2005 (पूर्वाह्न) के प्रभाव से अगले आदेश तक नियुक्त करते हैं :

क्र. सं. नाम

01. श्री एस. राजगोपाल

02. श्री पी. कुमरेसन

टी. वाई. प्रह्लाद राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 30 मार्च 2006

सं. क्रभनि/एस-59/स्था./1374--इस निदेशालय की सहायक क्रय अधिकारी, श्रीमती सी. एस. नायर को सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 31 जनवरी, 2006 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त कर दिया गया है।

किशन टी. लोंडे
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. क्रभनि/एस-59/स्था./1375--इस निदेशालय की क्रय अधिकारी, श्रीमती पी. वी. राफेल को सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 31 जनवरी, 2006 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त कर दिया गया है।

किशन टी. लोंडे
प्रशासनिक अधिकारी-III

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुंबई-400705, दिनांक 4 अप्रैल 2006

सं. बीआर/951/054/523--श्री के. ए. सुंदरम ने अधिवर्षिता के कारण दिनांक 31 जनवरी 2006 (अपराह्न) से वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'डी' पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

डॉ. ए. के. कोहली
मुख्य कार्यकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 3 अप्रैल 2006

सं. नाईस/काप्रभ. I/03/58/344--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, श्री के. वी. राजू, आशुलिपिक ग्रेड-I को रु. 6,500-200-10,500/-के वेतनमान में दिनांक 23.03.2006 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक अस्थायी हैसियत में स्थानापन्न निजी सचिव (असचिवालय) के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी-III

हैदराबाद-500062, दिनांक 5 अप्रैल 2006

सं. नाईस/प्रशा./पें/1255/337--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री आर. कालिदास, उत्कृष्ट वैज्ञानिक (वेतनमान रु. 22,400-525-24,500/-)

ने दिनांक 28.02.2006 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ए. रमा देवी
प्रशासनिक अधिकारी

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. इंगांपअके/पीएफ/6527/2006-भर्ती/202--राष्ट्रपति महोदय, डॉ. एम. भट्टाभिरामन को दिनांक 30.12.2005 पूर्वाह्न से अस्थायी क्षमता पर अगले आदेश तक इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कल्पाक्कम में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'डी' के पद पर रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में प्रारंभिक वेतन 10,975/- रु. पर नियुक्त करते हैं।

वी. दयालन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 27 मार्च 2006

सं. ए.एम.डी.-4/4/2005-भर्ती/2027--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को दर्शाई गई तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में प्रत्येक के सामने वर्णित ग्रेड (उसके नीचे दिए गए वेतनमान युक्त) में, स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड/वेतनमान	धारित स्थाई पद	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
1.	एस. तिप्पेस्वामी	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	युप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
2.	डी. वी. पी. रंगाराजू	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	युप-सी (तकनीकी)	01.08.2005
3.	एल. बी. खोब्रागडे	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	युप-बी (तकनीकी)	01.08.2005
4.	डॉ. ए. रामाराजू	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	युप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
5.	वी. रमेश बाबू	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	युप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
6.	ए. आर. मुकुंदन	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	युप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
7.	संजय बगोरा	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	युप-सी (तकनीकी)	01.08.2005
8.	पी. जगदीशन	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	युप-सी (तकनीकी)	01.08.2005
9.	सी. आर. खोरो	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	युप-सी (तकनीकी)	01.08.2005

1	2	3	4	5	6
10.	के. सी. वरप्रसाद राव	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	ग्रुप-बी (तकनीकी)	01.08.2005
11.	डी. वी. एल. एन. शास्त्री	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	ग्रुप-सी (तकनीकी)	01.08.2005
12.	डॉ. यू. के. पांडे	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	ग्रुप-बी (तकनीकी)	01.08.2005
13.	ए. नागराजू	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	ग्रुप-सी (तकनीकी)	01.08.2005
14.	डॉ. जयदीप सेन	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
15.	सुभाष राम	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	03.08.2005
16.	नीरोज कुमार पांडा	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
17.	सी. एस. गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी-डी	वैज्ञानिक अधिकारी-ई रु. 12000-375-16500	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	08.08.2005
18.	धीरज सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	वैज्ञानिक अधिकारी-डी रु. 10000-325-15200	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01.08.2005
19.	शैलेश त्रिपाठी	वैज्ञानिक अधिकारी-सी	वैज्ञानिक अधिकारी-डी रु. 10000-325-15200	--	01.08.2005

रमेश मोहन सिन्हा
निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग
विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र

तिरुवनन्तपुरम-695022, दिनांक 17 मार्च 2006

सं. वीएसएससी/स्था./एफ/1(17)--नियंत्रक, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वीएसएससी) एतद्वारा श्री जी. सरस्वती को वैयक्तिक सहायक 'ध' के पद पर रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में वीएसएससी में 26.10.2004 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

श्री ए. के. सोमशेखरन
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

जाती है कि मैसर्स ग्रोथ कैपिटल मैनेजमेन्ट सर्विसेस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हरिद्वार होलीडे फार्म्स लिमिटेड के विषय में।

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ग्रोथ कैपिटल मैनेजमेन्ट सर्विसेस लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 4 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560/एस.ई.एस./05/9095/22--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी

कानपुर-208001, दिनांक 4 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560/एस.ई.एस./05/22677/23--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स हरिद्वार होलीडे फार्म्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मैटी फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 4 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560/एस.ई.एस./05/3320/24--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स मैटी फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्राह्मावर्त राईस एण्ड एग्रो इम्प्लीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 4 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560/एस.ई.एस./05/10909/25--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्राह्मावर्त राईस एण्ड एग्रो इम्प्लीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यू. पी. लेदर्स मैन्युफैक्चर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 4 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/28--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स यू. पी. लेदर्स मैन्युफैक्चर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 4 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(5)/2003/31--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	20-12289	मैसर्स सवराय फूड्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
2.	20-14712	मैसर्स श्री मदन राईस एण्ड फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	20-6758	मैसर्स कुमार ब्रिक्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	20-10730	मैसर्स अमितुल एप्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड
5.	20-20567	मैसर्स आर.एस.एस.एल. ब्रोकर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	20-3111	मैसर्स जोय चिट फण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	20-7419	मैसर्स गाजियाबाद मेटल कार्स्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
8.	20-25382	मैसर्स बाबू ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
9.	20-19837	मैसर्स आरोही म्युचुअल बेनीफिट्स लिमिटेड
10.	20-14061	मैसर्स सरीन नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
11.	2.-25334	मैसर्स मैसर्स एशिया ए.एन.जेड. एसेस प्राईवेट लिमिटेड
12.	20-10924	मैसर्स सुप्रीम इन्स्टालमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
13.	20-14759	मैसर्स दिलीप एग्रो एलॉयस लिमिटेड
14.	20-22183	मैसर्स हालोस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
15.	20-20518	मैसर्स मारुति नन्दन इनफिन लिमिटेड
16.	20-3929	मैसर्स ज्वेल पम्पस प्राईवेट लिमिटेड
17.	20-18374	मैसर्स के. ए. ऑटोमोटिक्स कम्पौनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	20-11255	मैसर्स बेदी हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
19.	20-14794	मैसर्स आनन्देश्वर फाईनेन्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
20.	20-18817	मैसर्स वी. आर. इस्यात प्राईवेट लिमिटेड
21.	20-9606	मैसर्स नेशनल फोएल्स लिमिटेड

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

सं. एलसी/560(3)/13029/56--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स गुडविन मेडीकेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं

है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री विद्या गैसोलाइन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 4 अप्रैल 2006

सं. एलसी/560(3)/17623/60--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स.श्री विद्या गैसोलाइन प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के. एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर्या बस ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 27 मार्च 2006

सं. आर.ओ.सी./560(3)/3553/10505--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आर्या बस ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शाते न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

मनमोहन जुनेजा
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 2006

सं. 560(3)/एसईएस/2005/01 से 300--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से नब्बे दिनों की समाप्ति तक किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का

नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और ये कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	3274	मैसर्स पटियाला बस हाईवेज प्राईवेट लिमिटेड
2.	25738	मैसर्स लुधियाना अप्पेरल्स पार्क लिमिटेड
3.	8034	मैसर्स कंगारू लिक्विड प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	22746	मैसर्स वास्तु एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	19945	मैसर्स ओरोड फार्मुलेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	12698	मैसर्स औरू फैब्रिक्स लिमिटेड
7.	18876	मैसर्स ई. डॉक्टर दूबकांम लिमिटेड
8.	6307	मैसर्स एस. के. वसंटेड स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	16612	मैसर्स हरदेव लैमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	14455	मैसर्स हिन्दोस्तान ऐडिशन लिमिटेड
11.	12979	मैसर्स सरस्वती वनस्पति प्रोडक्ट्स लिमिटेड
12.	17225	मैसर्स नोर्थवेस्ट प्लेसमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
13.	21036	मैसर्स केयर इण्डिया मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
14.	14712	मैसर्स हेल्थलाइन प्रिविलेज एण्ड सर्विसेस लिमिटेड
15.	19120	मैसर्स मैसर्स गुलजार ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
16.	12677	मैसर्स ए. के. गुला कॉन्ट्रेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	25672	मैसर्स ए. वी. इन्विजमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	22803	मैसर्स नरुला स्लीपेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
19.	14997	मैसर्स सिमर साईकल्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	22000	मैसर्स मातवा मिल्क स्पेशलिटी प्राईवेट लिमिटेड
21.	24864	मैसर्स प्रोलाइन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	17631	मैसर्स ए. के. फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
23.	22622	मैसर्स यमुना इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	24519	मैसर्स बैन्टसी टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
25.	19689	मैसर्स इक जोट इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	23911	मैसर्स मूवीक्वस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
27.	24469	मैसर्स ऐशरे नेटकॉम प्राईवेट लिमिटेड	55.	17899	मैसर्स पड्डा एण्ड बाथ रीयल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
28.	17210	मैसर्स एस. पी. डेवलेपर्स एण्ड डेकोरेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	56.	20120	मैसर्स जे. बी. निरिंग प्राईवेट लिमिटेड
29.	3866	मैसर्स मौडक्लोर प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	57.	25665	मैसर्स फोर विंडज नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
30.	12892	मैसर्स सिम्बा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	58.	26285	मैसर्स मैक्सबिन ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
31.	7000	मैसर्स न्यूलाईट इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	59.	11517	मैसर्स एंगरिश पाइप्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	15701	मैसर्स जसवंत मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड	60.	6772	मैसर्स हिमाचल ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	23627	मैसर्स पारडोय ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड	61.	19098	मैसर्स लैयर्ज टाइम इम्पूजमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	11101	मैसर्स पंजाब हरतमन स्किन्ज प्राईवेट लिमिटेड	62.	23570	मैसर्स विनटेक नेटवर्क सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	17889	मैसर्स डी. के. फिनकैप लिमिटेड	63.	25655	मैसर्स एच. आर. एग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	16989	मैसर्स इक ऑकार फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	64.	9614	मैसर्स जालंधर स्टील कार्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
37.	4255	मैसर्स एस. ए. कैमिकल एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	65.	14758	मैसर्स ए. आर. फाईनेशियल कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	9547	मैसर्स शर्द क्रिस्टल्स लिमिटेड	66.	21603	मैसर्स ब्यूटी सैंटर फोरेक्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	14291	मैसर्स अमित सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड	67.	10577	मैसर्स हरजिंदर सिंग फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	24304	मैसर्स विनसोफ्ट इन्फोटेक टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड	68.	22395	मैसर्स ग्रोवर सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	27466	मैसर्स जील सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	69.	5816	मैसर्स एस.के.बी. बिल्डर्स एण्ड फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	13438	मैसर्स जलंधर फ्रेट कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड	70.	23945	मैसर्स पंजाब इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
43.	23229	मैसर्स एस्टीम वैल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	71.	22697	मैसर्स पीसीपी एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
44.	13553	मैसर्स नोर्थर्न इण्डिया डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	72.	21027	मैसर्स एन्कविका ऐक्विज प्राईवेट लिमिटेड
45.	26094	मैसर्स लोअतज नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	73.	15372	मैसर्स सेन्यो एग्रो फूड प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	24160	मैसर्स अल्फा इन्फोनेट प्राईवेट लिमिटेड	74.	20953	मैसर्स हरे क्रिशना फार्म प्राईवेट लिमिटेड
47.	4323	मैसर्स बवेजा पेपर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	75.	20668	मैसर्स सुमीत मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
48.	23099	मैसर्स अमीरचंद एण्ड सन्स एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	76.	15820	मैसर्स शान फिनकैप्स लिमिटेड
49.	3891	मैसर्स मेहता एलकेम प्राईवेट लिमिटेड	77.	14616	मैसर्स एम.आर.एम. इम्पोर्टर एण्ड एक्सपोर्टर प्राईवेट लिमिटेड
50.	21339	मैसर्स आर्ट फोलियो फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड	78.	13230	मैसर्स आर. एस. लैदर वीयर्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	21392	मैसर्स सुखमनी फोरेस्ट्स लिमिटेड	79.	5874	मैसर्स हिन्दमूर्ति फरनासाइट प्राईवेट लिमिटेड
52.	22179	मैसर्स अम्कू इन्जीनियर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	80.	24604	मैसर्स चैरी बायोटेक लिमिटेड
53.	26407	मैसर्स साराहन टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड	81.	22102	मैसर्स सुनाम कम्प्यूटर टैक प्राईवेट लिमिटेड
54.	1840	मैसर्स लोडरा टोका प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
82.	25515	मैसर्स लीडर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	111.	8238	मैसर्स मोर्या वूलेन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	23790	मैसर्स फार्वर्ड स्टॉक एण्ड शेयर प्राईवेट लिमिटेड	112.	12711	मैसर्स स्टार टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	16707	मैसर्स वर्कवैल हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	113.	23640	मैसर्स इंगल सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
85.	7404	मैसर्स डीलक्स ऐलीवेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	114.	2641	मैसर्स हिमाचल शोडी मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
86.	16705	मैसर्स उजवल इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	115.	13006	मैसर्स ग्रैंड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
87.	14379	मैसर्स जीडीआर वाचेज़ प्राईवेट लिमिटेड	116.	22639	मैसर्स मुकरियां कम्प्यूटर सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
88.	21953	मैसर्स जी. टी. एयरवेज एण्ड ट्रेवल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	117.	20470	मैसर्स क्लेयर इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
89.	13017	मैसर्स बजाज टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	118.	10357	मैसर्स दूर हास्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	4904	मैसर्स लॉ टैक फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड	119.	3790	मैसर्स जैगुआर स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	6120	मैसर्स आशापाल ऑटो मोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	120.	17383	मैसर्स गोल्डन हर्बल एक्सट्रेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	12013	मैसर्स आर्ची स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	121.	26425	मैसर्स एकैशिया मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
93.	27344	मैसर्स शिमला पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड	122.	22895	मैसर्स तृप्ता कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
94.	26301	मैसर्स स्टर्लिंग वुड पाऊडर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	123.	10985	मैसर्स मैसर्ज़ कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
95.	8579	मैसर्स गुप्ता गेयर्स प्राईवेट लिमिटेड	124.	6151	मैसर्स ग्रेट इण्डियन स्कौन्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	4679	मैसर्स जनरल हार्डवेयर्स प्राईवेट लिमिटेड	125.	4598	मैसर्स नगीना सोप फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
97.	11727	मैसर्स सिटिजन सीमेन्ट वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	126.	14803	मैसर्स ईपीएस इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
98.	10357	मैसर्स नानकसर टायर्स प्राईवेट लिमिटेड	127.	12661	मैसर्स ब्ल्यू डॉट फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	13681	मैसर्स पैन्गियन ओरोगेनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	128.	19401	मैसर्स इरावती मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
100.	12721	मैसर्स बलजिन्दरा रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	129.	7273	मैसर्स महेश कागों कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	23547	मैसर्स ब्रॉड विजन इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड	130.	15341	मैसर्स खनीत कन्सलटेंसी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
102.	16079	मैसर्स ओएसिस फ्लोरिकल्चर लिमिटेड	131.	8508	मैसर्स ए सी सील्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	14738	मैसर्स अम्बाजी फैंट्स एण्ड ऑयल्स लिमिटेड	132.	4431	मैसर्स कोनसर्ट कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	19337	मैसर्स वरमानी पेपर बोर्ड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	133.	5259	मैसर्स डी. एम. वूलन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
105.	13383	मैसर्स सिटी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	134.	9539	मैसर्स यूनिक हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
106.	23696	मैसर्स सैवन सीज़ लैडर्स प्राईवेट लिमिटेड	135.	23947	मैसर्स पुष्पराज रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	21142	मैसर्स नार्थएण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	136.	19016	मैसर्स बाबा टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	23619	मैसर्स एक्सिलेंट हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	137.	21559	मैसर्स बानिया दी हट्टी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
109.	18843	मैसर्स आर. एस. निटफैब प्राईवेट लिमिटेड	138.	3791	मैसर्स सर्वजीत कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	19582	मैसर्स कबीर होटलियर्ज़ प्राईवेट लिमिटेड	139.	15961	मैसर्स संत इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
			140.	11429	मैसर्स रैने एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
141.	21817	मैसर्स पंजाब पोलीफ्लैक्स (इण्डिया) लिमिटेड	169.	25562	मैसर्स कटलिस्ट आऊटसोर्सिंग टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
142.	19527	मैसर्स पंजकोहा एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	170.	21113	मैसर्स संत प्रहलाद फिनवेस्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
143.	18226	मैसर्स लुधियाना एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	171.	5090	मैसर्स कोनसर्ट इंजिनियर्स एण्ड ट्रेडर्स लिमिटेड
144.	13581	मैसर्स जर्सी किट्स प्राईवेट लिमिटेड	172.	25619	मैसर्स गोल्डन ब्लेज प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड
145.	21697	मैसर्स एलएसजी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	173.	23616	मैसर्स जगदम्बे सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
146.	26570	मैसर्स फरीदकोट टूरिस्ट काम्प्लेक्स लिमिटेड	174.	12282	मैसर्स कोरोनेट बायोमेडीका प्राईवेट लिमिटेड
147.	27736	मैसर्स स्टार स्टडी लिंक्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	175.	20437	मैसर्स गैबल्स वैकेशन क्लब प्राईवेट लिमिटेड
148.	5184	मैसर्स सतलुज शौडी स्पिनर्स लिमिटेड	176.	7658	मैसर्स क्वालिटि प्लाईवुड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
149.	8115	मैसर्स जीतन फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड	177.	7632	मैसर्स फेयरडेस इन्फोरमेशन प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड
150.	24869	मैसर्स प्योरनेट टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड	178.	17544	मैसर्स भगवती हार्डवेयर प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड
151.	26573	मैसर्स कपूरथला टूरिस्ट काम्प्लेक्स लिमिटेड	179.	27823	मैसर्स बाबा दीप सिंह बिल्डर्स एण्ड कोलोनीज प्राईवेट लिमिटेड
152.	26572	मैसर्स सुखचैन टूरिस्ट काम्प्लेक्स लिमिटेड	180.	13211	मैसर्स लिक्टो सोलवैक्स प्राईवेट लिमिटेड
153.	21196	मैसर्स चंडीगढ़ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	181.	7903	मैसर्स सुप्रीम पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
154.	17257	मैसर्स एस.बी.सी. लीजिंग एण्ड फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड	182.	23837	मैसर्स अमन कथा मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
155.	23420	मैसर्स प्रिमियर इन्टरनेट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	183.	25741	मैसर्स उप्पल कांग डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
156.	24439	मैसर्स वर्ल्डवाइड सिक्वोरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	184.	20028	मैसर्स बेराको सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	17778	मैसर्स वी. एस. छाबरा इलैक्ट्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड	185.	20613	मैसर्स टी प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
158.	24461	मैसर्स गुड लाइफ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	186.	16668	मैसर्स रोशन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
159.	20272	मैसर्स एच.एस.बी. प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	187.	21767	मैसर्स जशन डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	24098	मैसर्स ग्रीनलाइफ प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	188.	2595	मैसर्स पंजाब स्टेट ऑयल लिमिटेड
161.	23102	मैसर्स शिवरामन इन्जीनियरिंग एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड	189.	14377	मैसर्स जन सुख स्मृति गेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
162.	26571	मैसर्स पिंककैरिया टूरिस्ट काम्प्लेक्स लिमिटेड	190.	4108	मैसर्स इन्जीनियर्स कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
163.	26574	मैसर्स सूरजमुक्ति टूरिस्ट काम्प्लेक्स लिमिटेड	191.	7912	मैसर्स एशियन एक्स्चेंज टाक्स प्राईवेट लिमिटेड
164.	26575	मैसर्स आम खास बाग टूरिस्ट काम्प्लेक्स लिमिटेड	192.	3976	मैसर्स स्याल ब्रदर हयार परचेज प्राईवेट लिमिटेड
165.	26569	मैसर्स पठानकोट टूरिस्ट काम्प्लेक्स लिमिटेड	193.	24712	मैसर्स रिखी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
166.	26576	मैसर्स संघोल टूरिस्ट काम्प्लेक्स लिमिटेड	194.	19956	मैसर्स आसनथर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
167.	21684	मैसर्स युवनीर कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	195.	20812	मैसर्स पंचशील क्रिएशन लिमिटेड
168.	23540	मैसर्स बजाज मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
196.	24088	मैसर्स नितिन एग्रो कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	222.	24655	मैसर्स पन एशिया इन्फोटेक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
197.	21565	मैसर्स स्वर्ण भारत इम्पेक्स लिमिटेड	223.	24594	मैसर्स एम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
198.	11120	मैसर्स ब्रादर्स सिन्थेटिक्स लिमिटेड	224.	24038	मैसर्स आसुतोष सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
199.	4434	मैसर्स विजय यार्न एण्ड टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	225.	19456	मैसर्स किंग्स सुपरमार्केट प्राईवेट लिमिटेड
200.	3812	मैसर्स ईचल क्वालिटी इन्जीनियर्स वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	226.	22313	मैसर्स रोयल फिनमैन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
201.	24613	मैसर्स सी एम टी इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	227.	20526	मैसर्स बेनी रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
202.	24767	मैसर्स ग्रुप 17 सिक्युरिटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	228.	20055	मैसर्स शान्त रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
203.	25059	मैसर्स राईजिंग सन पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड	229.	21764	मैसर्स आशीश निट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
204.	19439	मैसर्स मनोहर फाईनेशियल इन्वेस्टमेन्ट सर्विसेस लिमिटेड	230.	23322	मैसर्स जे.एम.बी. इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
205.	6612	मैसर्स मैसर्स प्रकाश कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड	231.	11807	मैसर्स गोल्ड इण्डिया होटेल्स लिमिटेड
206.	6770	मैसर्स यूनाइटेड (इण्डिया) इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	232.	8672	मैसर्स रोयल कोनफैक्शनर्स प्राईवेट लिमिटेड
207.	13153	मैसर्स आशनी हिल रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	233.	4504	मैसर्स एस.पी.सी. मोटरटेक प्राईवेट लिमिटेड
208.	19440	मैसर्स एम ए एस बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	234.	4364	मैसर्स हैनसन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
209.	22482	मैसर्स बन्टले टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड	235.	6345	मैसर्स एबको स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
210.	10000	मैसर्स डी के प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	236.	13570	मैसर्स कोयर कैमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
211.	22360	मैसर्स आई-नाईन्टी वन्स इन्टरकोनक्ट लिमिटेड	237.	11582	मैसर्स फाईबरगेना ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
212.	20380	मैसर्स शास्त्रीसन्स ज्वैलर्स प्राईवेट लिमिटेड	238.	6381	मैसर्स गोयल इन्जीनियरिंग एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड
213.	26147	मैसर्स कुपिड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	239.	20854	मैसर्स स्पार्कल फार्माकैम प्राईवेट लिमिटेड
214.	27172	मैसर्स नावल्टी रेव इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	240.	8355	मैसर्स गुरु नानक फाईनेशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
215.	14634	मैसर्स रोबिन लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड	241.	25078	मैसर्स नन्द ईशर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
216.	6548	मैसर्स यूनीस्यर इलक्ट्रोड्स प्राईवेट लिमिटेड	242.	24373	मैसर्स गुरु हरकिशन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
217.	21129	मैसर्स स्ट्याग ऑटो प्राईवेट लिमिटेड	243.	19604	मैसर्स त्रिदेव मेडीकेयर प्राईवेट लिमिटेड
218.	20503	मैसर्स के राय एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	244.	16628	मैसर्स अनुमलिका इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
219.	8223	मैसर्स एम सोनी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	245.	23161	मैसर्स श्री रूप इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
220.	5066	मैसर्स पंजाब इन्डस्ट्रियल सिक्युरिटी एण्ड कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	246.	26138	मैसर्स सुविधा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
221.	25975	मैसर्स कन्सलटेन्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	247.	8742	मैसर्स गोल्ड कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड
			248.	6114	मैसर्स विजय कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड
			249.	20279	मैसर्स गुलाब एलोएज एण्ड मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
250.	26323	मैसर्स स्कूब इन्वोवेशन प्राईवेट लिमिटेड	278.	27715	मैसर्स एफ टी एफ सोफ्टवेयर डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
251.	22071	मैसर्स लव फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	279.	6299	मैसर्स दीश पोली पैक प्राईवेट लिमिटेड
252.	24762	मैसर्स स्टारगेट नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	280.	17638	मैसर्स भवानी पल्प एण्ड बोर्ड प्राईवेट लिमिटेड
253.	24583	मैसर्स यूनिक मरचण्डाईज प्राईवेट लिमिटेड	281.	23895	मैसर्स स्टेलर प्रोसेसज प्राईवेट लिमिटेड
254.	16972	मैसर्स तलवार ब्रदर्स प्रोपर्टी डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड	282.	19157	मैसर्स भास्कर फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
255.	11291	मैसर्स इयूक इन्डस्ट्रियल फाईनैस लिमिटेड	283.	16513	मैसर्स यंगमैन फाईबर्स लिमिटेड
256.	19650	मैसर्स क्षितिज पेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	284.	18066	मैसर्स लियो टावर्स लिमिटेड
257.	21275	मैसर्स गोल्डनडेज स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	285.	7792	मैसर्स नवनीत कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
258.	14253	मैसर्स शिव शंकर फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड	286.	14085	मैसर्स अनुपम साईकल्स प्राईवेट लिमिटेड
259.	8581	मैसर्स एमाजोन लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड	287.	11962	मैसर्स पंजाब गियर्स लिमिटेड
260.	24194	मैसर्स टी एम रीयल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	288.	24195	मैसर्स पयूचर रीयल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
261.	17619	मैसर्स एक्शन ऑटो इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	289.	24196	मैसर्स जिनियस रीयल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
262.	25904	मैसर्स साइनस इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	290.	24493	मैसर्स डाइजेस्ट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
263.	27615	मैसर्स जय मान भानबोरी ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	291.	9355	मैसर्स गुरु कृपा प्रिन्टिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
264.	23933	मैसर्स सीही होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	292.	16654	मैसर्स सनशाईन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
265.	15459	मैसर्स असीम प्रोजेक्ट्स एण्ड मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	293.	13008	मैसर्स आर आर बेकर्स प्राईवेट लिमिटेड
266.	22770	मैसर्स कैप्टन स्पेशलिटीज प्राईवेट लिमिटेड	294.	10585	मैसर्स चिनार इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
267.	12651	मैसर्स एस पी हॉस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड	295.	11810	मैसर्स तरुण फिलिंग सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
268.	14018	मैसर्स भुलर एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	296.	20831	मैसर्स प्राईम एग्रोवुड प्लान्टेशन लिमिटेड
269.	10864	मैसर्स शरन स्पेशलिटीज पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड	297.	8282	मैसर्स मैसर्स आर एस बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
270.	14841	मैसर्स मेधा एक्सपोर्ट एग्री लिमिटेड	298.	21295	मैसर्स क्रोस कन्ट्री इमिग्रेशन कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
271.	11361	मैसर्स सर्वजीत लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	299.	11099	मैसर्स पेजासस इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
272.	23543	मैसर्स विश्वास एन्टरप्राइजेज लिमिटेड	300.	5616	मैसर्स वर्धमान एलोए एण्ड स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
273.	11557	मैसर्स निप्पोन इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	301.	3553	मैसर्स आर्या बस ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
274.	11558	मैसर्स ओस्टरिच ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	302.	21258	मैसर्स गिरी लाईम एण्ड केमिकल प्राईवेट लिमिटेड
275.	14202	मैसर्स माया फैशन निटवीयर्स लिमिटेड	303.	21258	मैसर्स प्रेम चन्द रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
276.	8299	मैसर्स ज्योती एप्लाइन्सेज प्राईवेट लिमिटेड			
277.	26435	मैसर्स सिलीस्ट्रियल एक्जीम प्राईवेट लिमिटेड			

एम. आर. दास
सहायक कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

जम्मू-180012, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. आर.ओ.सी./जेएमयू/560(5)/एसईएस/2003--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से कम्पनियां विघटित समझी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	07-475	मैसर्स एथिकेयर लेबोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
2.	07-549	मैसर्स बाबा मार्बल्स (जे. एण्ड के.) प्राईवेट लिमिटेड
3.	07-642	मैसर्स एटलस कारपेट मैनुफैक्चरर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	07-786	मैसर्स सोपोर इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	07-788	मैसर्स काजी गुंड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	07-789	मैसर्स बीरवाह इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	07-790	मैसर्स कारगिल इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	07-791	मैसर्स बटेट इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	07-792	मैसर्स लद्दाख इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	07-793	मैसर्स कोहशीन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	07-794	मैसर्स डोडा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	07-795	मैसर्स लोलाब इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	07-898	मैसर्स डी. वी. एस. कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	07-920	मैसर्स जोन पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	07-1107	मैसर्स ब्लू चिप कम्पोजेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	07-1133	मैसर्स देविका ट्रेड कॉक प्राईवेट लिमिटेड
17.	07-1167	मैसर्स पंजी फाईनेंस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
18.	07-1196	मैसर्स चाकू मैडीकल सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
19.	07-1227	मैसर्स पवानी हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
20.	07-1370	मैसर्स राजसन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
21.	07-1380	मैसर्स ईरुमाईल गुड्स कैरियर प्राईवेट लिमिटेड
22.	07-1445	मैसर्स एस. सी. सती मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
23.	07-1467	मैसर्स अजय रेसिन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	07-1495	मैसर्स चिनाब पेपर प्राईवेट लिमिटेड
25.	07-1552	मैसर्स चिनाब केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	07-1553	मैसर्स चिनाब कारबाईड प्राईवेट लिमिटेड
27.	07-1636	मैसर्स नाथ हायर परचेज एण्ड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड
28.	07-1789	मैसर्स सी.टी.आर. प्लाईज प्राईवेट लिमिटेड
29.	07-1925	मैसर्स साई तोश इन्फोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
30.	07-2294	मैसर्स श्री गुरु कृपा स्पंज आयरन प्राईवेट लिमिटेड
31.	07-359	मैसर्स फ्रेन्ड्स एसोसिएट्स फाईनेन्शियर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	07-995	मैसर्स चादूरा फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
33.	07-999	मैसर्स गुरीस फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
34.	07-1000	मैसर्स प्रॉग फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
35.	07-1004	मैसर्स रैनावारी फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
36.	07-1701	मैसर्स एवरग्रीन मोटर एण्ड जनरल फाईनेन्शियर्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	07-1798	मैसर्स एम. जी. ऑटोमोबाइल्स प्राईवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी पंजीकार
जम्मू एण्ड कश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 7 अप्रैल 2006

सं. क.र./प.ब./आईपीसी/560/एसईएस/2005--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह

सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 15 कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1.	83058	मैसर्स एन्जीनेया इन्टरप्रेनीयर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	46367	मैसर्स कारवां डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	36915	मैसर्स जजोदिया इलेक्ट्रीनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	63257	मैसर्स जय गोपाल एग्रो-टेक प्राईवेट लिमिटेड
5.	26179	मैसर्स मिमानी प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
6.	82976	मैसर्स एमआरएमडी फास्टर प्राईवेट लिमिटेड
7.	38062	मैसर्स नार्थ बेंगल ग्लास फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
8.	81199	मैसर्स पिकॉक इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	32415	मैसर्स प्रभुजी विनियोग प्राईवेट लिमिटेड
10.	19484	मैसर्स श्री नारायण ऑयल एण्ड राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	49769	मैसर्स स्टेण्डर्ड माइक्रोएसएफटी (इण्डिया) लिमिटेड
12.	47276	मैसर्स स्टार निट फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	41326	मैसर्स स्तुति होर्लिङ्ग्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	55697	मैसर्स चिन्नी इन्जीनियरिंग इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
15.	77756	मैसर्स वेल्मैन कोण्गोट्रेड प्राईवेट लिमिटेड

टी. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ई फाइव सिस्टम्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बेंगलूर, दिनांक 31 मार्च 2006

सं. कं.सं./560(3)/एस.सं./2005-2006--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ई फाइव सिस्टम्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

संजय कुमार गुप्ता
सहायक कम्पनी पंजीकार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कोच्ची-21, दिनांक 4 अप्रैल 2006

सं. 560(5)/लिक./1828--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	पंजीकरण सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	10810	मैसर्स अथिरा कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	10812	मैसर्स टोप इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
3.	10818	मैसर्स प्रिन्टआर्ट्स ऑफसेट प्राईवेट लिमिटेड
4.	10819	मैसर्स अम्बारी टेक्सटाईल्स एण्ड रेडी मेड्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	10821	मैसर्स आवर्स इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड
6.	10829	मैसर्स हसन शा चिद्र्स एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	10848	मैसर्स डिक्कूज़ हॉटप्लेम प्राईवेट लिमिटेड
8.	10858	मैसर्स मेट्रो शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
9.	10860	मैसर्स इन्डस होम एप्लियेयंसेज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
10.	10863	मैसर्स टीम ऑफ इण्डियन मार्केट इन्क्वायरी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
11.	10869	मैसर्स अम्मा फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	10881	मैसर्स मूथूट बेनीफिट फण्ड (त्रिवेन्द्रम) लिमिटेड
13.	10883	मैसर्स पी. वी. उक्कुरू एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	10886	मैसर्स जी. एस. वी. सल्लूशन्स एण्ड कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
15.	10889	मैसर्स नितेज इन्वोवेटिव सल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	10901	मैसर्स वेट्टुकड कुरीज एण्ड लोन्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	10905	मैसर्स नवोदया हाऊस लैब्रिंग एण्ड हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
18.	10906	मैसर्स फार्मर्स क्लब प्राईवेट लिमिटेड
19.	10917	मैसर्स मनोरमा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
20.	10927	मैसर्स टेक्निक्स एण्ड लोजिक्स प्राईवेट लिमिटेड	45.	11087	मैसर्स के पी पी नाम्बियार एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	10929	मैसर्स वृक्ष इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	46.	11089	मैसर्स समुद्रा रबर्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	10934	मैसर्स सिम्सुअर लेमिनेन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	47.	11112	मैसर्स आर. डी. के. इन्जीनियरिंग इक्विपमेन्ट्स (एक्सपोर्ट्स) प्राईवेट लिमिटेड
23.	10936	मैसर्स ग्रामम प्लास्टिक्स (प्राईवेट) लिमिटेड	48.	11130	मैसर्स वर्ल्ड न्यूज प्राईवेट लिमिटेड
24.	10942	मैसर्स जयाडी कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	49.	11141	मैसर्स ट्रेन्ड टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	10949	मैसर्स प्रोडिगी सॉफ्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	50.	11151	मैसर्स श्री मुरुगा चिदर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	10954	मैसर्स अशली हायर परचेज चिदर्स एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	51.	11167	मैसर्स पम्बा हायर परचेज एण्ड क्रेडिट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
27.	10956	मैसर्स वीनस कोचिंग एकेडेमी प्राईवेट लिमिटेड	52.	11206	मैसर्स अथुल्या सर्विसेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
28.	10957	मैसर्स क्विक रिच लीजिंग एण्ड हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	53.	11207	मैसर्स इनसाफ्ट एसेस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
29.	10965	मैसर्स शार्प प्रिन्टिंग मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड	54.	11210	मैसर्स गया हर्बल लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड
30.	10975	मैसर्स कुल ब्रीज सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	55.	11215	मैसर्स पल्लिकारा चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	10980	मैसर्स ओनस टूर पैकेज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	56.	11232	मैसर्स सन्निधि बेनीफिट कम्पनी लिमिटेड
32.	10982	मैसर्स सोवरन एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	57.	11233	मैसर्स कैरली मेडिकल एण्ड आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
33.	10990	मैसर्स क्लासिक मेकर्स प्राईवेट लिमिटेड	58.	11249	मैसर्स कासा मोन्ट ईस्टेब्लिश प्राईवेट लिमिटेड
34.	10991	मैसर्स इन्टर ट्रान्स प्राईवेट लिमिटेड	59.	11252	मैसर्स विडिया पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	11001	मैसर्स ए.एम.ए. अम्युजमेन्ट पार्क लिमिटेड	60.	11277	मैसर्स दि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
36.	11002	मैसर्स सिटी हायर परचेज (प्राईवेट) लिमिटेड	61.	11283	मैसर्स पैराडाईज चिदर्स एण्ड फाईनेन्स कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड
37.	11030	मैसर्स श्री महालासा चिदर्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	62.	11298	मैसर्स शिवराज मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
38.	11050	मैसर्स इन्डिपेन्डेंट माइक्रो सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड	63.	11304	मैसर्स प्रोमोटर्स चिदर्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	11051	मैसर्स दि कुरविलंगद कुरीस प्राईवेट लिमिटेड	64.	11312	मैसर्स परफेक्ट विजन प्राईवेट लिमिटेड
40.	11070	मैसर्स लिन्यास होम्स 'एन' रियल्टर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	65.	11317	मैसर्स ओस्टर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	11076	मैसर्स एग्रिविजन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	66.	11325	मैसर्स इक्सेल रोलर फ्लोर मिल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
42.	11078	मैसर्स हीरोज विंग जनरल फाईनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	67.	11337	मैसर्स रि-इनफार्म प्राईवेट लिमिटेड
43.	11080	मैसर्स इन्वेस्ट क्रेडिट्स एण्ड चिदर्स प्राईवेट लिमिटेड	68.	11343	मैसर्स यू-टेल फाईनेन्स कन्सलटेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
44.	11083	मैसर्स कन्ज्यूमर्स पापुलर लिक्स लिमिटेड	69.	11349	मैसर्स सेन्चुरियन एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
70.	11351	मैसर्स आर्या सेल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	95.	11702	मैसर्स स्टार इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाईनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
71.	11353	मैसर्स ओरियन ट्रेड्स एण्ड सर्विसेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	96.	11723	मैसर्स जितिन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
72.	11357	मैसर्स ईको इन्टरप्राइजेज (प्राइवेट) लिमिटेड	97.	11737	मैसर्स भूमिदय होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
73.	11360	मैसर्स विन चिट्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	98.	11758	मैसर्स अक्वालाईट पॉवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
74.	11361	मैसर्स कान ट्रान्स टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड	99.	11778	मैसर्स के एल एम कैपिटल क्रेडिट्स एण्ड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड
75.	11374	मैसर्स बिजनेस एडवर्टाइजर्स एण्ड प्रमोटर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	100.	11781	मैसर्स कम्पिता वालाप्पिल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
76.	11405	मैसर्स पी. एस. जे. इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	101.	11788	मैसर्स गार्सिनी एग्रो एण्ड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
77.	11420	मैसर्स हिलवे रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	102.	11791	मैसर्स सिंदर ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
78.	11437	मैसर्स भरथुआ फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	103.	11792	मैसर्स इलिसियम रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड
79.	11509	मैसर्स सेनिरोज चिट्स इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड	104.	11805	मैसर्स विस्मया फिल्म्स (प्राइवेट) लिमिटेड
80.	11526	मैसर्स सुम्मम बोनम फार्म्स प्रोड्यूस प्राइवेट लिमिटेड	105.	11806	मैसर्स सेन्सी इण्डिया टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
81.	11527	मैसर्स ओप्टिकल्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	106.	11833	मैसर्स उराशिमा क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
82.	11528	मैसर्स रित्विक इन्टर ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	107.	11871	मैसर्स प्रोग्रेस इण्डिया लक्की लिंक प्राइवेट लिमिटेड
83.	11549	मैसर्स रिसोर्स बेस लिमिटेड	108.	11877	मैसर्स कार्नरस्टोन प्रोडक्शन्स एण्ड सर्विसेस (प्राइवेट) लिमिटेड
84.	11572	मैसर्स शालीमार होम्स प्राइवेट लिमिटेड	109.	11879	मैसर्स मालानाडु एडवान्स्ड सिस्टम्स एण्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
85.	11598	मैसर्स नेदुम्परम्बिल क्रेडिट्स एण्ड कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड	110.	11881	मैसर्स सुप्रीम चैनल (प्राइवेट) लिमिटेड
86.	11599	मैसर्स श्यामा लैम्प्स प्राइवेट लिमिटेड	111.	11886	मैसर्स मार्क पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
87.	11623	मैसर्स माइक्रोन पार्टिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	112.	11892	मैसर्स ट्रेफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
88.	11647	मैसर्स दि नोबल क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड	113.	11896	मैसर्स रोहिणी पोर्टफोलियो मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
89.	11659	मैसर्स गौरी नन्दना फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	114.	11899	मैसर्स मेट्रोवाइड कुरीस प्राइवेट लिमिटेड
90.	11673	मैसर्स श्रीनिकेतन कैशियूज प्राइवेट लिमिटेड	115.	11908	मैसर्स शेफर्ड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
91.	11674	मैसर्स स्नेहश्रृंगला एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	116.	11948	मैसर्स वैदूरिया होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
92.	11675	मैसर्स महालक्ष्मी एडवान्सेज एण्ड कुरीस प्राइवेट लिमिटेड	117.	11953	मैसर्स वालानट रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
93.	11685	मैसर्स मेरीडियन लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड	118.	11964	मैसर्स टेक्सास इक्विपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
94.	11689	मैसर्स रुबिकोन इन्डस्ट्रियल एजेंन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	119.	11966	मैसर्स इन्टल इण्डिया अप्पारेल (प्राइवेट) लिमिटेड
			120.	11970	मैसर्स किल्लानूर कुरीस प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
121.	11972	मैसर्स एसोसिएटेड ट्रेवेल एण्ड फ्रेट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	148.	12334	मैसर्स सी.एन.एस. आयुर्वेद चिकित्सायलम प्राईवेट लिमिटेड
122.	11987	मैसर्स माईश्री मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	149.	12346	मैसर्स फणेन्द्रा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
123.	11994	मैसर्स नवरंग बायो-टेक इण्डिया लिमिटेड	150.	12371	मैसर्स मैस एसोसिएट्स जनरल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
124.	11995	मैसर्स आयशा मेरीन प्राईवेट लिमिटेड	151.	12397	मैसर्स इक्सेल लाटरी सर्विसेस इण्डिया लिमिटेड
125.	12010	मैसर्स मेनहाल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	152.	12401	मैसर्स गुड लक लाटरी एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
126.	12020	मैसर्स टावर पार्स प्राईवेट लिमिटेड	153.	12409	मैसर्स लॉर्ड अय्यप्पा एडवर्टाईजर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
127.	12024	मैसर्स हेक्सा गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	154.	12410	मैसर्स फ्लोरिडा एग्रो टेक इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
128.	12034	मैसर्स स्क्वल टेक सिस्टम्स एण्ड मचैन्ड्राईज प्राईवेट लिमिटेड	155.	12424	मैसर्स मार्क मैनेजमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
129.	12050	मैसर्स ट्रिनिटी हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	156.	12434	मैसर्स ओरियन डिस्ट्रीलरीज प्राईवेट लिमिटेड
130.	12058	मैसर्स कोसीए कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	157.	12456	मैसर्स फेमिली शॉपिंग सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
131.	12071	मैसर्स कॉर्टियर चिट्स प्राईवेट लिमिटेड	158.	12462	मैसर्स इस्सिक्स फोरेक्स प्राईवेट लिमिटेड
132.	12085	मैसर्स स्पाईजेल नेटवर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	159.	12478	मैसर्स स्वश्रय चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	12088	मैसर्स रोहिनी एग्रो फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड	160.	12483	मैसर्स ऑल केयर इण्डिया मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
134.	12197	मैसर्स एग्रो टेक ओर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड	161.	12486	मैसर्स रिमथ चेरी इन्स्ट्रुमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
135.	12199	मैसर्स जीसीएम ट्रेड्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	162.	12493	मैसर्स श्री गणेश ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
136.	12203	मैसर्स सेन्टर फार ऐचआरडी एण्ड मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	163.	12524	मैसर्स किंग डैविड होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड
137.	12219	मैसर्स श्रीधारी आर्यवैद्यशाला प्राईवेट लिमिटेड	164.	12536	मैसर्स बाका एक्सपोर्ट्स सेल्स एण्ड ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
138.	12220	मैसर्स दयापुरम हास्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड	165.	12621	मैसर्स मुम्सई मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
139.	12226	मैसर्स अक्कारा कार कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	166.	12644	मैसर्स श्रीथागिरी ग्रीन फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
140.	12242	मैसर्स हीबा ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	167.	12653	मैसर्स सेन्ट थॉमस फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
141.	12243	मैसर्स मालाबार हेल्थ केयर लिमिटेड	168.	12675	मैसर्स मास्टरलाइन ऑटोमेशन प्राईवेट लिमिटेड
142.	12244	मैसर्स जेआरबी रबर्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	169.	12696	मैसर्स चिरोथ डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
143.	12258	मैसर्स करकट होटेल्स लिमिटेड	170.	12699	मैसर्स गैलेक्सी गैस कार प्राईवेट लिमिटेड
144.	12295	मैसर्स इन्फ्राटेक इन्जीनियरिंग (प्राईवेट) लिमिटेड	171.	12716	मैसर्स प्रिया सुहृथ पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
145.	12298	मैसर्स रुबोब्लॉक प्रि-ट्रीड्स प्राईवेट लिमिटेड	172.	12738	मैसर्स मैत्री रबर फैक्ट्री लिमिटेड
146.	12319	मैसर्स स्ट्रुक्चर इन्जीनियर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	173.	12740	मैसर्स टी. जे. जॉन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
147.	12326	मैसर्स मिश्रागिरी रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	174.	12798	मैसर्स प्रत्याशा ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
175.	12803	मैसर्स त्रिस्सूर एकोडमी ऑफ एडवान्सड स्टडीज (प्राइवेट) लिमिटेड	201.	13221	मैसर्स कोचीन साक्स म्युजिक्स प्राइवेट लिमिटेड
176.	12816	मैसर्स नोवियन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	202.	13247	मैसर्स रबगुस्टे टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड
177.	12821	मैसर्स विण्ड टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड	203.	13257	मैसर्स थाराकन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
178.	12832	मैसर्स साउदर्न एविएशन सर्विसेस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	204.	13269	मैसर्स सहसरा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
179.	12857	मैसर्स अत्रेया हर्बल रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड	205.	13294	मैसर्स सोलिड र्थमिक बॉन्ड्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
180.	12862	मैसर्स एसबी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	206.	13329	मैसर्स तिरुवनन्तपुरम एक्सप्रेस प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
181.	12875	मैसर्स तरुस नट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	207.	13331	मैसर्स टीआरवी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
182.	12883	मैसर्स त्रिवेन्द्रम कौन्सर इन्स्टिट्यूट लिमिटेड	208.	13337	मैसर्स जेसिका पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
183.	12919	मैसर्स हरिष्यद सेक्युरिटी एजेन्सीज प्राइवेट लिमिटेड	209.	13338	मैसर्स एआरएफ ट्रेवल इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
184.	12972	मैसर्स प्रतिभासॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड	210.	13339	मैसर्स इस्लैन्डर ईको टूरिज्म (प्राइवेट) लिमिटेड
185.	12977	मैसर्स रेबिरो इन्जीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड	211.	13357	मैसर्स सिन्धु आयुर्वेदिक्स प्राइवेट लिमिटेड
186.	12999	मैसर्स प्रेक्षक क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड	212.	13358	मैसर्स डायल पब्लिकेशन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
187.	13000	मैसर्स सियास ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	213.	13360	मैसर्स नेस्ट साइबर शैक प्राइवेट लिमिटेड
188.	13003	मैसर्स लेजर वर्ल्ड इन्टरटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	214.	13361	मैसर्स कोरबाई इन्फोसल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
189.	13006	मैसर्स इन्दु ग्लोबल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	215.	13363	मैसर्स डायमण्ड चैनल प्राइवेट लिमिटेड
190.	13010	मैसर्स ट्रिओनिया सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड	216.	13374	मैसर्स स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
191.	13016	मैसर्स नितिन लाटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	217.	13392	मैसर्स जस्ट डायल सैटेलाइट कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
192.	13042	मैसर्स कॉमसॉफ्ट इन्फोसिस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	218.	13396	मैसर्स सेन्स बिजनेस कम्युनिकेशन्स (केरला) प्राइवेट लिमिटेड
193.	13083	मैसर्स सारणी शेयर्स एण्ड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड	219.	13397	मैसर्स त्रिचूर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड
194.	13088	मैसर्स जयथा कुरीस प्राइवेट लिमिटेड	220.	13417	मैसर्स साइबेले हर्बल स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
195.	13091	मैसर्स जेनफोकस इन्फॉमेटिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	221.	13425	मैसर्स बीएमबी कन्स्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
196.	13142	मैसर्स इन्टर शिपिंग ट्रेवल्स एण्ड एक्जीविशन्स प्राइवेट लिमिटेड	222.	13443	मैसर्स ब्रिनला मर्केन्टाइल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
197.	13171	मैसर्स एलायेन्स एबोड्स एण्ड इडिफिकेस लिमिटेड	223.	13454	मैसर्स वीना चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
198.	13172	मैसर्स न्यू वर्ल्ड प्रिन्टिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	224.	13469	मैसर्स स्पेक्टा हेल्थकेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
199.	13200	मैसर्स पेन्सिल इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड	225.	13484	मैसर्स कोल्विन इन्टरनेशनल लिमिटेड
200.	13203	मैसर्स वी. सी. इन्जीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	226.	13534	मैसर्स सबीज प्रेयन्स प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
227.	13536	मैसर्स लिपि सॉफ्टवेयर पार्क प्राईवेट लिमिटेड	254.	14903	मैसर्स अगस्त एजुकेशनल एक्सचेंज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
228.	13589	मैसर्स केरला इन्टिग्रेटेड मार्केटिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	255.	14938	मैसर्स हेल्थ केयर इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
229.	13613	मैसर्स विहायस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	256.	14943	मैसर्स सेन्टीम कन्सल्टेन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
230.	13642	मैसर्स सेक्योर साइबर सल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	257.	14962	मैसर्स हाई-विजन मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
231.	13662	मैसर्स ब्लेज एप्परेल्स प्राईवेट लिमिटेड	258.	14992	मैसर्स बीएमबी हेल्थ केयर कन्सल्टेन्सी सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
232.	13698	मैसर्स ग्रासहोपर इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	259.	15010	मैसर्स सन पॉवर नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड
233.	13706	मैसर्स एस्पेक्ट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	260.	15074	मैसर्स पलक्कड हॉस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
234.	13707	मैसर्स जेनेका फार्मास्यूटिकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड	261.	15179	मैसर्स जेन्यून बिनरी सल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
235.	13710	मैसर्स पनाचे कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	262.	15181	मैसर्स पान्डवन्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
236.	13717	मैसर्स जनथा होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	263.	15190	मैसर्स अपोलो आईटी सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
237.	13725	मैसर्स हिट्स इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	264.	15221	मैसर्स एक्सगेज इन्फो सल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
238.	13730	मैसर्स ट्रान्ज़मेड टेक्नोलोजीज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	265.	15237	मैसर्स कैन कूरियर एण्ड कार्गो प्राईवेट लिमिटेड
239.	13736	मैसर्स राजाप्रस्थम फार्मिनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	266.	15269	मैसर्स कोचीन ई-लैण्ड आईटी पार्क प्राईवेट लिमिटेड
240.	13746	मैसर्स क्रिस्टल वेब साइट प्राईवेट लिमिटेड	267.	15299	मैसर्स सस्ता गुड्स कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
241.	13760	मैसर्स टूरसेटर्स ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	268.	15343	मैसर्स चीता मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
242.	13768	मैसर्स इटसॉफ्ट सल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	269.	15353	मैसर्स एस सी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
243.	13788	मैसर्स मिन्ट वैली ई-कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड	270.	15383	मैसर्स फारचून बुशकमसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
244.	13800	मैसर्स विल्ली एण्ड विल्ली सॉफ्टवेयर (प्राईवेट) लिमिटेड	271.	15403	मैसर्स डी-लिक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
245.	13802	मैसर्स मुक्केरा विजन प्राईवेट लिमिटेड	272.	15436	मैसर्स बेधेस्वा हेल्थकेयर सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
246.	13805	मैसर्स ईस्ट वेस्ट इन्टरनेट क्लब प्राईवेट लिमिटेड	273.	15469	मैसर्स सैन सिलिकॉन आईटी प्राईवेट लिमिटेड
247.	13809	मैसर्स केजी इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	274.	15474	मैसर्स प्राइम एकेडमी फॉर रिसर्च इन टेलेन्स प्राईवेट लिमिटेड
248.	13818	मैसर्स सॉफ्टएक्सल टेक्नोलोजी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	275.	15573	मैसर्स एनजीबी हाईजीन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
249.	13825	मैसर्स वी.एच. एण्ड एम.एच. बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	276.	15598	मैसर्स मेडोना इन्फो टेक प्राईवेट लिमिटेड
250.	13827	मैसर्स इरानहिकल इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	277.	15683	मैसर्स माइक्रोन हाई-टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
251.	13830	मैसर्स फाइबरट्रॉनिक्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	278.	15827	मैसर्स सगम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
252.	13942	मैसर्स टी. टी. शेयर लिक्स प्राईवेट लिमिटेड			
253.	14895	मैसर्स बिनाईन केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
279.	13955	मैसर्स बिजीबिज सिस्टम्स लिमिटेड
280.	13964	मैसर्स एडवेनटसॉफ्ट इन्फो सल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
281.	13982	मैसर्स कृष्णा ट्रान्सक्रिप्स प्राईवेट लिमिटेड
282.	13991	मैसर्स बीटूसी वेब कॉमर्स प्राईवेट लिमिटेड
283.	14042	मैसर्स पीके फलो टेक्नोलोजी (प्राईवेट) लिमिटेड
284.	14044	मैसर्स एप्टिड्यूड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
285.	14064	मैसर्स बीसीसी टूर आपरेटर्स लिमिटेड
286.	14068	मैसर्स ट्रिम्फट शिपिंग प्राईवेट लिमिटेड
287.	14079	मैसर्स कोइलन्डी इन्स्टिट्यूट ऑफ़ इन्फोर-मेशन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
288.	14104	मैसर्स इन्टरसेल ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
289.	14119	मैसर्स फास्टनेट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
290.	14170	मैसर्स मेरोली चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
291.	14177	मैसर्स हेरिटेज रिट्रीट प्राईवेट लिमिटेड
292.	14203	मैसर्स बेस टू सल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
293.	14206	मैसर्स श्री कृष्णा होम नीड्स प्राईवेट लिमिटेड
294.	14262	मैसर्स ब्ल्यू बक सिस्टम्स एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
295.	14303	मैसर्स कुलवेब टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
296.	14315	मैसर्स मम्मेन इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
297.	14321	मैसर्स हाईनेस टेक्नो फूड्स लिमिटेड
298.	14360	मैसर्स रबर एक्सचेंज ई.कॉम प्राईवेट लिमिटेड
299.	14385	मैसर्स यूरो वेब-नेट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
300.	14402	मैसर्स एमेस्की एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
301.	14410	मैसर्स क्रॉस लिंक कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
302.	14419	मैसर्स ई-स्पाइडर्स ऑनलाइन प्राईवेट लिमिटेड
303.	14420	मैसर्स सॉफ्ट एन हार्ड आई.टी. सल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
304.	14468	मैसर्स जोग्राफिका टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
305.	14539	मैसर्स नन्दी सॉफ्टवेक एण्ड कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
306.	14540	मैसर्स यूनिटेक डिजिटल सिस्टम्स एण्ड कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड
307.	14544	मैसर्स केयर मल्टी मीडिया लिमिटेड
308.	14551	मैसर्स रिवर फ्रन्ट रिसोर्ट्स केरला प्राईवेट लिमिटेड
309.	14552	मैसर्स आर्यन्स रीवर रिसोर्ट्स केरला प्राईवेट लिमिटेड
310.	14533	मैसर्स अधिरापिल्ली स्ट्रीम रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
311.	14579	मैसर्स न्यूलाइफ नेटवर्किंग एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
312.	14601	मैसर्स इलामना चिट्टी फण्ड प्राईवेट लिमिटेड
313.	14640	मैसर्स अनर व्हाइट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
314.	14661	मैसर्स रिबेरो मर्कैन्टायल प्राईवेट लिमिटेड
315.	14693	मैसर्स भिकाडो मार्केटिंग सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
316.	14702	मैसर्स पोलोलॉक सेफ्टी सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड
317.	14750	मैसर्स सुपर-टेक मार्केटिंग टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड
318.	14767	मैसर्स हेल ट्रेडर्स लिक्स प्राईवेट लिमिटेड
319.	14770	मैसर्स होटल सनोज प्राईवेट लिमिटेड
320.	14875	मैसर्स एरोलाइन टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड

एस. एम. अमीरुल मिल्लत
कम्पनियों के पंजीकार
केरला

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विजयी भवा इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

चेन्नई, दिनांक 8 मार्च 2006

सं. 560(3)/39953/2006—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विजयी भवा इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस. मीनाक्षी
सहायक कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

**UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
EXAMINATION NOTICE NO. 08/2006-CDS-II
COMBINED DEFENCE SERVICES
EXAMINATION (II), 2006**

New Delhi, the 22nd April 2006

No. F 8/3/2005-E.I(B).—A Combined Defence Services Examination will be conducted by the Union Public Service Commission on 17th September, 2006 for admission to the undermentioned courses.

Name of the Course and Approximate No. of Vacancies:

1. Indian Military Academy, Dehradun 123rd Course commencing in July, 2007 [Includes 32 vacancies reserved for NCC 'C' Certificate (Army Wing) holders]. 250@
2. Naval Academy Goa—Course commencing in July, 2007 Executive (General Service/Hydro) [including Six reserved for NCC 'C' Certificate holders (Naval Wing)]. 30
3. Air Force Academy, Hyderabad (Pre-Flying) Training Course commencing in July, 2007 i.e. No. 182nd F(P) Course. 32
4. Officers' Training Academy, Chennai (Madras) 86th SSC Course commencing in October, 2007. 163

Note : The number of vacancies given above is tentative and may be changed at any stage by Army H. Q.

N.B. (i) (a) A candidate is required to specify clearly in column 22 of the Application Form the Services for which he wishes to be considered in the order of his preference. He is also advised to indicate as many preferences as he wishes to, subject to the condition given at para (b) below, so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to his preferences when making appointment.

(b) Candidates who desire to join Air Force Academy must indicate AFA as first choice, as they have to be administered pilot aptitude battery test at one of the AFSB and AF Medical at Central Medical Establishment/Institute of Aviation Medicines. Choice exercised for AFA as second or third will be treated as invalid. If a candidate is competing for OTA as well as for any other Course(s) viz. IMA, Naval Academy, and Air Force Academy, then OTA will always be his last choice. In such cases, the candidate must therefore give OTA as his last choice, as otherwise OTA will be deemed to be the last choice even if it is given a higher preference by the candidate. OTA can be the first preference if it is the one and only choice.

(c) Candidates should note that, except as provided in N.B. (ii) below, they will be considered for appointment to those courses only for which they exercise their preference and for no other course(s).

(d) No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his application will be entertained by the Commission. No change of choice once exercised will be allowed. Second choice will come for

consideration only when the first choice is not offered to the candidate by Services HQ. When first choice is offered and a candidate declines the same, his candidature will be cancelled for all other choices for regular commission.

N.B. (ii) The left-over candidates of IMA/Naval Academy/Air Force Academy courses viz, those who have been recommended by the Union Public Service Commission for grant of permanent commission on the basis of the final results of this Examination, but who could not be inducted on these courses for any reason whatsoever may be considered for grant of SSC even if they have not indicated their choice for this course in their applications, if they are subsequently willing to be considered for this course subject to the following conditions :

(i) There is a shortfall after detailing all the candidates who competed for the SSC Course; and

(ii) The candidates who are detailed for training even though they have not expressed their preference for SSC will be placed in the order of Merit List after the last candidate who had opted for this Course, as these candidates will be getting admission to the Course to which they are not entitled according to the preference expressed by them.

(iii) Candidates with Air Force as first and only choice cannot be considered as left over for grant of SSC (OTA) if they fail in the Pilot Aptitude Battery Test. Such candidates, if they desire to be considered for SSC (OTA) should exercise their option for OTA also.

Note 1 : NCC 'C' Certificate (Army Wing/Senior Division Air Wing/Naval Wing) holders may also compete for the vacancies in the Short Service Commission Course but since there is no reservation of vacancies for them in this course, they will be treated as general candidates for the purpose of filling up vacancies in this course. Candidates who have yet to pass NCC 'C' Certificate (Army Wing/Senior Division Air Wing/Naval Wing) examination, but are otherwise eligible to compete for the reserved vacancies, may also apply but they will be required to submit the proof of passing the NCC 'C' Certificate (Army Wing/Senior Division Air Wing/Naval Wing) examination to reach the Army HQ/Rtg. CDSE Entry, West Block III R. K. Puram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates and Naval HQ (R&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110 011 in case of Navy first choice candidates and PO 3 (A)/Air Headquarters 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110-011 in case of Air Force first choice candidates by 15th May, 2007. To be eligible to compete for reserved vacancies the candidates should have served for not less than 2 academic years in the Senior Division Army Wing and 3 academic years in the Senior Division Air Wing/Naval Wing of National Cadet Corps and should not have been discharged from the NCC for more than 24 months for IMA/Naval Academy/Air Force Academy courses on the last date of receipt of Application in the Commission's Office.

Note 2 : In the event of sufficient number of qualified NCC 'C' Certificate (Army Wing/Senior Division Air Wing/ Naval Wing) holders not becoming available on the results of the examination to fill all the vacancies reserved for them in the Indian Military Academy Course/Air Force Academy Course/Naval Academy Course, the unfilled reserved vacancies shall be treated as unreserved and filled by general candidates.

Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by the Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination. The details regarding the (a) scheme, standard, syllabus of the examination, (b) Guidelines with regard to physical standards for admission to the Academy and (c) Brief particulars of services etc. for candidates joining the Indian Military Academy, Naval Academy, Air Force Academy and Officers' Training Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

2. Centres of Examination : The Examination will be held at the following Centres :

Agartala, Ahmedabad, Aizwal, Allahabad, Bangalore, Bareilly, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Cuttack, Dehradun, Delhi, Dharwar, Dispur, Gangtok, Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Jammu, Jorhat, Kochi, Kohima, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mumbai, Nagpur, Panaji (Goa), Patna, Port Blair, Raipur, Ranchi, Sambalpur, Shillong, Shimla, Srinagar, Thiruvananthapuram, Tirupati, Udaipur and Vishakhapatnam.

The centres and the date of holding the examination as mentioned above are liable to be changed at the discretion of the Commission. While every effort will be made to allot the candidates to the centre of their choice for examination, the Commission may, at their discretion allot a different centre to a candidate, when circumstances so warrant. Candidates admitted to the examination will be informed of the time table and place or places of examination.

Candidates should note that no request for change of centre will normally be granted. When a candidate, however, desires a change in centre from the one he had indicated in his application form for the Examination, he must send a letter addressed to the Secretary, Union Public Service Commission, giving full justification as to why he desires a change in centre. Such requests will be considered on merits but requests received after the 21st July, 2006 will not be entertained under any circumstances.

Note : While filling in his application form, the candidates should carefully decide about his choice for the centre for the examination. More than one application form a candidate giving different centres will not be accepted in any case. Even if a candidate sends more than one completed application, the Commission will accept only one application at their discretion and the Commission's decision in the matter shall be final.

If any candidate appears at a Centre/Paper other than the one indicated by the Commission in his Admission Certificate, the papers of such a candidate will not be valued and his candidature will be liable to cancellation.

3. Conditions of Eligibility :

(a) Nationality : A candidate must either be :

- (i) a Citizen of India, or
- (ii) a subject of Bhutan, or
- (iii) a subject of Nepal, or

(iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will, however, not be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to the examination provisionally subject to the necessary certificate being given to him by the Govt. before declaration of result by UPSC.

(b) Age Limits, Sex and Marital Status :

(i) For IMA—Unmarried male candidates born not earlier than 2nd July, 1983 and not later than 1st July, 1988 only are eligible.

(ii) For Naval Academy—Unmarried male candidates born not earlier than 2nd July, 1985 (2nd July, 1983 in case of NCC Naval Wing 'C' Certificate holders) and not later than 1st July, 1988 only are eligible.

(iii) For Air Force Academy—Unmarried male candidates born not earlier than 2nd July, 1984 and not later than 1st July, 1988 only are eligible.

(iv) For Officers Training Academy—Male candidates (married or unmarried) born not earlier than 2nd July, 1982 and not later than 1st July, 1988 only are eligible.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate. These certificates are required to be submitted only after the declaration of the result of the written part of the examination. No other document relating to age like horoscopes, affidavits,

birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth, or only shows the age by completed years or completed years and months, in such cases a candidate must send in addition to the attested/certified copy of Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate an attested/certified copy of a certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing the date of his birth or exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Note I : Candidates should note that only the Date of Birth as recorded in the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

Note 2 : Candidates should also note that once a Date of Birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at a subsequent examination on any ground whatsoever.

Note 3 : The candidates should exercise due care while entering their date of birth in column 8 of the application form for the Examination. If on verification at any subsequent stage any variation is found in their date of birth from the one entered in their Matriculation or equivalent examination certificate, disciplinary action will be taken against them by the Commission under the Rules.

(c) Educational Qualifications :

(i) For I.M.A. and Officers' Training Academy : Degree of a recognised University or equivalent.

(ii) For Naval Academy : B.Sc. (with Physics & Mathematics) or Bachelor of Engineering.

(iii) For Air Force Academy : Degree of a recognised University (with Physics and Mathematics at 10+2 level) or Bachelor of Engineering.

Graduates with first choice as Army/Navy/Air Force are to submit proof of graduation provisional certificates on the date of commencement of the SSB Interview at the SSB.

Candidates who are studying in the final year Degree course and have yet to pass the final year degree examination can also apply but they will be required to submit proof of passing the degree examination to reach the Army HQ/Rtg. CDSE Entry, West Block III, R. K. Puram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates and Naval HQ "DMPR" (R & R, Section) Room No. 204, 'C' Wing, Sena

Bhawan, New Delhi-110011 in case of Navy first choice candidates and PO3(A)/Air Headquarters, 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110011 in case of Air Force first choice candidates by the following dates failing which their candidature will stand cancelled :

(i) For admission to IMA, Naval and Air Force Academy on or before 15th May, 2007.

(ii) For admission to Officer's Training Academy, Chennai on or before 01st August, 2007.

Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by government as equivalent to professional and technical degrees would also be eligible for admission to the examination.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

Note I : Candidates, who have yet to pass their degree examination will be eligible only if they are studying in the final year of degree examination. Those candidates who have yet to qualify in the final year Degree Examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the Degree examination by the prescribed date and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of basic qualifying University Examination, delay in declaration of results or any other ground whatsoever.

Note II : Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

Note III : In the event of Air Force candidates being suspended from Flying training for failure to learn flying, they would be absorbed in the Navigation/Administration/Logistic Branch of the IAF. This will be subject to availability of vacancies and fulfilling the laid down qualitative requirements. (including 60% in graduation).

(d) Physical Standards :

Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to Combined Defence Services Examination (II), 2006 as per guidelines given in Appendix-V.

4. Fee :

A candidate seeking admission to examination must pay to the Commission a fee of Rs. 100/- (Rupees one hundred only) through a single Central Recruitment Fee Stamp of the requisite denomination. Central Recruitment Fee Stamp (NOT postage stamps) may be obtained from the post office and affixed firmly on the application form in the space provided therein. The stamp must be got cancelled from the issuing Post office with the date stamp of the post office in such a

manner that the impression of the cancellation mark partially overflows on the application form itself but within the space provided on the form. The impression of the cancellation mark should be clear and distinct to facilitate the identification of date and the Post Office of issue.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or representative abroad as the case may be for credit to account head '051-Public Service Commission-Examination Fees' and attach the receipt with the application. **CANDIDATES BELONGING TO SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES ARE NOT REQUIRED TO PAY ANY FEE. NO FEE EXEMPTION IS, HOWEVER, AVAILABLE TO OBC CANDIDATES AND THEY ARE REQUIRED TO PAY THE FULL PRESCRIBED FEE.**

'Postage Stamps' will in no case be accepted in lieu of Central Recruitment Fee Stamp.

Note (i): CANDIDATES SHOULD NOTE THAT THE FEE SENT THROUGH INDIAN POSTAL ORDERS, BANK DRAFT, MONEY ORDERS, CROSSED CHEQUE, CURRENCY NOTES OR TREASURY CHALLAN ETC. WILL NOT BE ACCEPTED BY THE COMMISSION AND SUCH APPLICATIONS WILL BE TREATED AS WITHOUT FEE AND WILL BE SUMMARILY REJECTED.

Note (ii): Applications not accompanied by the prescribed Fee (Unless remission of Fee is claimed) shall be summarily rejected.

Note (iii): Fee once paid shall not be refunded under any circumstances nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

5. How to Apply:

(a) The UPSC have developed an application form common for all their examinations which can be processed on computerised machines. This application form along with an information Brochure containing general instructions for filling up the form, an acknowledgement card and an envelope for sending the application is obtainable from the designated Head Post Offices/Post Offices throughout the country as listed in Appendix-III of Notice against cash payment of Rs. 20/- (Rupees twenty only). Form should be purchased from the designated Head Post Offices/Post Offices only and not from any other agency. This form can be used only once and for only one examination. Candidates must use the Form supplied with the information Brochure only and they should in no case use photocopy/reproduction/unauthorised printed copy of the Form. Since this form is electronically scannable, due care should be taken to fill up the application form correctly. While filling up the application form, please refer to detailed instructions given in Appendix-II of this Notice. The candidates should also fill up in the relevant places of the acknowledgement card, their Application Form Number (8-digit) and the name of the examination. The applicants are

required to Affix the postage stamp of Rs. 6/- on the Acknowledgement Cards and send the same along with application form to UPSC. If an applicant fails to affix the postage stamp of requisite amount his Acknowledgement Card will not be dispatched and Commission will not be responsible for non-receipt of Acknowledgement Cards by the applicant. The duly filled in application form and the acknowledgement card along with unstamped self addressed envelope to receive a SSB interview call letter should then be mailed in the special envelope supplied with the Information Brochure. The candidates should also write the name of examination viz. "Combined Defence Services Examination-(II) 2006" on the envelope before despatching it to "Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110069".

(b) All candidates (except those serving in Armed Forces) should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application, even if submitted to the employer before the closing date, will not be considered. Persons serving under the Public Enterprises are however, required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for this Examination. Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

Candidates serving in the Armed Forces must submit their application through their Commanding Officer who will forward it to the Commission indicating in the forwarding letter the name of the applicant and his application Form Number (8-digit). Failure to comply with this instruction will entail cancellation of his candidature/rejection of his application.

NOTE: APPLICATION NOT ACCOMPANIED BY THE PRESCRIBED FEE (UNLESS REMISSION OF FEE IS CLAIMED AS IN PARA 4 ABOVE) OR INCOMPLETE OR DEFECTIVE APPLICATIONS SHALL BE SUMMARILY REJECTED. No representation or correspondence regarding such rejection shall be entertained under any circumstances. Candidates are not required to submit along with their applications any certificate in support of their claims regarding age, educational qualifications, Scheduled caste/Scheduled tribe/OBC and fee remission etc.

THE CANDIDATES APPLYING FOR THE EXAMINATION SHOULD ENSURE THAT THEY FULFIL ALL THE ELIGIBILITY CONDITIONS FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION.

THEIR ADMISSION AT ALL THE STAGES OF EXAMINATION FOR WHICH THEY ARE ADMITTED BY THE COMMISSION VIZ. WRITTEN EXAMINATION AND INTERVIEW TEST WILL BE PURELY PROVISIONAL,

SUBJECT TO THEIR SATISFYING THE PRESCRIBED ELIGIBILITY CONDITIONS. IF ON VERIFICATION AT ANY TIME BEFORE OR AFTER THE WRITTEN EXAMINATION OR INTERVIEW TEST, IT IS FOUND THAT THEY DO NOT FULFIL ANY OF THE ELIGIBILITY CONDITIONS, THEIR CANDIDATURE FOR THE EXAMINATION WILL BE CANCELLED BY THE COMMISSION.

Candidates are advised to keep ready the following documents in original alongwith their attested copies soon after the declaration of the result of the written part of the examination which is likely to be declared in the month of December, 2006 for submission to the Army HQ/Naval HQ/Air HQ as the case may be :

(1) Matric/Higher Secondary School Certificate or its equivalent showing date of birth. (2) Degree/Provisional Degree Certificate/Marks sheet showing clearly having passed degree examination and eligible for award of degree.

In the first instance all qualified candidates eligible for SSB interview will carry their original Matric/Higher Secondary School Certificate as also their Degree/Provisional Degree Certificate/Marks sheet with them while going to the Services Selection Centres for SSB interview. Candidates who have not yet qualified the final year Degree examination must carry with them a certificate in original from the Principal of the College/Institution stating that the candidate has appeared/is appearing at the final year Degree examination. Candidates who do not carry the above certificates with them while going to the Services Selection Centres shall not be allowed to appear for the SSB interview. No relaxation for non-submission of the above certificates in original at the selection centre is allowed, and candidates who do not carry with them any of these certificates in original will not be permitted to appear for their SSB test and interview and they will be sent back home at their own expense.

If any of their claims is found to be incorrect/false/fraud/fabricated they may render themselves liable to disciplinary action by the Commission in terms of the following provisions :

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :

- (i) obtaining support for his candidature by any means, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means during the examination, or
- (viii) writing irrelevant matter, including obscene languages or pornographic matter, in the script(s), or

- (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or
- (xi) being in possession of or using any cellular/mobile phone, pager or any electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination, or
- (xii) violating any of the instructions issued to candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
- (xiii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable :
 - (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate and/or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period :
 - (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government from any employment under them; and
 - (c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rules shall be imposed except after

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation, in writing as he may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

CANDIDATES MAY NOTE THAT THEY SHOULD NOT APPLY TO THE UPSC. FOR APPLICATION FORM, RULES SYLLABUS ETC. APPLICATION FORM AS MAY BE PURCHASED FROM THE DESIGNATED HEAD POST OFFICES/POST OFFICES LISTED IN APPENDIX III SHOULD BE USED AS EXPLAINED ABOVE.

6. LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS

(i) The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Raod, New Delhi-110069 on or before 22nd May, 2006.

(ii) In respect of applications received only by post (by post/speed post) from the candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu & Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal

Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad, the last date for receipt of applications is 29th May, 2006. The benefit of extended time will be available only in respect of applications received by post/speed post from the above mentioned areas/regions. In the case of applications received by hand or through courier service, benefit of extended time will not be available regardless of the place of residence of the applicant.

Candidates who are claiming the benefit of extended time should clearly indicate in Column 13(II) of the application form, the area code of the particular area or region (e.g. Assam, Meghalaya, J&K etc.) where they are residing. In case they fail to do so, the benefit of extended time will not be allowed to them.

NOTE I : Candidates should clearly note that the Commission will in no case be responsible for non-receipt of their application or any delay in receipt thereof on any account whatsoever. No application received after the prescribed last date will be entertained under any circumstances and all the late applications will be summarily rejected. They should, therefore, ensure that their applications reach the Commission's Office on or before the prescribed last date.

NOTE II : Candidates can also deliver their applications personally at the Commission's counter. The Commission will not be responsible for the applications delivered to any other functionary of the Commission.

NOTE III : Applications received through Couriers or Courier Services of any type shall be treated as having been received "By hand" at the Commission's Counter.

7. ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS

Immediately on receipt of an application from a candidate, the Acknowledgement Card submitted by him alongwith the application form will be despatched to him by the Commission's office duly stamped in token of receipt of his Application. If a candidate does not receive the Acknowledgement Card within 30 days, he should at once contact the Commission by quoting his Application Form No. (8-digit) and name & year of examination. Candidates delivering the application form in person at the Commission's Counter will be issued Acknowledgement Card at the Counter itself. The mere fact that a candidate's application has been acknowledged by the Commission does not mean that his candidature for the examination has been accepted by the Commission. Candidates will be informed at the earliest possible about their admission to the examination or rejection of their application.

8. CORRESPONDENCE WITH THE COMMISSION/ ARMY/NAVAL/AIR HEADQUARTERS

The Commission will not enter into any correspondence with the candidates about their candidature except in the following cases :

- (i) Every candidate for this examination will be informed at the earliest possible date of the result of his application. Admission certificates, indicating the Roll Nos., Centre and the Courses to which admitted will be issued to the candidates who are admitted to the examination. The admission certificate will bear the photograph of the candidate. If a candidate does not receive his admission certificate or any other communication regarding his candidature for the examination three weeks before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission. On receipt of such a communication, Admission certificate or a duplicate copy thereto will be issued to the admitted candidate. Information in this regard can also be obtained from the Facilitation Counter located in the Commission's Office either in person or over phone Nos. 011-23381125/011-23385271/011-23098543. In case no communication is received in the Commission's Office from the candidate regarding non-receipt of his admission certificate atleast 3 weeks before the examination, he himself will be solely responsible for non-receipt of his Admission Certificate. It may be noted that the Admission Certificate will be issued at the address as photocopied from the application form filled in by the candidate. The candidate should, therefore, ensure that the address given by him in the application form is correct and complete with pin code. No candidate will ordinarily be allowed to take the examination unless he holds a certificate of admission for the examination. On receipt of Admission Certificate, check it carefully and bring discrepancies/errors, if any, to the notice of UPSC immediately.

The courses to which the candidates are admitted will be according to their eligibility as per age and educational qualifications for different courses and the preferences given by the candidates.

THE CANDIDATES SHOULD NOTE THAT THEIR ADMISSION TO THE EXAMINATION WILL BE PURELY PROVISIONAL BASED ON THE INFORMATION GIVEN BY THEM IN THE APPLICATION FORM. THIS WILL BE SUBJECT TO VERIFICATION OF ALL THE ELIGIBILITY CONDITIONS BY THE UPSC.

- (ii) In the event of a candidate receiving more than one Admission Certificate from the Commission, he should use only one of these Admission Certificates for appearing in the examination and return the other(s) to the Commission's Office.
- (iii) If a candidate receives an Admission Certificate in respect of some other candidate on account of handling error, the same should be immediately returned to the Commission with a request to issue the correct Admission Certificate. Candidates may note that they will not be allowed to take the examination on the strength of an Admission Certificate issued in respect of another candidate.

- (iv) The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.
- (v) Candidates should note that the name in the Admission Certificate in some cases, may be abbreviated due to technical reasons.
- (vi) A candidate must see that communications sent to him at the address stated in his application are redirected, if necessary. Change in address should be communicated to the Commission at the earliest opportunity. Although the Commission make every effort to take account of such changes, they cannot accept any responsibility in the matter.

IMPORTANT : All communications to the Commission/Army Headquarters should invariably contain the following particulars :

1. Name and year of the examination.
2. Application Form Number (8-digit).
3. Roll Number (if received).
4. Name of candidate (in full and in block letters).
5. Complete postal Address as given in the application with telephone number, if any.

N.B. : (i) Communications not containing the above particulars may not be attended to.

N.B. : (ii) If a letter/communication is received from a candidate after an examination has been held and it does not give his full name and Roll Number, it will be ignored and no action will be taken thereon.

N.B. : (iii) Candidates recommended by the Commission for interview by the Services Selection Board who have changed their addresses subsequent to the submission of their application for the examination should immediately after announcement of the result of the written part of the examination notify the changed address also to Army Headquarters, along with unstamped self addressed envelop A.G's Branch Rtg. CDSE Entry, West Block-3, Ground Floor, Wing 1, Ramakrishnapuram, New Delhi-110066 in case of IMA/SSC first choice candidates and Naval HQ (R&R Section) Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in case of Navy first choice candidates, and PO 3 (A) Air HQS., 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110011 in case of Air Force first choice candidates. Failure to comply with this instruction will deprive the candidate of any claim to consideration in the event of his not receiving the summon letter for interview by the Services Selection Board. Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board should address enquiries or requests, if any relating to their interview direct to the Army Headquarters, A.G's Branch Rtg.

CDSE Entry, West Block 3, Ground Floor, Wing 1, Ramakrishnapuram, New Delhi-110066 in case of candidates having IMA or OTA as their first choice and PO3 (A)/Air Headquarters, 'J' Block, Room No. 17, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110011 in the case of candidates having Air Force as first choice and Naval HQ (R&R Section), Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 in the case of candidates having Navy as first choice.

Candidates are requested to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Requests for postponing interview will only be considered in very genuine circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army Headquarters/Air Headquarters/Naval HQ will be the sole deciding authority. Such requests should be sent to Selection Centre/SSB from where the call for SSB interview has been received.

N.B. : In case a candidate does not get the interview call for SSB interview for IMA by 4th week of February, 2007 and by 4th week of April, 2007 for OTA, he should write to Army Headquarters/Rtg. CDSE Entry West Block III, Ramakrishnapuram, New Delhi-110066 or contact on telephone No. 26173215 regarding non-receipt of the call-up letter.

For similar query by the Navy/Air Force candidates, having first choice as given *ibid*, should write to Naval Hqrs. or Air Hqrs. as mentioned in N.B. III (in case of non-receipt of call by 4th week of February, 2007).

(vii) ORIGINAL CERTIFICATES SUBMISSION OF—Those candidates who qualify in the SSB interview will be required to submit their original certificates alongwith two attested copies thereof in support of educational qualification at Services Selection Centre after SSB interview. Those appearing for Degree Examination will be required to submit their certificates by 15th May, 2007 (1st August, 2007 in the case of SSC only). Instructions for the same will be given at SSB. Original certificates will be returned back after verification. Certified true copies or photostat copies of the certificates will not be accepted in any case.

9. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSES OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES.

The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission in their discretion. Candidates who are declared successful in the written exam will be detailed for intelligence and personality test at the Service Selection Board based on their preference, by the respective service HQ. Results of the test conducted by Service Selection Board will hold good for all the courses [i.e. Indian Military Academy (DE) Course, Dehradun, Naval Academy Goa

Course, Air Force Academy (Pre-Flying) Course Hyderabad and SSC (NT) Course at OTA Madras] for which the candidate has qualified in the written exam, irrespective of the service HQ conducting it.

Two-stage selection procedure based on Psychological Aptitude Test and Intelligence Test has been introduced at Service Selection Boards. All the candidates will be put to stage one test on first day of reporting at Selection Centres. Only those candidates who qualify at stage one will be admitted to the second stage/remaining tests and all those who fail to pass stage one, will be returned back. Only those candidates who qualify at stage two will be required to submit photocopy each of :—(i) Matriculation pass certificate for equivalent in support of date of birth, (ii) Bachelors Degree/Provisional Degree alongwith mark sheets of all the years/semesters in support of educational qualification.

Candidates will appear before the Services Selection Board and undergo the test there at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Candidates will be required to sign a certificate to this effect on the form appended to the application.

To be acceptable, candidates should secure the minimum qualifying marks separately in : (i) written examination and (ii) SSB test as fixed by the Commission in their discretion. The candidates will be placed in the order of merit on the basis of the total marks secured by them in the written examination and in the S.S.B. tests. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success at the examination confers no right of admission to the Indian Military Academy, Naval Academy, Air Force Academy or the Officers' Training Academy as the case may be. The final selection will be made in order of merit subject to medical fitness and suitability in all other respects and number of vacancies available.

NOTE : EVERY CANDIDATE FOR THE AIR FORCE AND NAVAL AVIATION IS GIVEN PILOT APTITUDE TEST ONLY ONCE. THE GRADE SECURED BY HIM AT THE FIRST TEST WILL THEREFORE HOLD GOOD FOR EVERY SUBSEQUENT INTERVIEW AT THE AIR FORCE SELECTION BOARD. THOSE WHO HAVE FAILED INDIAN NAVY SELECTION BOARD/PILOT APTITUDE BATTERY TEST EARLIER AND THOSE WHO HABITUALLY WEAR SPECTACLES ARE NOT ELIGIBLE FOR AIR FORCE.

TEST/INTERVIEW AT AIR FORCE SELECTION BOARDS FOR THOSE CANDIDATES WHO APPLY FOR AIR FORCE THROUGH MORE THAN ONE SOURCE :—There are three modes of entry into F (P) course viz. CDSE/NCC/Airmen.

Candidates who apply for the Air Force through more than one source will be tested/interviewed at the Air Force Selection Boards only once for Air Force. Common candidates who fail in INSB/PAB tests as an NCC or Airmen candidate will be called again for OLQ testing for Army/Navy/OTS only if it is found that they have applied through CDS Exam. Candidates who qualify in the written examination for IMA (D.E.) Course and/or Navy (S.E.) Course and/or Air Force Academy course irrespective of whether they have also qualified for SSC Course or not will be detailed for SSB test in February to April, 2007 and candidates who qualify for SSC Course only will be detailed for SSB tests in April, to June, 2007.

10. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE : Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, Indian Military Academy, Air Force Academy, Naval Academy, Goa, Officers' Training Academy, Chennai but were removed therefrom on disciplinary ground will not be considered for admission to the Indian Military Academy, Naval Academy, Air Force Academy or for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the Indian Military Academy for lack of officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy. Candidates who were previously selected as Special Entry Naval Cadets but were withdrawn from the National Defence Academy or from Naval Training Establishments for lack of Officer-like qualities will not be eligible for admission to the Indian Navy.

Candidates who were withdrawn from Indian Military Academy, Officers' Training Academy, NCC and Graduate course for lack of Officer-like qualities will not be considered for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the NCC and Graduates' course for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

11. RESTRICTIONS ON MARRIAGE DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY : Candidates for the Indian Military Academy Course or Naval Academy Course or Air Force Academy Course must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application though successful at this or any subsequent examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

No candidate for the Short Service Commission course (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for admission to the Officers' Training Academy/grant of Short Service Commission.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

12. OTHER RESTRICTIONS DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY : After admission to the Indian Military Academy or the Naval Academy or the Air Force Academy, candidates will not be considered for any other commission. They will also not be permitted to appear for any interview or examination after they have been finally selected for training in the Indian Military Academy or the Naval Academy or the Air Force Academy.

13. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

A. K. KHANNA
Deputy Secretary

Union Public Service Commission

APPENDIX-I

(The scheme, standard and syllabus of the examination)

A. SCHEME OF EXAMINATION

1. The Competitive examination comprises :

- (a) Written examination as shown in para 2 below.
- (b) Interview for intelligence and personality test (vide Part 'B' of this Appendix) of such candidates as may be called for interview at one of the Services Selection Centres.

2. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :

(a) For Admission to Indian Military Academy, Naval Academy and Air Force Academy:—

Subject	Duration	Maximum Marks
1. English	2 Hours	100
2. General Knowledge	2 Hours	100
3. Elementary Mathematics	2 Hours	100

(b) For Admission to Officers' Training Academy:—

Subject	Duration	Maximum Marks
1. English	2 Hours	100
2. General Knowledge	2 Hours	100

The maximum marks allotted to the written examination and to the interviews will be equal for each course i.e. the maximum marks allotted to the written examination and to the interviews will be 300, 300, 300 and 200 each for admission to the Indian Military Academy, Naval Academy, Air Force Academy and Officers' Training Academy respectively.

3. The papers in the all the subjects will consist of objective type questions only. The question papers (Test Booklets) of General Knowledge and Elementary Mathematics will be set bilingually in Hindi as well as English.

4. In the question papers, wherever necessary, questions involving the metric system of Weights and Measures only will be set.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. The candidates are not permitted to use calculator for answering objective type papers (Test Booklets). They should not, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

B. STANDARD AND SYLLABUS OF THE EXAMINATION

STANDARD

The standard of the papers in Elementary Mathematics will be of Matriculation level. The standard of papers in other subjects will approximately be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

SYLLABUS

ENGLISH (Code No. 01)

The question paper will be designed to test the candidates' understanding of English and workmanlike use of words.

GENERAL KNOWLEDGE (Code No. 02)

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidate should be able to answer without special study.

ELEMENTARY MATHEMATICS (Code No. 03)

ARITHMETIC

Number System—Natural numbers, Integers, Rational and Real numbers. Fundamental operations, addition, subtraction, multiplication, division, Square roots, Decimal fractions.

Unitary method—time and distance, time and work, percentages, applications to simple and compound interest, profit and loss, ratio and proportion, variation.

Elementary Number Theory—Division algorithm. Prime and composite numbers. Tests of divisibility by 2, 3, 4, 5, 9 and 11. Multiples and factors. Factorisation Theorem. H.C.F. and L.C.M. Euclidean algorithm. Logarithms to base 10, laws of logarithms, use of logarithmic tables.

ALGEBRA

Basic Operations, simple factors, Remainder Theorem, H.C.F., L.C.M., Theory of polynomials, solutions of quadratic equations, relation between its roots and coefficients (Only real roots to be considered). Simultaneous linear equations in two unknowns—analytical and graphical solutions. Simultaneous linear inequations in two variables and their solutions. Practical problems leading to two simultaneous linear equations or inequations in two variables or quadratic equations in one variable & their solutions. Set language and set notation, Rational expressions and conditional identities, Laws of indices.

TRIGONOMETRY

Sine \times , cosine \times , Tangent \times when $0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ Values of $\sin x$, $\cos x$ and $\tan x$, for $x = 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ$ and 90°
Simple trigonometric identities.
Use of trigonometric tables.
Simple cases of heights and distances.

GEOMETRY

Lines and angles, Plane and plane figures, Theorems on (i) Properties of angles at a point, (ii) Parallel lines, (iii) Sides and angles of a triangle, (iv) Congruency of triangles, (v) Similar triangles, (vi) Concurrence of medians and altitudes, (vii) Properties of angles, sides and diagonals of a parallelogram, rectangle and square, (viii) Circles and its properties including tangents and normals, and (ix) Loci.

MENSURATION

Areas of squares, rectangles, parallelograms, triangle and circle. Areas of figures which can be split up into these figures (Field Book), Surface area and volume of cuboids, lateral surface and volume of right circular cones and cylinders, surface area and volume of spheres.

STATISTICS

Collection and tabulation of statistical data, Graphical representation frequency polygons, histograms, bar charts, pie charts etc. Measures of central tendency.

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST

In addition to the interview the candidates will be put to Intelligence Tests both verbal and non-verbal, designed to

assess their basic intelligence. They will also be put to Group Tests such as group discussions, group planning, outdoor group tasks, and asked to give brief lectures on specified subjects. All these tests are intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also his social traits and interests in current affairs.

APPENDIX-II

Guidelines with regard to Physical Standards for Candidates for Combined Defence Services Examination.

Note : CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARDS. THE STANDARDS OF MEDICAL FITNESS AND THE GUIDELINES FOR THE SAME ARE GIVEN BELOW.

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE, THEREFORE, ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

1. A candidate recommended by the Services Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. Only those candidates will be admitted to the Academy who are declared fit by the Medical Board. However, the candidates declared unfit will be intimated by the President of the Medical Board and procedure for request for an Appeal Medical Board (AMB) will also be intimated to the candidate.

Candidates who are unfit may apply for Appeal Medical Board (AMB) to be completed within 42 days of SMB and may request for Review Medical Board (RMB) within one day of completion of Appeal Medical Board.

Candidates declared unfit by AMB will be intimated by the President AMB about procedure of challenging the findings of AMB. The candidates will also be intimated that holding Review Medical Board (RMB) will be granted at the discretion of DGAFMS based on the merit of the case and that RMB is not a matter of right.

Candidates shall automatically report to the hospital opted by them on any working day, keeping in view, the time taken by Postal authorities to deliver their Medical document at the Hospital for medical examination. No call shall be given by the opted hospital and no correspondence in this regard shall be entertained. The candidate must be physically fit according to the prescribed physical standards which are summarised below :

- (a) The candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/disability which is likely to interfere with the efficient performance of duties.

- (b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or over weight.
- (c) The minimum acceptable height is 157.5 cms. (157 cms. for Navy and 162.5 cms. for Air Force). For Gorkhas and individuals belonging to hills of North Eastern region of India, Garhwali and Kumaon, the Minimum acceptable height will be 5 cms. less. In case of candidates from Lakshadweep, the minimum acceptable height can be reduced by 2 cms.

These concessions are not applicable for Navy and Air Force. Height and Weight standards are given below :

Height and Weight Standards

Height in Centimetres (Without shoes)	Weight in Kgs.		
	18 years	20 years	22 years
152	44*	46	47
155	46	48@	49
157	47	49	50
160	48	50	51
162	50	52	52
165	52	53	55
168	53	55	57
170	55	57	58
173	57	59	60
175	59	61	62
178	60	62	63
180	63	64	65
183	65	67	67
185	67	69	70
188	70	71	72
190	72	73	74
193	74	76	77
195	77	78	78

*45 for Navy @ 47 for Navy

A \pm 10% (for Navy) departure from the average weight given in the Table above is to be considered within normal limit. However, in individuals with heavy bones and broad built as well as individuals with thin built but otherwise healthy this may be relaxed to some extent on merit.

The acceptable weight for Air Force candidates will be \pm 10% of the average weight given above.

- (d) In your own interest you are advised to undergo a preliminary medical check up for wax in ears, refractory error of eyes, fungal infection of skin etc. before reporting for the SSB interview.
- (e) Chest should be well developed. The minimum range of expansion after full inspiration should be 5 cms. The measurement will be taken with a tape so adjusted that its lower edge should touch the nipple in front and the upper part of the tape should touch the lower

angle of the shoulder blades behind. X-Ray of the chest is compulsory and will be taken to rule out any disease of the chest.

- (f) There should be no disease of bones and joints of the body.
- (g) A candidate should have no past history of mental breakdown or fits.
- (h) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms. in a quiet room. There should be no evidence of present or past disease of the ear, nose and throat.
- (i) There should be no sign of functional or organic disease of the heart and blood vessel. Blood pressure should be normal.
- (j) The muscles of abdomen should be well developed and there should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen will be a cause for rejection.
- (k) Un-operated hernias will make a candidate unfit. If operated, this should have been done at least one year prior to the present examination and healing is completed.
- (l) There should be no hydrocele, varicocele or piles.
- (m) Urine examination will be done and any abnormality, if detected will be a cause for rejection.
- (n) Any disease of the skin which is likely to cause disability or disfigurement will also be a cause for rejection.
- (o) A candidate should be able to read 6/6 in a distant vision chart with each eye with or without glasses (For Navy and Air Force without glasses only) Myopia should not be more than 3.5D and hypermetropia not more than 3.5D including Astigmatism. Internal examination of the eye will be done by means of ophthalmoscope to rule out any disease of the eye. A candidate must have good binocular vision. The colour vision standard will be CP-III. A candidate should be able to recognise red and green colours.

RADIAL KERATOTOMY and LASER SURGERY: Candidates who have undergone or have the evidence of having undergone Radial Keratotomy to improve the visual acuity, will be permanently rejected for all three services.

In order to detect PRK/LASIK all the candidates at SMB will be subjected to the measurement of Axial length by A-Scan biometer.

Candidates who have undergone LASER Surgery for correction of refractive error will be considered for commission in Army if they fulfil following criteria:—

- (i) Age more than 20 years.
- (ii) Uncomplicated stable LASIK/Excimer (PRK) laser procedure done for Myopia or Hypermetropia, with stable refraction for a period of six months after the procedure.
- (iii) A healthy retina
- (iv) Corrected vision should be 6/6 in better eye and 6/9 in worse eye, with maximum residual refraction of ± 1.50 in any meridian for myopia or hypermetropia.
- (v) Axial length within permissible limits.

Notes : The candidate will be asked to declare at the time of medical examination that he has undergone LASER procedure as above. He will be subjected to a thorough corneal and retinal evaluation by the ophthalmologist. However he will be declared unfit at the SMB and those found to be within the acceptable limits for approval as above will be advised to undergo an Appeal Med. Board. During AMB he will be subjected to a thorough corneal and retinal evaluation as also scrutiny of the records by a Senior Adviser in Ophthalmology.

- (p) The candidates should have sufficient number of natural and sound teeth. A minimum of 14 dental points will be acceptable. When 32 teeth are present, the total dental points are 22. A candidate should not be suffering from severe pyorrhoea.
- (q) X-Ray examination of the chest will include the lower part of cervical spine for presence of cervical ribs. X-Ray examination of other parts of spine will be taken if the SMB considers it necessary.

2. In addition to the above, the following medical standards will be applicable in respect of Air Force candidates only :

- (a) Anthropometric measurements acceptable for Air Force are as follows :

Height	162.5 cms.
Leg Length	Min. 99 cms. & Max. 120 cms.
Thigh Length	Max. 64 cms.
Sitting Height	Min. 81.5 cms. & Max. 96 cms.

- (b) X-ray of Cervical and Lumbosacral spine will be carried out. The following conditions detected in the X-ray will be disqualifying :

- (i) Granulomatous disease of Spine.
- (ii) Arthritis spondylosis.
- (iii) More than Mild Kyphosis/Lordosis, Scoliosis more than 15" by Cobb's method will be cause for rejection.

- (iv) Spondylothesis Spondylosis
- (v) Herniated Nucleus Pulposus.
- (vi) Compression fracture of Vertebra.
- (vii) Scheuermanns Disease
- (viii) Cervical Ribs with demonstrable neurological or circulatory deficit.
- (ix) Presence of Schmorl's node at more than one level.
- (x) Atlanto-occipital and Atlanto-axial anomalies.
- (xi) Incomplete Sacralisation unilateral or Bilateral.
- (xii) Any other abnormality, if so considered by specialist.
- (xiii) Spina bifida at SV1 and LV5 Level alone or together.

- (c) Carrying angle of elbow should not be more than 10° (ten degree).

- (d) X-Ray of Chest is compulsory.

- (e) Vision

Distant Vision 6/6, in one eye and 6/9 Correctable to 6/6
Near Vision N-5 each eye Colour Vision CP-1 (MLT)
Manifest Hypermetropia must not exceed +2.00 DSph
'Myopia-Nil' & +0.75 DSph.

- (f) Ocular Muscle Balance

Heterophoria with the Maddox Rod Test must not exceed :

- (i) at 6 metres Exophoria 6 prism dioptres,
Esophoria 6 prism dioptres,
Hypophoria/Hyperphoria
1 Prism Dioptres.

- (ii) at 33 cm. Exophoria 16 prism dioptres
Esophoria 6 prism dioptres;
Hypophoria/Hyperphoria 1 prism
Dioptres.

Binocular Vision—Must possess good binocular vision (fusion and stereopsis with good amplitude and depth)

- (g) Hearing Standards

- (i) Speech test : Whispered hearing 610 cms. each ear.
- (ii) Audiometric Test : Audiometric loss should not exceed +20 db in frequencies between 250 Hz and 4000 Hz.

- (h) Routine ECG and EEG should be within normal limits.

3. The Medical standards for candidates of Naval Aviation Branch will be the same as for flying duties of Air Force.

4. Detection of any disability in the course of a special test carried out prescribed for one service, may render the candidate unfit for any other service(s), if so considered as disqualifying by Medical Board.

5. Physical Conditioning : Prospective candidates are advised to keep themselves in good physical condition by following the undermentioned routine :—

- (a) Running : 2 to 4 Km. in 15 minutes
- (b) Skipping :
- (c) Pushups & Sit-ups : Minimum 20 each
- (d) Chin ups : Minimum 08
- (e) Rope Climbing : 3 to 4 metres.

APPENDIX-III

(Brief Particulars of service etc.)

Pay Scale of Army Officers and equivalent ranks in Air Force and Navy

(i) Pay

(a) Rank	Pay Scale
Lt.	Rs. 8,250-300-10,050
Capt.	Rs. 9,600-300-11,400
Major	Rs. 11,600-325-14,850. Major on their stagnating for one year at the maximum scale of Major, are granted the pay scale of Lt. Col. as shown below along with rank pay of Major.
Lt. Col.	Rs. 13,500-400-17,100
Col.	Rs. 15,100-450-17,350
Brig.	Rs. 16,700-450-18,050

(b) In addition to pay, Rank pay will also be given as under :

Capt.	Rs. 400
Major	Rs. 1200
Lt. Col.	Rs. 1600
Col.	Rs. 2000
Brig.	Rs. 2400

(c) Rank	Pay Scale
Maj. Gen.	Rs. 18,400-500-22,400
Lt. Gen.	Rs. 22,400-525-24,500
Vice Chief of the Army Staff & Army Commander	Rs. 26,000 (Fixed)
Chief of the Army Staff	Rs. 30,000 (Fixed)

(d) Stipend during training at Service Academies : Fixed Stipend Rs. 8000/- per month for the entire duration of training.

(ii) Qualification Pay and Grant

Officers possessing certain prescribed qualification are entitled to lumpsum Qualification Grant of Rs. 3,000/-, 4,500/-, 7,500/- or 10,000/- based on the qualification held by them.

The Army Aviators (Pilots) serving in Army Aviation Corps are entitled to the Qualification, Pay, based on the Qualification held by them as under :—

- (i) Master Aviation Instructor—Rs. 250/- p.m.
- (ii) Senior Aviation Instructor Class I—Rs. 200/- p.m.
- (iii) Senior Aviation Instructor Class II—Rs. 140/- p.m.
- (iv) Aviators holding Master Green Card—Rs. 200/- p.m.
- (v) Aviators holding Green Card—Rs. 140/- p.m.

The Army Aviators (Pilots) serving in the Army/Aviation Corps are entitled to flying allowance as under :

- (a) Lt. and equivalent Rs. 4,500/-.
- (b) Capt. and equivalent Rs. 5,500/-.
- (c) Maj. to Col. Rs. 7,000/-.
- (d) Brig. and above Rs. 5,250/-.

Other Allowances : (a) Compensatory (City and Dearness) Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time. (b) A kit maintenance allowance of Rs. 200/- p.m. (c) Depending upon the rank and area of posting, officer posted to Field Areas will be eligible for Compensatory Field Area Allowance at the rate of Rs. 2100/- to Rs. 2600/- p.m. and Compensatory Modified Field Area Allowance at the rate of Rs. 800/- to 1000/- p.m. (d) In addition to the Compensatory Modified Field Area Allowance Officers posted to area situated at a height of 9,000 ft. to 15,000 ft. and area above 15,000 ft. High altitude/uncongenial climate allowance would be admissible at the rate of Rs. 530/- to Rs. 1060/- and Rs. 800/- to Rs. 1600/- p.m. respectively. (e) Siachen Allowance at the rate of Rs. 7000/- per month will be admissible in addition to Compensatory Field Area Allowance to officers of all ranks. This allowance is, however, not admissible in conjunction with High Altitude/Uncongenial Climate Allowance. (f) Outfit Allowance : Initial Outfit Allowance is Rs. 6000/- for Army and Air Force and Rs. 7000/- for Navy Personnel Renewal outfit allowance : Rs. 6000/- Rs. 7000/- after seven years of effective service. (g) Free rations are provided to all officers. (h) Transport Allowance : Transport allowance at the rate of Rs. 800/- to officers not provided with Government accommodation within a distance of 1 Km. from the place of work. (j) Children Education Allowance.

(A) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRADUN

1. Before the candidate joins the Indian Military Academy

- (a) he will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain. In the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

- (b) his parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that if for any reason considered within his control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered; he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay & allowances, received as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training for about 18 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as gentlemen cadets. Gentlemen cadets will be dealt with the ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Indian Military Academy, Dehradun.

3. While, the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves. The minimum expenses at the Indian Military Academy are not likely to exceed Rs. 200.00 per month. If a cadet's parent or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance may be granted by the Government. Gentlemen Cadets undergoing training at Indian Military Academy, Officers Training Academy and corresponding training establishments in Navy and Air Force, in whose cases the income of parents/guardians does not exceed Rs. 1500/- (under revision) per month are eligible for financial assistance. In case of parents/guardians whose income exceeds Rs. 1500/- (under revision) per month but does not exceed Rs. 2000/- (under revision) per month, the same financial assistance will be given in respect of all the sons/wards if there are more than one son/ward simultaneously undergoing training in one or more than one of the above institutions irrespective of the fact whether the institutions are under the same service or not. The immovable property and other assets and income from all sources are also taken into account for determining the eligibility for financial assistance. The parent/guardian of a candidate desirous of having any financial assistance, should, immediately after his son/ward has been finally selected for training at the Indian Military Academy, submit an application through the District Magistrate of his District who will with

his recommendation forward the application to the Commandant, Indian Military Academy, Dehradun.

4. Candidate finally selected for training at the Indian Military Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival :

(a) Pocket allowance for five months	Rs. 1000.00
@ Rs. 200.00 per month.	
(b) For item of clothing and equipment	Rs. 2750.00
Total	Rs. 3750.00

Out of the amount mentioned above the following is refundable to the cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them.

Pocket allowance of five months @ Rs. 200.00 per month —Rs. 1000.00.

5. The following Scholarships are tenable at the Indian Military Academy :

(1) **PARSHURAM BHAU PATWARDAN SCHOLARSHIP**—This scholarship is awarded to cadets from MAHARASHTRA AND KARNATAKA. The value of one scholarship is upto a maximum of Rs. 500.00 per annum for the duration of a cadet's stay at the Indian Military Academy subject to the cadet's making satisfactory progress. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(2) **COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL SCHOLARSHIP**—This scholarship is of the value of Rs. 360.00 per annum and is awarded to an eligible Maratha Cadet who should be a son of ex-serviceman. The Scholarship is in addition to any financial assistance from the Government.

6. An outfit allowance at the rate and under the general conditions applicable at the time for each cadet belonging to the Indian Military Academy will be placed at disposal of the commandant of the Academy. The unexpended portion of the allowance will be :—

- (a) handed over to the cadet on his being granted a commission or
- (b) if he is not granted a commission refunded to the State.

On being granted a commission article of clothing and necessities purchased from the allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles will, however be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The article withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

7. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Gentlemen Cadet resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ. Cost of training, messing and allied services, will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Indian Military Academy. A Gentlemen Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may with permission of the Government, be discharged. Any Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

8. Commission will be granted only on successful completion of training. The date of commission will be that following the date of successful completion of training. Commission will be permanent.

9. Pay and allowances, pensions, leave and other conditions of service after the grant of commission will be identified with those applicable from time to time to regular officers of the Army.

10. Training : At the Indian Military Academy Army Cadets, known as Gentlemen Cadets are given strenuous Military training for a period of 18 months aimed at turning out, officers capable of leading infantry subunits. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lt. subject to being medically fit, in S.H.A.P.E.

Insurance

11. At IMA/OTA where in receipt of stipend of Rs. 8,000/- per month the Gentleman Cadets are provided insurance cover of Rs. 15 lac. Those who are medically boarded out of IMA/OTA on account of disability, the cover provided is 50 per cent of the insured amount for 100 per cent disability, i.e. 7.5 lac for 100 per cent disability proportionately reduced to Rs. 1.5 lac for 20 per cent disability. Gentleman cadets being boarded out with less than 20 per cent disability will be given an ex-gratia of Rs. 20,000/-. Disability due to alcoholism and drug addiction will not qualify for disability benefits and any ex-gratia payments. On commissioning Gentleman Cadets would be covered under the Main Army Group Insurance Scheme as applicable to Regular Army Officers.

12. TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE

(i) POSTING

Army officers are liable to serve anywhere in India and abroad.

(ii) PROMOTION

(a) Substantive promotions

The following are the service limits for the grant of the substantive promotion to higher ranks :—

By time scale :

Lt.	On completion of training
Capt.	2 years of reckonable commissioned service
Major	6 years of reckonable commissioned service
Lt. Col.	13 years of reckonable commissioned service
Col (TS)	26 years of reckonable commissioned service

By Selection :

Col.	20 years of reckonable commissioned service
Brigadier	23 years of reckonable commissioned service
Major Gen.	25 years of reckonable commissioned service
Lt. Gen.	28 years of reckonable commissioned service
General . . .	No restrictions

(b) Acting promotion

Officers are eligible for acting promotion to higher ranks on completion of the following minimum service limits subject to availability of vacancies:

Captain	3 years
Major	6 years
Lt. Colonel	6½ years
Colonel	8½ years
Brigadier	12 years
Major General	20 years
Lt. Gen.	25 years

(B) FOR CANDIDATES JOINING THE NAVAL ACADEMY, GOA

1. Candidates, finally selected for training at the Academy will be appointed as cadets in the Executive Branch of the Navy. They will be required to deposit the following amount with the Captain, Naval Academy, Goa :—

(aa) Pocket Expenses—Personal expenses, Toiletries, stationery etc. @ Rs. 650/- per month	Rs. 3250/-
(bb) Expenses on Laundry, Civilian bearer, Cinema, hair cutting etc. @ Rs. 350 per month	Rs. 1750/-
(cc) For items of clothing & equipment	Rs. 2300/-
(dd) Cost of meals and miscellaneous expenses	Rs. 200/-
(ee) Table money charge for cadet mess @ Rs. 300/- pm for 5 months	Rs. 1500/-
Total	Rs. 9000/-

(ii) Selected candidates will be appointed as Cadets and undergo training in Naval ships and establishment as under :—

(aa) Naval Orientation Course at Naval Academy, Goa	20 weeks
(bb) Cadets Training	06 months
(cc) Midshipmen afloat training	06 months
(dd) Sub-Lieutenant (Technical course)	12 months

(iii) On completion of the above training the officers will be appointed on board Indian Naval Ships for obtaining

Naval Watch Keeping Certificates for which a minimum period of six months is essential.

(iv) The cost of training including accommodation and allied services, books, uniform, messing and medical treatment of the cadets of the Naval Academy will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets will, however, be required to meet their pocket and other private expenses while they are cadets. When a cadet's parent or guardian has an income less than Rs. 1500 per mensem and is unable to meet wholly or partly the pocket expenses of the cadet financial assistance upto Rs. 140 per mensem may be granted by the Government. A candidate desirous of securing financial assistance may immediately after his selection, submit an application through the District Magistrate of his District, who will with his recommendations, forward the application to the Director of Manpower Planning & Recruitment, Naval Headquarters, New Delhi-110011.

Note : Further information, if desired, may be obtained from the Director of Manpower, Planning & Recruitment, Naval Headquarters, New Delhi-110011.

(C) FOR CANDIDATES JOINING THE AIR FORCE ACADEMY

1. There are three modes of entry into F(P) Course viz. CDSE/NCC/Airmen. Candidates who apply for Air Force through more than one source will be tested/interviewed at Air Force Selection Boards only once for Air Force as well as other arms of services. Common candidate who fail in INS-B/PAB test as an NCC or Airman candidate will be called again for OLQ testing for Army/Navy/OTA only, if it is found that he has applied through CDS Exam. also.

2. Detailing for Training—Candidates recommended by the AFSBs and found medically fit by appropriate medical establishment are detailed for training strictly on the basis of merit and availability of vacancies. Separate merit list are prepared for Direct Entry candidates through UPSC and for NCC candidates. The merit list for Direct Entry Flying (Pilot) candidates is based on the combined marks secured by the candidates in the test conducted by the UPSC and at the Air Force Selection Boards. The merit list for NCC candidates is prepared on the basis of marks secured by them at AFSBs.

3. Training—The approximate duration of training for Flying Branch (Pilots) at the Air Force Academy will be 74 weeks.

Insurance cover during Flying Training—(Rates are under revision).

Air Force Group Insurance Society would pay Rs. 1,00,000/- for a monthly contribution of Rs. 800/- pm as ex-gratia award to the next-of-kin of a flight cadet drawn from Civil life and undergoing flying training in an unfortunate eventuality. In case, flight cadet undergoing flying training is medically invalidated boarded out, he

would be paid Rs. 20,000/- as ex-gratia award for 100% disability and this reduces proportionately upto 20%.

Cadets are authorised stipend amounting to Rs. 8000/- per month during training. "On successful completion of training the stipend admitted will be covered as pay for all purposes. However, the period of training shall not be treated as commissioned service."

Once flight cadets are granted pay and allowances by government, the death cover would be Rs. 50,000/- and the disability cover would be Rs. 25,000/- for 100% disability. This cover would be provided by AFGIS on payment of monthly non-refundable contribution of Rs. 76/- by each flight cadet undergoing flying training for which membership would be compulsory.

Conditions governing Financial Assistance : (i) While the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves. The minimum expenses at the Air Force Academy are not likely to exceed Rs. 14,000 (under revision) per mensem. If a cadet's parent or guardian is unable to meet wholly/partly even this expenditure, financial assistance may be granted by the Government. No cadet whose parent or guardian has an income of Rs. 750/- or above per month would be eligible for the grant of the financial assistance. The immovable property and other assets and income from all sources are also taken into account for determining the eligibility for financial assistance. The parent/guardian of a candidate desirous of having any financial assistance, should immediately after his son/ward has been finally selected for training at the Air Force Academy, submit an application through the District Magistrate of his district who will, with his recommendations, forward the application to the Commandant, Pre Flying Training Courses, Begumpet.

(ii) Candidates finally selected for training at the Air Force Academy will be required to deposit the following amount (under revision) with the Commandant on arrival:—

(a) Pocket allowance for six months @ Rs. 140.00 per month	Rs. 840/-
(b) For item of clothing and equipment	Rs. 1500/-
Total	Rs. 2340/-

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the cadets in the event of financial assistance being sanctioned.

Pocket allowance for the six months @ Rs. 140/- per month—
Rs. 840/-.

4. Career Prospects

After successful completion of training, the candidates pass out in the rank of flying officer and become entitled to the pay and allowance of the rank.

There are two types of promotions in the IAF i.e. grant of higher Acting rank and Substantive rank. Each high rank carries with it extra emolument. Depending on the number of vacancies one has a good number of chances to get promotion to the higher Acting rank. Time scale promotion to the rank of Squadron Leader and Wing Commander is granted after successful completion of ten years of Flying (Pilot) branch and 20 years service respectively. Grant of higher rank from Wing Commander and above is by selection, carried out by duly constituted promotion boards.

Promising Officers have good chances of higher promotion.

5. Leave and Leave Travel Concession

Annual Leave—60 days a year.

Casual Leave—20 days a year not more than 10 days at a time.

Officers are authorised encashment of Annual Leave upto 10 days alongwith LTC to the extent of a total 60 days in a career span to cover incidental expenses on travel. Officers when proceeding on annual/casual leave, irrespective of its duration, is entitled for free conveyance from place of duty (unit) to home town and back once in the second year of his service for the first time and thereafter once in a block of two years, commencing from 01 January, 1971 including family members and dependents. The year in which this concession is not availed of, free conveyance for a distance of 1450 kms. each way is admissible for self, wife and children from duty station to leave station/home town.

In addition officers of Flying branch employed on regular Flying Duties in vacancies in authorised establishment are allowed, while proceeding on leave once every year on warrant a free rail journey in the appropriate class upto a total distance of 1600 kms. for the forward and return journeys both inclusive.

Officers when travelling on leave at their own expenses are entitled to travel by entitled class or lower class on payment of 60 per cent of the fare for self, wife and children from unit to any place within India on 6 one way journey Form 'D' in a calendar year. Two of these Form 'D' may be availed of for the entire family. In addition to wife and children family includes parents, sisters and minor brothers residing with and wholly dependent upon the officers.

6. Pensionary Benefits

Retiring Pension : The minimum period of qualifying service required for retiring pension is 20 years (without weightage). Retiring pension shall be calculated at 50% of the average of emoluments reckonable for pension (i.e. pay, rank pay and non-practicing allowance, if any) drawn by the officer during the last 10 months of his service. The amount so determined shall be the retiring pension for 33 years of reckonable qualifying service (i.e. actual service rendered + service weightage in years admissible). For lesser year of reckonable qualifying service, this amount shall be proportionately reduced and the retiring pension in no case shall be less than Rs. 1275/- per month.

7. Retiring Gratuity

Retiring Gratuity : The minimum period of qualifying service for earning retiring gratuity is 10 years (without weightage). The retiring gratuity shall be admissible at a uniform rate of half a month's emoluments for each completed six monthly period of qualifying service. The emoluments for this purpose shall be pay, rank pay and non-practicing allowance, if any, stagnation/increment and DA (Admissible on the date of retirement/invalidment/death) last drawn by the officer.

In addition to pension or gratuity a death-cum-retirement gratuity, equal to 1/4th of emoluments of each completed six monthly period of qualifying service plus a weightage of 5 years subject to maximum of 16½ times of the emoluments not exceeding Rs. 3.5 lakh is admissible. In case of death while in service the amount of death-cum-retirement gratuity will be as follows :

- two months pay, if death occurs in the first year of service.
- six months pay, if death occurs after the first year but before completion of five years.
- minimum of 12 months pay, if death occurs after five years but before completion of 20 years.
- minimum 12 months pay and maximum 33 months pay, subject to the condition that the amount of Death-cum-retirement gratuity shall in no case exceed Rs. 3.5 lakhs if death occurs after 20 years or more.

Disability pension and Special Family Pensionary award, including awards to children and dependents (parents, brothers and sisters), are also payable in accordance with the prescribed rules.

8. Other Privileges

The officers and their families are entitled to free medical aid, accommodation on concessional rent, group insurance scheme, group housing scheme, family assistance scheme, canteen facilities etc.

(D) FOR CANDIDATES JOINING THE OFFICERS TRAINING ACADEMY, CHENNAI

1. Before the candidate join the Officers Training Academy, Chennai :

- he will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

- (b) his parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that if for any reason considered within his control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered or marries while under training at the Officers' Training Academy, he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay & allowances, received as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training at the Officers' Training Academy, for an approximate period of 11 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as Gentlemen Cadets. Gentlemen Cadets will be dealt with the ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Officers' Training Academy.

3. While, the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves.

The minimum expenses during the pre-commission training are not likely to exceed Rs. 200/- per month but if the cadets pursue, any hobbies such as photography, shikar, hiking etc. they may require additional money. In case however, the cadet is unable to meet wholly or partly even the minimum expenditure, financial assistance at rates which are subject to change from time to time, may be given provided the cadet and his parent/guardian, have an income below Rs. 1500 per month. A candidate desirous of having financial assistance should immediately after being finally selected for training submit an application on the prescribed form through the District Magistrate of his district who will forward the application to the Commandant, Officers' Training Academy, Chennai alongwith his verification report.

4. Candidates finally selected for training, at the Officers' Training Academy, will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival :

(a) Pocket allowance for three months @ Rs. 1000 per month	Rs. 3000/-
(b) For items of clothing and equipment	Rs. 5000/-
(c) Group Insurance Coverage for 02 months (AGIF)	Rs. 2000/-
Total	Rs. 10000/-

Out of the amount mentioned above the amount mentioned in (b) above is refundable to the Cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them.

5. Outfit allowance will be admissible under order as may be issued from time to time. On being granted a commission, articles of clothing and necessaries purchased from this

allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles, will however be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The article withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

6. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Gentlemen Cadets resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ. Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Officers' Training Academy.

7. On joining OTA, candidates will not be permitted to appear for any examination/interview, for any other type of commission/entry in the Army, Navy and Air Force or any other employment without resigning from the Academy and paying the cost of training. However, no cost of training including messing charges will be recovered from these Gentlemen Cadets, who may resign from the Officers' Training Academy, Chennai to undergo pre-commission training at the Indian Military Academy, Dehradun or corresponding cadet training establishment in Navy and Air Force, if so selected.

8. A Gentleman Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may, with permission of Government, be discharged. An Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

9. Training

Selected candidates will be enrolled under the Army Act as Gentlemen Cadets and will undergo a course of training at the Officers' Academy for an approximate period of 49 Weeks. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Short Service Commission in the rank of Lt. from the date of successful completion of training.

10. Terms and conditions of Service

(a) Period of probation

An officer will be on probation for a period of 6 months from the date he receives his commission. If he is reported on within the probationary period as unsuitable to retain his commission, he may be terminated any time whether before or after the expiry of the probationary period.

(b) Posting

Personnel granted Short Service Commission are liable to serve anywhere in India and abroad.

(c) Tenure of Appointment and Promotion

Short Service Commission in the regular Army will be granted for a period of five years. Such officers who are willing to continue to serve in the Army after the period of five years Short Service Commission may, if eligible and

suitable in all respects, be considered for the grant of permanent Commission in the last year of their Short Service Commission in accordance with the relevant rules. Those who fail to qualify for the grant of permanent Commission during the tenure of five years, would be released on completion of the tenure of five years.

"Those SSC officers who are not selected for grant of PC but are otherwise considered fit and suitable, will be given options to continue as SSCOs for a total period of 14 years (including the initial tenure of 5 years) on expiry of which they will be released from the Army".

(d) Leave :

For leave, these officers will be governed by rules applicable to Short Service Commission Officers as given in Chapter IV of the Leave Rules for the Service Vol. I-Army. They will also be entitled to leave on passing out of the Officers' Training Academy and before assumption of duties under the provision of the Rule 69 *ibid*.

(e) Termination of Commission :

An officer granted Short Service Commission will be liable for five years but his Commission may be terminated at any time by the Government of India.

(i) for misconduct or if services are found to be unsatisfactory; or

(ii) on account of medical unfitness; or

(iii) if his services are no longer required; or

(iv) if he fails to qualify in any prescribed test or course.

An officer may on giving 3 months notice be permitted to resign his commission on compassionate grounds of which the Government of India will be the sole judge. An officer who is permitted to resign his commission on compassionate grounds will not be eligible for terminal gratuity.

(f) Terminal Gratuity :

SSCO recruited from civil side are entitled to terminal gratuity @ 1/2 month's emoluments for each completed six monthly period of service.

(g) Reserve Liability :

On being released on the expiry of five years Short Service Commission or extension thereof they will carry a reserve liability for a period of five years or upto the age of 40 years whichever is earlier.

(h) Miscellaneous :

All other terms and conditions of service where not at variance with the above provisions will be the same as for regular officers.

A. K. Khanna
Dy. Secy.
Union Public Service Commission

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL REVENUES

New Delhi-110 002, the 5th April 2006

No. Admn. I/O.O.No.-373.—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints Shri Vinay Srivastava, Assistant Audit Officer of this office to officiate as Audit Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- with effect from 21.3.2006 (F/N) until further orders.

K. PRASAD
Director (Admn.)

The 7th April 2006

No. I/O. O. No. -292.—Consequent upon acceptance of the notice for voluntary retirement by the Director General of Audit under Rule 48-A of C. C. S. (Pension) Rules, Shri Vijender Singh Chauhan, Private Secretary of this office will be retiring from Government Service on 31.3.2006 (F/N).

His date of birth is 12.9.1958 and he joined Government service on 29.3.1979.

K. PRASAD
Director (Admn.)

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL OF INDIA

New Delhi-110 002, the 5th April 2006

No. 1944-GE-I/13-2006.—The following IA & AS officers have retired on Superannuation/voluntarily from Government service, with effect from the date shown against their names :—

S/Shri		
1.	Ram Lubhaya	Retired on superannuation w.e.f. 31.03.2006 (AN)
2.	A. S. Sharma	Retired on superannuation w.e.f. 31.03.2006 (AN)
3.	K. R. Santhanam	Retired Voluntarily w.e.f. 01.03.2006 (FN)

DEEPAK NARAIN
Asstt. Compt. & Auditor General (P)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E),
WEST BENGAL

Kolkata-700 001, the 3rd April 2006

No. WH-I/Estt/02.—Under the orders of the A. G. (A & E), W. B. the following Divisional Accounts Officer Grade-I is hereby promoted as Senior Divisional Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges

as Sr. Divisional Accounts Officer in the present division till further order(s). They will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service

Sl. Name
No.

1. Ramsankar Patra

The above named officer may submit their options under FR 22 (I) (a) (i) within one month from the date of taking over charge as Sr. D.A. O. for fixation of pay on promotion.

S. A. PANDA
Dy. Accountant General (A/cs)

No. WH-I/Estt./03.—Under the orders of the pr. A. G. (A & E), W. B. the following Divisional Accounts Officer Grade-II is hereby promoted as Divisional Accounts Officer Grade-I in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Sr. Divisional Accounts Officer in the present divisions/division noted against each till further order(s). He will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service

Sl. Name
No.

1. Nirmal Kumar Pahari

The above named officer may submit their options under FR 22 (I) (a) (i) within one month from the date of taking over charge as Sr. D.A. O. Grade- I for fixation of pay on promotion.

S. A. PANDA
Dy. Accountant General (A/cs)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT (LABOUR BUREAU)

Shimla-171 004, the 31st March 2006

No. 5/1/2006-N. C. P. I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001-100 remained stationary at 119 (one hundred & nineteen) for the month of February, 2006.

R. K. GUPTA
Dy. Director

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 24th March 2005

No. A-12025/1/2004-HRD-I/922.—The President is pleased to appoint Shri Jay Karan Singh, Grade-II Officer of the

Indian Trade Service (i.e. Deputy Director General of Foreign Trade) on promotion to Grade-I of the service (i.e. Joint Director General of Foreign Trade) on regular basis, in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. 7.11.2005.

K. CHANDRAMATHI
Jt. Director General of Foreign Trade

MINISTRY OF MINES GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700 016, the 7th April 2005

No. 646A/A-32013/3-Chem. (Sr.)/90/19B.—The President is pleased to appoint Dr. D. G. Marathe, Chemist (Jr.), G. S. I., as Chemist (Sr.) on promotion in the same department on pay according to Rules in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis with effect from 07.12.2005 (AN) until further orders.

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General

No. 647A/A-32013/3-Chem. (Jr.)/2003/19B.—The President is pleased to appoint Dr. M. C. Chaturvedi, Assistant Chemist Gr. I, G. S. I., as Chemist (Jr.) on promotion in the same department on pay according to Rules in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- on regular basis with effect from 17.01.2006 (AN) until further orders.

S. K. SINHA
Sr. Administrative Officer
for Director General

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 4th April 2006

No. 10/1/2000/M.—In exercise of the power conferred under Rule 6 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, I, D. R. Gehlot, Director (Monuments) hereby direct that no entry fee shall be charged at the Centrally Protected Monuments specified in the second Schedule of the Ancient Monuments Archaeological Sites and Remains Rules, 1959 on 18th April, 2006 on the occasion of World Heritage Day celebration.

D. R. GEHLOT
Director (Monuments)
for Director General

New Delhi-11, the 10th April 2006

No. 2-6/2003-Admn. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri K. S. Rana, Superintending Archaeological Chemist, to the post of Director (Science) in the Archaeological Survey of India, in the pay scale

of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the date of his assumption of the charge.

J. R. AGGARWAL
Director (Admn.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 31st March 2006

No. PD/4(4)/2005-R-III/2006/2599.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. K. V. P. Kiranmayi, Private Secretary (Non-Secretariat) to the post of Senior Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 01.08.2005, in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/-, in this Research Centre until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

The 4th April 2006

No. PD/4(1)/2006-R-III/2006/2684.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri N Annamalai, Assistant Accountant, IGCAR, Kalpakkam to officiate as Assistant Accounts Officer in BARC Facilities, Kalpakkam in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the forenoon of 02 February, 2006 on regular basis until further orders.

D. DASARATHAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 27th March 2006

No. 20/3(4)/2005-CCS/3.—The President is pleased to appoint Shri G. Muralidharan, Administrative Officer-II (Scale of pay Rs. 7,500—12,000/-), Nuclear Fuel Complex, Hyderabad of this Department as Administrative Officer-III (Scale of pay Rs. 10,000—15,200/-) in the Directorate of Construction, Services and Estates Management, Mumbai with effect from the forenoon of 08.02.2006 until further orders.

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

The 30th March 2006

No. 22/3(1)/2006-CCS/4.—The President is pleased to appoint Shri V. Nandagopan, Assistant Purchase Officer (Scale of pay Rs. 6,500—10,500/-), CRPU, DPS, Kolkata of this Department as Purchase Officer (Scale of pay Rs. 10,000—15,200/-) in HRPSU, DPS, Hyderabad with effect from the forenoon of 01.03.2006 until further orders.

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

Mumbai-400 001, the 31st March 2006

No. 6 (2338)/2002/Admn./2602.—The President is pleased to extend the tenure of Ms. Sobha Devi N. (CSS), Under Secretary (scale of pay Rs. 10,000-325-15,200/-) Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai for a further period of three years from 30.05.2006 to 29.05.2009 or until further orders, whichever is earlier.

P. P. MADHAVAN KUTTY
Under Secy.

Kalpakkam-603 102, the 31st March 2006

No. GSO/28(8)/2006-R/189.—Director, General Services Organisation, Kalpakkam is pleased to appoint the following officials in the grade of Scientific Assistant/C in General Services Organisation, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/B in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- in the same Organisation with effect from 01.08.2005 (FN) until further orders :—

Sl. No.	Name
---------	------

- | | |
|----|-------------------|
| 1. | Shri S. Rajagopal |
| 2. | Shri P. Kumaresan |

T. Y. PRAHALAD RAO
Chief Administrative Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400 094, the 30th March 2006

No. DPS/S-59/Estt./1374.—Consequent on her attaining the age of superannuation, Smt. C. S. Nair, Assistant Purchase Officer, of this Directorate has retired from Government Service w.e.f. the afternoon of January 31, 2006.

K. T. LONDHE
Administrative Officer-III

No. DPS/R-30/Estt./1375.—Consequent on his attaining the age of superannuation, Shri P. V. Raphael, Purchase Officer, of this Directorate has retired from Government Service w.e.f. the afternoon of January 31, 2006.

K. T. LONDHE
Administrative Officer-III

(BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY)

Navi Mumbai-400 705, the 4th February 2006

No. BR/951/054/523.—Shri K. A. Sundaram relinquished charge of the post of : Scientific Officer/Engineer Grade 'D' on 31.01.2006 (AN) consequent on superannuation.

DR. A. K. KOHLI
Chief Executive

(NUCLEAR FUEL COMPLEX)

Hyderabad-500 062, the 3rd April 2006

No. NFC/PAR-I/03/58/344.—Chief Executive, Nuclear Fuel Complex, appoints Shri K. V. Raju, Steno Gr. I to officiate as Private Secretary (Non-Secretariat) in temporary capacity in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 23.03.2006 (FN) until further orders.

A. S. LAXMAN RAO
Administrative Officer-III

Hyderabad-500 062, the 5th April 2006

No. N. F. C./Adm/Pen/1255/337.—On attaining the age of superannuation, Shri R. Kalidas, Outstanding Scientist (Scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has

relinquished the charge of the post with effect from 28.02.2006 (AN).

A. RAMA DEVI
Administrative Officer

(INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH)

Kalpakkam-603 102, the 31st March 2006

No. IGC/PF/6527/2006-R/2021.—President is pleased to appoint Dr. M. Pattabiraman in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' on an initial pay of Rs. 10,975/- in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 30.12.2005 in a temporary capacity until further orders.

V. DAYALAN
Chief Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 27th March 2006

No. AMD-4/4/2005-Rectt./2027.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers of Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, Hyderabad to the grades mentioned against each (carrying the scale of pay as mentioned thereunder) in the same Directorate in an officiating capacity on the dates shown against them, until further orders :

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Promotion to Grade/ Scale of pay	Substantive post held	Date of Assumption of Charge
1	2	3	4	5	6
1.	S/Shri S. Tippetswamy	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-A (Sci.)	01.08.2005
2.	D. V. P. Rangaraju	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-C (Tech.)	01.08.2005
3.	L. B. Khobragade	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-B (Tech.)	01.08.2005
4.	Dr. A. Ramaraju	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-A (Sci.)	01.08.2005
5.	V. Ramesh Babu	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-A (Sci.)	01.08.2005
6.	A. R. Mukundan	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-A (Sci.)	01.08.2005
7.	Sanjay Bagora	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-C (Tech.)	01.08.2005
8.	P. Jagadeesan	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-C (Tech.)	01.08.2005
9.	C. R. Khorge	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-C (Tech.)	01.08.2005
10.	K. C. Varaprasad Rao	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-B (Tech.)	01.08.2005
11.	D. V. L. N. Sastry	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-C (Tech.)	01.08.2005

1	2	3	4	5	6
12.	S/Shri Dr. U. K. Pandey	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-B (Tech.)	01.08.2005
13.	A. Nagaraju	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-C (Tech.)	01.08.2005
14.	Dr. Joydip Sen	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-A (Sci.)	01.08.2005
15.	Subash Ram	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-A (Sci.)	03.08.2005
16.	Niroj Kumar Panda	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-A (Sci.)	01.08.2005
17.	C. S. Gupta	SO-D	SO-E Rs. 12,000-375-16,500/-	Group-A (Sci.)	08.08.2005
18.	Dheeraj Singh	SO-C	SO-D Rs. 10,000-325-15,200/-	Group-A (Sci.)	01.08.2005
19.	Shailesh Tripathi	SO-C	SO-D Rs. 10,000-325-15,200/-	—	01.08.2005

R. M. SINHA
Director

DEPARTMENT OF SPACE
VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE

Thiruvananthapuram-695 022, the 17th March 2006

No. VSSC/Est/F/1(17).—Controller, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) hereby appoints on promotion Smt. G. Saraswathy as Personal Assistant-D in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- in VSSC with effect from 26.10.2004 (FN), until further orders.

A. K. SOMASEKHARAN
Sr. Admn. Officer

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Growth Capital Management Services Limited

Kanpur-208 001, the 4th April 2006

No. 560(5)/LC/SES/9095/22.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. Growth Capital Management Services Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Haridwar Holiday Farms Limited

Kanpur-208 001, the 4th April 2006

No. 560(5)/LC/SES/22677/23.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. Haridwar Holiday Farms Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mattei Pharmaceuticals Company Private Limited

Kanpur-208 001, the 4th April 2006

No. 560(5)/LC/SES/13320/24.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. Mattei Pharmaceuticals Company Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Brahmavart Rice and Agro Implements Private
Limited

Kanpur-208 001, the 4th April 2006

No. 560(5)/LC/SES/10909/25.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the M/s. Brahmavart Rice and Agro Implements Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. U.
P. Leathers Manufacturers and Exporters Limited

Kanpur-208 001, the 4th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/7106/28.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. U. P. Leathers Manufacturers and Exporters Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Kanpur-208 001, the 4th April 2006

No. 560(5)/SES-2003/31.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Company Name
1	2	3
1.	20-12289	M/s. Savory Foods India Private Limited
2.	20-14712	M/s. Shree Madan Rice & Flour Mills Private Limited
3.	20-6758	M/s. Kumar Briks and Builders Private Limited
4.	20-10730	M/s. Amitul Agrochem Private Limited
5.	20-20567	M/s. RSSL Share Brokers Private Limited

1	2	3
6.	20-3111	M/s. Joy Chit Fund Finance Private Limited
7.	20-7419	M/s. Ghaziabad Metal Casting Private Limited
8.	20-25382	M/s. Babu Trading Company Private Limited
9.	20-9606	M/s. National Foils Limited
10.	20-19837	M/s. Aarohi Mutual Benefits Limited
11.	20-14061	M/s. Sareen Nursing Home Private Limited
12.	20-25334	M/s. Asia Anz Access Private Limited
13.	20-10924	M/s. Suprime Instalment Company Private Limited
14.	20-14759	M/s. Dileep Agro Oils Limited
15.	20-22183	M/s. Haldos Pharmaceuticals Limited
16.	20-20518	M/s. Maruti Nandan Infin Limited
17.	20-3929	M/s. Jewel Pumps Private Limited
18.	20-18374	M/s. K. A. Automotive Components Private Limited
19.	20-11255	M/s. Bedi Hire Purchase Private Limited
20.	20-14794	M/s. Anandeshwar Financial Services Private Limited
21.	20-18817	M/s. Vee Arr Ispat Private Limited

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Variform Plastics Private Limited

Kanpur-208 001, the 4th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/6459/32.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Variform Plastics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tirubala Trading Company Private Limited

Kanpur-208 001, the 4th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/17707/36.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Tirubala Trading Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Purnan Engineering Private Limited

Kanpur-208 001, the 4th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/29023/40.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Purnan Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Astha Gases Private Limited

Kanpur-208 001, the 4th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/22618/44.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Astha Gases Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Godwin Builders Private Limited

Kanpur-208 001, the 4th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/10783/48.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Godwin Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Godwin Motor Finance Private Limited

Kanpur-208 001, the 4th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/9713/52.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Godwin Motor Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Godwin Medicare Private Limited

Kanpur-208 001, the 4th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/13029/56.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Godwin Medicare Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Vidya Gasolines Private Limited

Kanpur-208 001, the 4th April 2006

No. 560(3)/SES-5605/17623/60.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shree Vidya Gasolines Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Arya Bus Transport Company Private Limited

Jalandhar, the 27th March 2006

No. PC/560(3)/3553/10505.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Arya Bus Transport Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company shall be dissolved.

MANMOHAN JUNEJA
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and application
under Simplified Exist Scheme-2005 under Section 560
and of the following Companies :

Jalandhar, the 2006

Notice is hereby given pursuant to Sub-section 3 of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	3274	M/s. Patiala Bus Highways Private Limited
2.	25738	M/s. Ludhiana Apparel Park Limited
3.	8034	M/s. Kangaroo Liquid Plastics Private Limited
4.	22746	M/s. Vastu Exports Private Limited
5.	19945	M/s. Oshid Formulations Private Limited
6.	12698	M/s. Auro Fabriks Limited
7.	18876	M/s. E. Doctor Dhoond. Com Limited
8.	6307	M/s. S. K. Worsted Spinners Private Limited
9.	16612	M/s. Hardev Laminates Private Limited
10.	14455	M/s. Hindustan Aviation Limited
11.	12979	M/s. Sarswati Vanaspati Products Limited
12.	17225	M/s. Northwest Placement Services Private Limited

1	2	3
13.	21036	M/s. Care India Management Services Private Limited
14.	14712	M/s. Helpline Privileges and Services Ltd.
15.	19120	M/s. Gulzar Auto Private Limited
16.	12677	M/s. A. K. Gupta Contractors Private Limited
17.	25672	M/s. A. V. Equipments Private Limited
18.	22803	M/s. Narula Cement Company Private Limited
19.	14997	M/s. Simar Cycles Private Limited
20.	22000	M/s. Malwa Milk Speciality Private Limited
21.	24864	M/s. Proline Exports Private Limited
22.	17631	M/s. A. K. Finlease Private Limited
23.	22622	M/s. Yamuna Impex Private Limited
24.	24519	M/s. Bency Technologies Private Limited
25.	19689	M/s. Ek Jot Impex Private Limited
26.	23911	M/s. Moviebox (India) Private Limited
27.	24469	M/s. Aashray Netcom Private Limited
28.	17210	M/s. S. P. Developers & Decorators Private Limited
29.	3866	M/s. Modclor Printers Private Limited
30.	12892	M/s. Simba Import-Export Private Limited
31.	7000	M/s. Neulite Engineers Private Limited
32.	15701	M/s. Jaswant Machines Private Limited
33.	23627	M/s. Pardota Overseas Private Limited
34.	11101	M/s. Punjab Hartmann Skins Private Limited
35.	17889	M/s. Dee Kay Fincap Ltd.
36.	16989	M/s. Ek Onkar Finance Private Limited
37.	4255	M/s. S. A. Chemical & Allied Industries Private Limited
38.	9547	M/s. Shard Crystals Limited
39.	14291	M/s. Amit Ceramics Private Limited
40.	24304	M/s. Winsoft Infotech Technologies Private Limited
41.	27466	M/s. Zeal Sales Private Limited

1	2	3	1	2	3
42.	13438	M/s. Jullundur Freight Carriers Private Limited	70.	23945	M/s. Punjab Infotech Private Limited
43.	23229	M/s. Esteem Well India Private Limited	71.	22697	M/s. PCP /Energy Private Limited
44.	13553	M/s. Northern India Developers Private Limited	72.	21027	M/s. Ankvika Exim Private Limited
45.	26094	M/s. Loyals Network Private Limited	73.	15372	M/s. Sanyo Agro Food Processors Private Limited
46.	24160	M/s. Alpha Infonet Private Limited	74.	20953	M/s. Hare Krishna Farms Private Limited
47.	4323	M/s. Baweja Papers (India) Private Limited	75.	20668	M/s. Sumeet Minerals and Chemicals Private Limited
48.	23099	M/s. Amirchand and sons Enterprises Private Limited	76.	15820	M/s. Sharn Fincaps Limited
49.	3891	M/s. Mehta Alchem Private Limited	77.	14616	M/s. MRM Importer And Exporter Private Limited
50.	21339	M/s. Art Folio Fashions Private Limited	78.	13230	M/s. RS leatherwares Private Limited
51.	21392	M/s. Sukhmani Forests Limited	79.	5874	M/s. Hindmurti Furnacite Private Limited
52.	22179	M/s. Amku Engineers (India) Private Limited	80.	24604	M/s. Cherry Biotech Ltd.
53.	26407	M/s. Sarahan Tourism Private Limited	81.	22102	M/s. Sunam Computer Tech. Private Limited
54.	1840	M/s. Landra Toka Private Limited	82.	25515	M/s. Leader Marketing Private Limited
55.	17899	M/s. Padda And Baath Real Estate Private Limited	83.	23790	M/s. Forward Stock and Shares Private Limited
56.	20120	M/s. J. B. Knitting Private Limited	84.	16707	M/s. Workwell Herbals Private Limited
57.	25665	M/s. Four Winds Network Marketing Private Limited	85.	7404	M/s. Delux Elevators Private Limited
58.	26285	M/s. Maxbin Overseas Private Limited	86.	16750	M/s. Ujwal Impex Private Limited
59.	11517	M/s. Angrish Pipes Private Limited	87.	14379	M/s. GDR Watches Private Limited
60.	6772	M/s. Himachal Travels Private Limited	88.	21953	M/s. J. T. Airways and Travel Services Private Limited
61.	19098	M/s. Leisure Time Amusements Private Limited	89.	13017	M/s. Bajaj Tools Private Limited
62.	23570	M/s. Vintech Network Systems Private Limited	90.	4904	M/s. La Tech. Fuels Private Limited
63.	25655	M/s. H. R. Agro Foods Private Limited	91.	6120	M/s. Ashapal Auto Mobiles Private Limited
64.	9614	M/s. Jalandhar Steel Casting Private Limited	92.	12013	M/s. Archie Sports Private Limited
65.	14758	M/s. A. R. Financial Consultants Private Limited	93.	27344	M/s. Shimla Polymers Private Limited
66.	21603	M/s. Beauty Centre Forex Private Limited	94.	26301	M/s. Sterling Wood Powder Co. Private Limited
67.	10577	M/s. Harjinder Singh Farms Private Limited	95.	8579	M/s. Gupta Gears Private Limited
68.	22395	M/s. Grover Sales Private Limited	96.	4679	M/s. General Hardwares Private Limited
69.	5816	M/s. SKB Builders & Fabricators Private Limited	97.	11727	M/s. Citizen Cement Works Private Limited
			98.	10357	M/s. Nanaksar Tyres Private Limited
			99.	13681	M/s. Penguin Organics Private Limited
			100.	12721	M/s. Baljindera Roller Flour Mills Private Limited

1	2	3
101.	23547	M/s. Broad Vision Infosys Private Limited
102.	16079	M/s. Oasis Floriculture Limited
103.	14738	M/s. Ambaji Fats And Oils Limited
104.	19337	M/s. Vermani Paper Board Mills Private Limited
105.	13383	M/s. City Steels Private Limited
106.	23696	M/s. Seven Seas Leathers Private Limited
107.	21142	M/s. Northend Resorts Private Limited
108.	23619	M/s. Excellent Healthcare Private Limited
109.	18843	M/s. R. S. Knitfab Private Limited
110.	19582	M/s. Kabir Hotellers Private Limited
111.	8238	M/s. Maurya Woollen Mills Private Limited
112.	12711	M/s. Star Tools Private Limited
113.	23640	M/s. Eagle Securities Private Limited
114.	2641	M/s. Himachal Shoddy Mills Limited
115.	13006	M/s. Grand Marketing Private Limited
116.	22639	M/s. Mukerian Computer Centre Private Limited
117.	20470	M/s. Clair Infotech Private Limited
118.	10357	M/s. Toor Hospitals Private Limited
119.	3790	M/s. Jaguar Sports Private Limited
120.	17383	M/s. Golden Herbal Extracts Private Limited
121.	26425	M/s. Acacia Marketing Private Limited
122.	22895	M/s. Tripta Computers Private Limited
123.	10985	M/s. Mears Communications Private Limited
124.	6151	M/s. Great Indian Scanners Private Limited
125.	4598	M/s. Nagina Soap Factory Private Limited
126.	14803	M/s. EPS Interanational Private Limited
127.	12661	M/s. Blue Dot Pharmaceuticals Private Limited
128.	19401	M/s. Irvaty Marketing Services Private Limited
129.	7273	M/s. Mahesh Cargo Carriers Private Limited

1	2	3
130.	15341	M/s. Ravneet Consultancy Services Private Limited
131.	8508	M/s. Aay Cee Seals Private Limited
132.	4431	M/s. Conssort Constructions Private Limited
133.	5259	M/s. D. M. Woollen Mills Private Limited
134.	9539	M/s. Unique Hire Purchase Private Limited
135.	23947	M/s. Pukhraj Resorts Private Limited
136.	19016	M/s. Baba Tyres Private Limited
137.	21559	M/s. Banian Di Hatti Exports Private Limited
138.	3791	M/s. Sarvijit Chemicals Private Limited
139.	15961	M/s. Sant Enterprises Private Limited
140.	11429	M/s. Rene Exports Private Limited
141.	21817	M/s. Punjab Polyflex (India) Limited
142.	19527	M/s. Panjkoha Enterprises Private Limited
143.	18226	M/s. Ludhiana Exports Private Limited
144.	13581	M/s. Jersey Knits Private Limited
145.	21697	M/s. L. S. G. Hotels Private Limited
146.	26570	M/s. Faridkot Tourist Complex Limited
147.	27736	M/s. Star Study Links & Travels Private Limited
148.	5184	M/s. Sutlej Shoddy Spinners Limited
149.	8115	M/s. Jatin Fastners Private Limited
150.	24869	M/s. Purennet Technology Private Limited
151.	26573	M/s. Kapurthala Tourist Complex Limited
152.	26572	M/s. Sukchain Tourist Complex Limited
153.	21196	M/s. Chandigarh Marketing Private Limited
154.	17257	M/s. Ess Bee Cee Leasing and Finance Private Limited
155.	23420	M/s. Premier Internet Services Private Limited
156.	24439	M/s. Worldwide Security Services Private Limited
157.	17778	M/s. V. S. Chhabra Electrotech Private Limited

1	2	3
158.	24461	M/s. Good Life Properties Private Limited
159.	20272	M/s. H. S. B. Properties Private Limited
160.	24098	M/s. Greenlife Promoters Private Limited
161.	23102	M/s. Shivraman Engineering Agencies Private Limited
162.	26571	M/s. Pinkcarria Tourist Complex Limited
163.	26574	M/s. Surajmukti Tourist Complex Limited
164.	26575	M/s. Aam Khas Bagh Tourist Complex Limited
165.	26569	M/s. Pathankot Tourist Complex Limited
166.	26576	M/s. Sanghol Tourist Complex Limited
167.	21684	M/s. Yuvneer Chemicals Private Limited
168.	23540	M/s. Bajaj Milk Products Limited
169.	25562	M/s. Katalyst Outsourcing Technologies Private Limited
170.	21113	M/s. Sat Prahlad Finvest Co. Private Limited
171.	5090	M/s. Consort Engineers and Traders Limited
172.	25619	M/s. Golden Blaze Production Private Limited
173.	23616	M/s. Jagdambay Ceramics Private Limited
174.	12282	M/s. Coronet Biomedica Private Limited
175.	20437	M/s. Gables Vacation Club Private Limited
176.	7658	M/s. Quality Plywood Co. Private Limited
177.	7632	M/s. Faradays Information Production Private Limited
178.	17544	M/s. Bhagwati Hardware Products Private Limited
179.	27823	M/s. Baba Deep Singh Builders and Colonies Private Limited
180.	13211	M/s. Licto Solvex Limited
181.	7903	M/s. Supreme Pipes Private Limited
182.	23837	M/s. Aman Katha Mills Private Limited
183.	25741	M/s. Uppal Kang Developers Private Limited
184.	20028	M/s. Beraco Sales Private Limited

1	2	3
185.	20613	M/s. Tee Plast Private Limited
186.	16668	M/s. Roshan Tools Private Limited
187.	21767	M/s. Jashan Distilleries Private Limited
188.	2595	M/s. Punjab State Irons Limited
189.	14377	M/s. Jan Sukj Smruti Motels Private Limited
190.	4108	M/s. Engineers Construction Company Private Limited
191.	7912	M/s. Asian Galven Towers Private Limited
192.	3976	M/s. Syal Brother Hire Purchase Private Limited
193.	24712	M/s. Rikhy Hotels Private Limited
194.	19956	M/s. Jullundur Hotels Private Limited
195.	20812	M/s. Panchsheel Creations Limited
196.	24088	M/s. Nitin Agro Consultants Private Limited
197.	21565	M/s. Swam Bharat Impex Limited
198.	11120	M/s. Brothers Synthetics Limited
199.	4434	M/s. Veejay Yarns & Textiles Private Limited
200.	3812	M/s. Echel Quality Engg. Works Private Limited
201.	24613	M/s. C. M. T. Infortech Private Limited
202.	24767	M/s. Group 17 Security Services Private Limited
203.	25059	M/s. Rising Sun Poultry Private Limited
204.	19439	M/s. Manohar Financial Investment Services Limited
205.	6612	M/s. Parkash Color Lab Private Limited
206.	6770	M/s. United (India) International Private Limited
207.	13153	M/s. Ashni Hill Resort Private Limited
208.	19440	M/s. M. A. S. Builders Private Limited
209.	22482	M/s. Bently Technologies Private Limited
210.	10000	M/s. Dee Kay Plastics Private Limited
211.	22360	M/s. I-Ninety One Interconnect Limited
212.	20380	M/s. Shastrisons Jewellers Private Limited
213.	26147	M/s. Cupid Marketing Private Limited
214.	27172	M/s. Novelty Rave Entertainment Private Limited

1	2	3
215.	14634	M/s. Robin Laminates Private Limited
216.	6548	M/s. Unistar Electrodes Private Limited
217.	21129	M/s. Stag Auto Private Limited
218.	20503	M/s. K. Rai Enterprises Private Limited
219.	8223	M/s. M. Soni & Company Private Limited
220.	5066	M/s. Punjab Industrial Security & Consultancy Services Private Limited
221.	25975	M/s. Consultant Marketing Private Limited
222.	24655	M/s. Pun-Aussie Infotech (India) Private Limited
223.	24594	M/s. Aim Traders Private Limited
224.	24038	M/s. Ashutosh Sales Private Limited
225.	19456	M/s. Kings Supermarket Private Limited
226.	22313	M/s. Royal Finman (India) Private Limited
227.	20526	M/s. Beni Resorts Private Limited
228.	20055	M/s. Shant Resorts Private Limited
229.	21764	M/s. Ashish Knit (India) Private Limited
230.	23322	M/s. J. M. B. Impex Private Limited
231.	11807	M/s. Gold India Hotels Limited
232.	8672	M/s. Royal Confectioners Private Limited
233.	4504	M/s. S. P. C. Motertech Private Limited
234.	4364	M/s. Hansons (India) Private Limited
235.	6345	M/s. Abco Steels Private Limited
236.	13570	M/s. Kochar Chemicals Private Limited
237.	11582	M/s. Fiberona Trading & Investments Private Limited
238.	6381	M/s. Goal Engineering & Steels Private Limited
239.	20854	M/s. Sparakle Pharmachem Private Limited
240.	8355	M/s. Guru Nanak Financial Services Private Limited
241.	25078	M/s. Nand Isher Overseas Private Limited
242.	24373	M/s. Guru Harkrishan Impex Private Limited
243.	19604	M/s. Tridev Medicare Private Limited

1	2	3
244.	16628	M/s. Anumalika Investments Private Limited
245.	23161	M/s. Shree Roop Infotech Private Limited
246.	26138	M/s. Savidha Infotech Private Limited
247.	8742	M/s. Gold Color Lab Private Limited
248.	6114	M/s. Vijay Color Lab Private Limited
249.	20279	M/s. Gulab Alloys & Metals Private Limited
250.	26323	M/s. Scube Innovations Private Limited
251.	22071	M/s. Lov Fabrics Private Limited
252.	24762	M/s. Stargate Network Private Limited
253.	24583	M/s. Unique Merchandise Private Limited
254.	16972	M/s. Talwar Brothers Property Dealers Private Limited
255.	11291	M/s. Duke Industrial Finance Limited
256.	19650	M/s. Kshitij Paints Private Limited
257.	21275	M/s. Goldendays Steels Private Limited
258.	14253	M/s. Shiv Shankar Fertilizers Private Limited
259.	8581	M/s. Amazon Laboratories Private Limited
260.	24194	M/s. Tee Emm Real Estates Private Limited
261.	17619	M/s. Action Auto Engineers Private Limited
262.	25904	M/s. Shiens Impex Private Limited
263.	27615	M/s. Jai Maan Bhanbouri Trading Private Limited
264.	23933	M/s. Sohi Hotels Private Limited
265.	15459	M/s. Assem Projects & Management Consultants Private Limited
266.	22770	M/s. Capstan Specialities Private Limited
267.	12651	M/s. S. P. Hospitals Private Limited
268.	14018	M/s. Bhullar Exports Private Limited
269.	10864	M/s. Sharn Speciality Papers Private Limited
270.	14841	M/s. Mega Expo Agro Limited
271.	11361	M/s. Sarabjot Leasing Private Limited
272.	23543	M/s. Vishwas Enterprises Limited

1	2	3
273.	11557	M/s. Nippon Impex Private Limited
274.	11558	M/s. Ostrich Trading & Investment Private Limited
275.	14202	M/s. Maya Fashion Knitwears Limited
276.	8299	M/s. Jyoti Appliances Private Limited
277.	26435	M/s. Celestial Exim Private Limited
278.	27715	M/s. FTF Software Development Private Limited
279.	6299	M/s. Deesh Poly Pack Private Limited
280.	17638	M/s. Bhawani Pulp & Board Private Limited
281.	23895	M/s. Stellar Processors Private Limited
282.	19157	M/s. Bhaskar Films Private Limited
283.	16513	M/s. Youngman Fibres Limited
284.	18066	M/s. Leo Towers Limited
285.	7792	M/s. Naveneet Constructions Private Limited
286.	14085	M/s. Anoopam Cycles Private Limited
287.	11962	M/s. Punjab Gears Limited
288.	24195	M/s. Future Real Estates Private Limited
289.	24196	M/s. Genius Real Estates Private Limited
290.	22493	M/s. Digest Infotech Private Limited
291.	9355	M/s. Guru Kirpa Printing Mills Private Limited
292.	16654	M/s. Sunshine Chemicals Private Limited
293.	13008	M/s. R. R. Bakers Private Limited
294.	10585	M/s. Chinar Engineering Private Limited
295.	11810	M/s. Tarun Filling Centre Private Limited
296.	20831	M/s. Prime Agrowood Plantation Limited
297.	8282	M/s. R. S. Builders Private Limited
298.	21295	M/s. Cross Country Immigration Consultancy Private Limited
299.	11099	M/s. Pegasus Informatics Private Limited
300.	5616	M/s. Vardhman Alloys and Steels Private Limited
301.	3553	M/s. Arya Bus Transport Company Private Limited

1	2	3
302.	13455	M/s. Giri Lime and Chemical Private Limited
303.	21258	M/s. Prem Chand Roller Flour Mills Private Limited

M. R. DAS
Asstt. Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act 1956 and application under Simplified Exit Scheme, 2003 under Section 560 of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Jammu-180 012, the 31st March 2006

No.ROC/JMU/560(5)/SES-2003.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day have been struck off from the Register of Companies and the Companies stand dissolved from the date of publication of this notice:—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	475	M/s. Ethicare Laboratories Private Limited
2.	549	M/s. Baba Marbles (J & K) Private Limited
3.	642	M/s. Atlas Carpet Manufacturers Private Limited
4.	786	M/s. Sopore Investments Private Limited
5.	788	M/s. Qazi Gund Investments Private Limited
6.	789	M/s. Beerwah Investments Private Limited
7.	790	M/s. Kargil Investments Private Limited
8.	791	M/s. Batote Investments Private Limited
9.	792	M/s. Ladakh Investments Private Limited
10.	793	M/s. Kohsheen Investments Private Limited
11.	794	M/s. Doda Investments Private Limited
12.	795	M/s. Lolaab Investments Private Limited
13.	898	M/s. D. V. M. Chemicals Private Limited
14.	920	M/s. Jhon Packs Private Limited
15.	1107	M/s. Blue Chip Components Private Limited
16.	1133	M/s. Devika Hatch Cock Private Limited
17.	1167	M/s. Panzi Finance and Leasing Private Limited
18.	1196	M/s. Chaku Medical Centre Private Limited

1	2	3
19.	1227	M/s. Pavani Hire Purchase Private Limited
20.	1370	M/s. Rajson Investments Private Limited
21.	1380	M/s. Ismail Goods Carrier Private Limited
22.	1445	M/s. S. C. Marketing Private Limited
23.	1467	M/s. Ajay Resins Private Limited
24.	1495	M/s. Chenab Paper Private Limited
25.	1552	M/s. Chenab Chemicals Private Limited
26.	1553	M/s. Chenab Carbide Private Limited
27.	1636	M/s. Nath Hire Purchase and Finance Private Limited
28.	1789	M/s. C. T. R. Plys Private Limited
29.	1925	M/s. Sai Tosh Infosystems Private Limited
30.	2294	M/s. Shree Guru Kripa Sponge Iron Private Limited
31.	359	M/s. Friends Associates Financiers and Traders Private Limited
32.	995	M/s. Chadoora Finance and Investment Company Private Limited
33.	999	M/s. Gurees Finance and Investment Company Private Limited
34.	1000	M/s. Prang Finance and Investment Company Private Limited
35.	1004	M/s. Rainawari Finance and Investment Company Private Limited
36.	1701	M/s. Evergreen Motor and General Financiers Private Limited
37.	1798	M/s. M. G. Automobiles Private Limited

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 7th April 2006

No. ROC/WB/IPC/File-1/560/SES-2005.—Notice is hereby given pursuant to the Sub Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved: -

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	83058	M/s. Anjeneya Entrepreneurs Private Limited
2.	46367	M/s. Caravan Developers Private Limited

1	2	3
3.	36915	M/s. Jajodia Electronics Private Limited
4.	63257	M/s. Jay Gopal Agro-Tech Private Limited
5.	26179	M/s. Mimani Properties Private Limited
6.	82976	M/s. M. R. M. D. Fastner Private Limited
7.	38062	M/s. North Bengal Glass Factory Private Limited
8.	81199	M/s. Peacock Impex Private Limited
9.	32415	M/s. Prabhuji Vinnyog Private Limited
10.	19484	M/s. Shree Narayan Oil & Rice Mills Private Limited
11.	49769	M/s. Standard Microsoft (India) Limited
12.	47276	M/s. Star Knit Fashions Private Limited
13.	41326	M/s. Stuti Holdings Private Limited
14.	55697	M/s. Vinny Engineering Enterprises Private Limited
15.	77756	M/s. Wellman Commotrade Private Limited

T. P. SHAMI
Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. E5 Systems (India) Private Limited

Bangalore, the 31st March 2006

No. ROCB/AROC (SKG)/560(3)/2005-06/25800.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the expiration of three months from the date hereof the name of the company M/s. E5 Systems (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off Registrar of Companies and the said company will be dissolved.

SANJAY KUMAR GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Emakulam Kochi-21, the 4th April 2006

No. 560(5)/Liq/1828.—Notice is hereby given pursuant to the Sub Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day

been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

SL No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	10810	M/s. Athira Constructions Private Limited
2.	10812	M/s. Top India Private Limited
3.	10818	M/s. Printarts Offset Private Limited
4.	10819	M/s. Ambari Textiles and Ready Mades Private Limited
5.	10821	M/s. Ours Investment Limited
6.	10829	M/s. Hasan Sha Chits and Finance Private Limited
7.	10848	M/s. Decruz Hotflame Private Limited
8.	10858	M/s. Metro Shipping Private Limited
9.	10860	M/s. Indus Home Appliances (India) Private Limited
10.	10863	M/s. Team of Indian Market Enquiry Services Private Limited
11.	10869	M/s. Amma Finance Private Limited
12.	10881	M/s. Muthoot Benefit Fund (Trivandrum) Limited
13.	10883	M/s. P. V. Ukkuru Exports Private Limited
14.	10886	M/s. G. S. V. Solutions and Consultancy Private Limited
15.	10889	M/s. Netage Innovative Solutions Private Limited
16.	10901	M/s. Vettukad Kuries and Loans Private Limited
17.	10905	M/s. Navcdhaya House Leasing and Hire Purchase Private Limited
18.	10906	M/s. Farmers Club Private Limited
19.	10917	M/s. Manorama Exports Private Limited
20.	10927	M/s. Technics and Logics Private Limited
21.	10929	M/s. Vriksha Enterprises Private Limited
22.	10934	M/s. Cimsuar Laminations (India) Private Limited
23.	10936	M/s. Gramam Plastics Private Limited
24.	10942	M/s. Jayardy Constructions Private Limited
25.	10949	M/s. Prodigy Soft (India) Private Limited
26.	10954	M/s. Ashly Hire Purchase Chits and Finance Private Limited
27.	10956	M/s. Veenus Coaching Academy Private Limited

1	2	3
28.	10957	M/s. Quick Rich Leasing and Hire Purchase Private Limited
29.	10965	M/s. Sharp Printing Machines Private Limited
30.	10975	M/s. Cool Breeze Systems Private Limited
31.	10980	M/s. Onus Tour Package Company Private Limited
32.	10982	M/s. Sovereign Associates Private Limited
33.	10990	M/s. Classic Makers Private Limited
34.	10991	M/s. Inter Trans Private Limited
35.	11001	M/s. A. M. A. Amusement Park Limited
36.	11002	M/s. Citi Hire Purchase Private Limited
37.	11030	M/s. Sree Mahalasa Chits and Investments Private Limited
38.	11050	M/s. Independent Micro Systems Private Limited
39.	11051	M/s. The Kuravilangad Kuries Private Limited
40.	11070	M/s. Lintas Homes 'N' Realtors Private Limited
41.	11076	M/s. Agrivision (India) Private Limited
42.	11078	M/s. Hero's Wing General Finance and Investment Company Private Limited
43.	11080	M/s. Invest Credits and Chits Private Limited
44.	11083	M/s. Consumers' Popular Links Limited
45.	11087	M/s. K P P Nambiar & Associates Private Limited
46.	11089	M/s. Samudra Rubbers Private Limited
47.	11112	M/s. B. D. K. Engineering Equipments (Exports) Private Limited
48.	11130	M/s. World News Private Limited
49.	11141	M/s. Trend Tools Private Limited
50.	11151	M/s. Sree Muruga Chits Private Limited
51.	11167	M/s. Pamba Hire Purchase and Credits Private Limited
52.	11206	M/s. Athulya Services India Private Limited
53.	11207	M/s. Insoft Access (India) Private Limited
54.	11210	M/s. Gaya Herbal Laboratories Private Limited
55.	11215	M/s. Pallikkara Chits Funds Private Limited
56.	11232	M/s. Sannidhi Benefit Company Limited

1	2	3	1	2	3
57.	11233	M/s. Kairali Medical and Ayurvedic Research Centre Private Limited	87.	11623	M/s. Micron Particles Private Limited
58.	11249	M/s. Casa Mont Establiche Private Limited	88.	11647	M/s. The Noble Credits Private Limited
59.	11252	M/s. Windia Polymers Private Limited	89.	11659	M/s. Gowri Nandana Pharmaceuticals Private Limited
60.	11277	M/s. The Ayurvedic Hospitals Private Limited	90.	11673	M/s. Srinikethan Cashews Private Limited
61.	11283	M/s. Paradise Chits and Finance Company Private Limited	91.	11674	M/s. Snehashringala Agro Products Private Limited
62.	11298	M/s. Sivaraj Marketing Private Limited	92.	11675	M/s. Mahalakshmi Advances and Kuries Private Limited
63.	11304	M/s. Promoter Chits Private Limited	93.	11685	M/s. Meridian Lines Private Limited
64.	11312	M/s. Perfect Vision Private Limited	94.	11689	M/s. Rubicon Industrial Agencies Private Limited
65.	11317	M/s. Ostar Exports Private Limited	95.	11702	M/s. Star Investments and Finance Private Limited
66.	11325	M/s. Excel Roller Flour Mills Private Limited	96.	11723	M/s. Jithin Traders Private Limited
67.	11337	M/s. Re-Inform Private Limited	97.	11737	M/s. Bhumidaya Holdings Private Limited
68.	11343	M/s. U-Tel Finance Consultants Private Limited	98.	11758	M/s. Aqualite Power Systems Private Limited
69.	11349	M/s. Centurian Exports Private Limited	99.	11778	M/s. K L M Capital Credits and Leasing Private Limited
70.	11351	M/s. Arya Sales Private Limited	100.	11781	M/s. Kampitta Valappil Steels Private Limited
71.	11353	M/s. Orion Trades and Services Systems Private Limited	101.	11788	M/s. Garcini Agro and Trades Private Limited
72.	11357	M/s. Eco Enterprises Private Limited	102.	11791	M/s. Cedar Graphics Private Limited
73.	11360	M/s. Win Chits and Investments (India) Private Limited	103.	11792	M/s. Elysium Retreats Private Limited
74.	11361	M/s. Con Trans Terminal Private Limited	104.	11805	M/s. Vismaya Films Private Limited
75.	11374	M/s. Business Advertisers and Promoters (India) Private Limited	105.	11806	M/s. Cency India Tours Private Limited
76.	11405	M/s. P. S. J. Imports and Exports Private Limited	106.	11833	M/s. Urashima Crafts Private Limited
77.	11420	M/s. Hillway Resorts Private Limited	107.	11871	M/s. Progress India Lucky Link Private Limited
78.	11437	M/s. Maruthua Pharmaceutical Works Private Limited	108.	11877	M/s. Cornerstone Productions and Services Private Limited
79.	11509	M/s. Sanirose Chits India Private Limited	109.	11879	M/s. Malanadu Advanced Systems and Technologies Private Limited
80.	11526	M/s. Summum Bonum Farm Produce Private Limited	110.	11881	M/s. Supreme Channel Private Limited
81.	11527	M/s. Opticals Marketing Private Limited	111.	11886	M/s. Mark Polymers Private Limited
82.	11528	M/s. Ritwiq Inter Trade Private Limited	112.	11892	M/s. Traffic Management Systems Private Limited
83.	11549	M/s. Resource Base Limited	113.	11896	M/s. Rohini Portfolio Management Private Limited
84.	11572	M/s. Shalimar Homes Private Limited	114.	11899	M/s. Metrowide Kuries Private Limited
85.	11598	M/s. Nedumparambil Credits & Capitals Private Limited	115.	11908	M/s. Shepherd Pipes Private Limited
86.	11599	M/s. Syama Lamps Private Limited			

1	2	3	1	2	3
116.	11948	M/s. Vaidooria Hotels Private Limited	148.	12334	M/s. C. N. S. Ayurveda Chikitsalayam Private Limited
117.	11953	M/s. Vallanat Rubber Products Private Limited	149.	12346	M/s. Fanendra Chits Private Limited
118.	11964	M/s. Texas Equipments Private Limited	150.	12371	M/s. Mais Associates General Exports Private Limited
119.	11966	M/s. Intal India Apparel Private Limited	151.	12397	M/s. Excel Lottery Services India Limited
120.	11970	M/s. Killannur Kuries Private Limited	152.	12401	M/s. Good Luck Lottery Agency Private Limited
121.	11972	M/s. Associated Travel and Freight (India) Private Limited	153.	12409	M/s. Lord Ayyappa Advertisers Private Limited
122.	11987	M/s. Mythree Marketing Private Limited	154.	12410	M/s. Florida Agro Tech India Private Limited
123.	11994	M/s. Navrang Bio-Tech India Limited	155.	12424	M/s. Mark Management Private Limited
124.	11995	M/s. Aysha Marine Private Limited	156.	12434	M/s. Orion Distilleries Private Limited
125.	12010	M/s. Menhal Estates Private Limited	157.	12456	M/s. Family Shopping Centre Private Limited
126.	12020	M/s. Tower Parts Private Limited	158.	12462	M/s. Essix Forex Private Limited
127.	12024	M/s. Hexa Garments Private Limited	159.	12478	M/s. Swasraya Chit Funds Private Limited
128.	12034	M/s. Skill Tech Systems and Merchandise Private Limited	160.	12483	M/s. All Care India Marketing Private Limited
129.	12050	M/s. Trinity Healthcare Private Limited	161.	12486	M/s. Smith Cherry Instruments Private Limited
130.	12058	M/s. KCA Consultants Private Limited	162.	12493	M/s. Sree Ganesh Traders Private Limited
131.	12071	M/s. Cartier Chits Private Limited	163.	12524	M/s. King David Hotels Private Limited
132.	12085	M/s. Spiegel Networks Private Limited	164.	12536	M/s. Baka Export Sales and Trades Private Limited
133.	12088	M/s. Rohini Agro Fertilizers Private Limited	165.	12621	M/s. Mumsai Marketing Company Private Limited
134.	12197	M/s. Agro Tech Organic Fertilizers and Chemicals Private Limited	166.	12644	M/s. Theerthagiri Green Farms Private Limited
135.	12199	M/s. GCM Trades and Exports Private Limited	167.	12653	M/s. St. Thomas Foods Private Limited
136.	12203	M/s. Centre for HRD and Management Services Private Limited	168.	12675	M/s. Masterline Automation Private Limited
137.	12219	M/s. Sreedhari Aryavaidyasala Private Limited	169.	12696	M/s. Cheeroth Developers Private Limited
138.	12220	M/s. Dayapuram Hospitals Private Limited	170.	12699	M/s. Galaxy Gas Car Private Limited
139.	12226	M/s. Akkara Car Company Private Limited	171.	12716	M/s. Priya Suhruth Publishers Private Limited
140.	12242	M/s. Hiba Trading Private Limited	172.	12738	M/s. Mythri Rubber Factory Limited
141.	12243	M/s. Malabar Health Care Limited	173.	12740	M/s. T. J. John Services Private Limited
142.	12244	M/s. JRB Rubbers and Marketing Private Limited	174.	12798	M/s. Pratyasha Graphics Private Limited
143.	12258	M/s. Karakat Hotels Limited	175.	12803	M/s. Thrissur Academy of Advanced Studies Private Limited
144.	12295	M/s. Infratech Engineering Private Limited	176.	12816	M/s. Noveon Systems Private Limited
145.	12298	M/s. Ruboblack Pre-Treads Private Limited	177.	12821	M/s. Qed Technologies Private Limited
146.	12319	M/s. Strucon Engineers India Private Limited			
147.	12326	M/s. Mithragiri Resorts Private Limited			

1	2	3	1	2	3
178.	12832	M/s. Southern Aviation Services (India) Private Limited	207.	13331	M/s. TRV Systems Private Limited
179.	12857	M/s. Atreya Herbal Remedies Private Limited	208.	13337	M/s. Jesica Polymers Private Limited
180.	12862	M/s. Essbee Soft Private Limited	209.	13338	M/s. ARF Travel Enterprises Private Limited
181.	12875	M/s. Tarus Nut Products Private Limited	210.	13339	M/s. Islander Eco Tourism Private Limited
182.	12883	M/s. Trivandrum Cancer Institute Limited	211.	13357	M/s. Sindhu Ayurvedics Private Limited
183.	12919	M/s. Harippad Security Agencies Private Limited	212.	13358	M/s. Dial Publications (India) Private Limited
184.	12972	M/s. Prathibhasoft Private Limited	213.	13360	M/s. Nest Cyber Shack Private Limited
185.	12977	M/s. Rebeiro Engineering and Construction Private Limited	214.	13361	M/s. Corbie Infosolutions Private Limited
186.	12999	M/s. Prekshaka Creations Private Limited	215.	13363	M/s. Diamond Channel Private Limited
187.	13000	M/s. Citas Trade Links Private Limited	216.	13374	M/s. Star Marketing Private Limited
188.	13003	M/s. Leisure World Entertainments Private Limited	217.	13392	M/s. Just Dial Satellite Communications Private Limited
189.	13006	M/s. Indu Global Trade Private Limited	218.	13396	M/s. Sense Business Communications (Kerala) Private Limited
190.	13010	M/s. Trionia Soft Tech Private Limited	219.	13397	M/s. Trichur Institute of Medical Transcription Private Limited
191.	13016	M/s. Nithin Lottery Distributors Private Limited	220.	13417	M/s. Cybele Herbal Specialities Private Limited
192.	13042	M/s. Comsoft Infosys India Private Limited	221.	13425	M/s. BMB Constructions Private Limited
193.	13083	M/s. Sarani Shares and Stocks Private Limited	222.	13443	M/s. Brinlaw Mercantile Company Private Limited
194.	13088	M/s. Jayatha Kuries Private Limited	223.	13454	M/s. Veena Chits Private Limited
195.	13091	M/s. Genfocus Informatic Systems Private Limited	224.	13469	M/s. Spectra Healthcare Services Private Limited
196.	13142	M/s. Inter Shipping Travels and Exhibitions Private Limited	225.	13484	M/s. Kelvin International Limited
197.	13171	M/s. Alliance Abodes and Edifices Limited	226.	13534	M/s. Sabej Prayans Private Limited
198.	13172	M/s. New World Printing & Publishing Company Private Limited	227.	13536	M/s. Lipi Software Park Private Limited
199.	13200	M/s. Pencil Infocom Private Limited	228.	13589	M/s. Kerala Integrated Marketing Network Private Limited
200.	13203	M/s. V. C. Engineering and Management Consultants Private Limited	229.	13613	M/s. Vihayas Infotech Private Limited
201.	13221	M/s. Cochin Sacs Musics Private Limited	230.	13642	M/s. Secure Cyber Solutions Private Limited
202.	13247	M/s. Rabgusto Technologies Private Limited	231.	13662	M/s. Blaze Apparels Private Limited
203.	13257	M/s. Tharakan Exports Private Limited	232.	13698	M/s. Grasshopper Infotech Private Limited
204.	13269	M/s. Sahasra Expertise Limited	233.	13706	M/s. Aspect Infotech Private Limited
205.	13294	M/s. Solid Termic Bonds (India) Private Limited	234.	13707	M/s. Zeneca Pharmaceuticals Private Limited
206.	13329	M/s. Thiruvananthapuram Express Printers and Publishers Private Limited	235.	13710	M/s. Panache Communications Private Limited
			236.	13717	M/s. Janatha Holding Private Limited
			237.	13725	M/s. Hits Entertainment Private Limited

1	2	3	1	2	3
238.	13730	M/s. Tranzmed Technologies (India) Private Limited	269.	15353	M/s. Ess Cee Distributors Private Limited
239.	13736	M/s. Rajaprastham Finance Private Limited	270.	15383	M/s. Fortune Buiscomsoft Private Limited
240.	13746	M/s. Crystal Web Site Private Limited	271.	15403	M/s. D-Link Marketing Private Limited
241.	13760	M/s. Toursetters Travels Private Limited	272.	15436	M/s. Bethesda Healthcare Service Private Limited
242.	13768	M/s. Itsoft Solutions Private Limited	273.	15469	M/s. San Silicon IT Private Limited
243.	13788	M/s. Mint Valley E-Commerce Private Limited	274.	15474	M/s. Prime Academy for Research in Talents Private Limited
244.	13800	M/s. Willy & Willy Software Private Limited	275.	15573	M/s. NGB Hygine Company Private Limited
245.	13802	M/s. Muskera Visions Private Limited	276.	15598	M/s. Madona Info Tech Private Limited
246.	13805	M/s. East West Internet Club Private Limited	277.	15683	M/s. Micron Hi-Technologies Private Limited
247.	13809	M/s. KG Infotech Private Limited	278.	15827	M/s. Sagam Marketing Private Limited
248.	13818	M/s. Softxl Technology Services Private Limited	279.	13955	M/s. Busybiz Systems Limited
249.	13825	M/s. V. H. and M. H. Builders and Contractors Private Limited	280.	13964	M/s. Adventsoft Info Solutions Private Limited
250.	13827	M/s. Eranhikkal Enterprises Private Limited	281.	13982	M/s. Krishna Transcripts Private Limited
251.	13830	M/s. Fibertronics (India) Private Limited	282.	13991	M/s. B2C Web Commerce Private Limited
252.	13942	M/s. T. T. Share Links Private Limited	283.	14042	M/s. Peekay Flow Technology Private Limited
253.	14895	M/s. Benign Chemicals and Pharmaceuticals Private Limited	284.	14044	M/s. Aptitude Systems Private Limited
254.	14903	M/s. August Educational Exchange Services Private Limited	285.	14064	M/s. BCC Tour Operators Limited
255.	14938	M/s. Health Care Engineering Private Limited	286.	14068	M/s. Triumphat Shipping Private Limited
256.	14943	M/s. Centeam Consultants Private Limited	287.	14079	M/s. Koyilandy Institute of Information Technology Private Limited
257.	14962	M/s. Hi-vision Marketing Private Limited	288.	14104	M/s. Intersell Trading Private Limited
258.	14992	M/s. BMB Health Care Consultany Services Private Limited	289.	14119	M/s. Fastnet (India) Private Limited
259.	15010	M/s. Sun Power Network Private Limited	290.	14170	M/s. Maroly Chits Private Limited
260.	15074	M/s. Palakkad Hospitals Private Limited	291.	14177	M/s. Heritage Retreat Private Limited
261.	15179	M/s. Genuine Binary Solutions Private Limited	292.	14203	M/s. Base 2 Solutions Private Limited
262.	15181	M/s. Pandavans Infotech Private Limited	293.	14206	M/s. Sree Krishna Home Needs Private Limited
263.	15190	M/s. Apollo IT Systems Private Limited	294.	14262	M/s. Blue Buck Systems and Marketing Private Limited
264.	15221	M/s. Xgauge Info Solutions Private Limited	295.	14303	M/s. Coolweb Technologies Private Limited
265.	15237	M/s. Can Courier and Cargo Private Limited	296.	14315	M/s. Mammen Engineers Private Limited
266.	15269	M/s. Cochin E-I and IT Park Private Limited	297.	14321	M/s. Highness Techno Foods Limited
267.	15299	M/s. Sashta Goods Carriers Private Limited	298.	14360	M/s. Rubber Exchange E.Com Private Limited
268.	15343	M/s. Cheetah Marketing Private Limited	299.	14385	M/s. Euro Web-net (India) Private Limited

1	2	3
300.	14402	M/s. Ameskey Exports and Imports Private Limited
301.	14410	M/s. Cross Link Communications Private Limited
302.	14419	M/s. E-Spiders Online Private Limited
303.	14420	M/s. Soft N Hard I. T. Solutions Private Limited
304.	14468	M/s. Geographica Technologies Private Limited
305.	14539	M/s. Nandi Softech and Capital Private Limited
306.	14540	M/s. Unitech Digital Systsems and Capital Private Limited
307.	14544	M/s. Care Multi Media Limited
308.	14551	M/s. River Front Resorts Kerala Private Limited
309.	14552	M/s. Aryans River Resorts Kerala Private Limited
310.	14553	M/s. Athirapilly Stream Resorts Private Limited
311.	14579	M/s. Newlife Networking Associates Private Limited
312.	14601	M/s. Elamana Chitty Fund Private Limited
313.	14640	M/s. Eam White Marketing Private Limited
314.	14661	M/s. Rebeiro Mercantile Private Limited
315.	14693	M/s. Mikado Marketing Systems Private Limited

1	2	3
316.	14702	M/s. Poulolock Safety Systems Private Limited
317.	14750	M/s. Super-Tech Marketing Technologies Private Limited
318.	14767	M/s. Hail Tradelinks Private Limited
319.	14770	M/s. Hotel Sanoj Private Limited
320.	14875	M/s. Arrowline Technologies Private Limited

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vijayeebhava Investments Private Limited

Chennai, the 8th March 2006

No. 39953/560(3)/2006.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vijayeebhava Investments Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off Register and the said company will be dissolved.

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu